



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 1998 (भाद्रपद 21, 1920)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 1998 (BHADRA 21, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग I—खण्ड 4 [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.]

रक्षा मंत्रालय
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1998

सं० 675, दिनांक 4 अगस्त, 1998--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री भगत सिंह, को जो इस प्रभाग में उप वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, 24-7-98 (पूर्वाह्न) से या अगले आदेशों तक डम प्रभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त कर हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय आशु-लिपिक संवर्ग के ग्रेड "बी" आशुलिपिक श्री पी० के० दुवे 30-7-98 (पूर्वाह्न) से 30-9-98 तक या नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, को तदर्थ आधार पर निजो सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र मोहन,
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

(थल सेना विभाग)

सं० 676, दिनांक 6 अगस्त 1998:—थल सेना अनुदेश 15/79, तथा थल सेना अनुदेश संख्या 5/96 द्वारा इसमें जारी संशोधन के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्त करते हैं:—

निर्यात सेना

सैनिक दस्त चिकित्सा कौर

(अल्प कालीन/स्थाई कमीशन)

लैफ्टिनेंट अथवा समकक्ष रैंक में (परख पर)

एच० रवि कुमार, एस० डी० एम० (कुपेम्पु) (डी एस०-11910 एन०)--17 मार्च, 1997।

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17-03-95 से दी जाती है। इसमें स्नातकोत्तरअवधि के लिये दी गई 24 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल हैं, जो उपादान के लिये नहीं गिनी जायेगी।)

07-03-98 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक डमका सम्बन्ध उपर्युक्त आफिसर से है, रद्द किया जाता है।

जे० एल० शर्मा
त्रिगेडियर
उप डी जी डी एम

(सैनिक अभियन्ता सेवायें)

सं० 677, दिनांक 6 अगस्त, 1998:—राष्ट्रपति निम्न-लिखित व्यक्तियों को उनके नामों के सामने, दर्शाई गई तारीखों से अगले आदेशों तक सहायक अभियन्ता भवन और सड़क के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं—अधिकारी दो वर्ष परखावधि पर रहेंगे:—

(क) एम० ई० एस०-108245 श्री के० टी० चाक्रवर्त्य
—17 फरवरी, 1998 (पूर्वाह्न)

(ख) एम० ई० एस०-137438 श्री के० अरविन्दाकशन
—19 फरवरी 1998 (पूर्वाह्न)।

(ग) एम० ई० एस०-307210 श्री चरन जीत सिंह—
05 फरवरी, 1998 (पूर्वाह्न)।

(घ) एम० ई० एस०-303903 श्री जान चन्द थरेजा
—15 दिसम्बर, 1997 (पूर्वाह्न)।

(च) एम० ई० एस०-187038 श्री अन्नहम टी० टी०
—05 फरवरी, 1996 (पूर्वाह्न)।

(छ) एम० ई० एस०-309497 श्री मुमेश कुमार
चौपड़ा—11 मार्च, 1997 (पूर्वाह्न)।

(ज) एम० ई० एस०-155524 श्री शंका वेदास्तचर
रंगनाथन—11 अगस्त, 1997 (पूर्वाह्न)।

(झ) एम० ई० एस०-304388 श्री नारायण सिंह ओबराय
—11 अगस्त, 1997 (पूर्वाह्न)।

(ट) एम० ई० एस०-306906 श्री रमेश चन्द शर्मा
—16 फरवरी, 1995 (पूर्वाह्न)।

(ठ) एम० ई० एस०-303901 श्री सोम दत्त—11 दिसम्बर
1997 (पूर्वाह्न)।

(ड) एम० ई० एस०-306229 श्री भोला नाथ हाण्डा
—05 जनवरी, 1998 (पूर्वाह्न)।

(द) एम० ई० एस०-430600 श्री प्रमोद कुमार
रस्तोगी—04 मार्च, 1998 (पूर्वाह्न)।

(ण) एम० ई० एस०—308195 श्री सुदेश कुमार—
—15 मई, 1998 (पूर्वाह्न)।

(त) एम० ई० एस०-455071 श्री दिनेश कुमार शर्मा
—27 अप्रैल, 1998 (पूर्वाह्न)।

(थ) एम० ई० एस०—466137 श्री विनोद बाबू
शर्मा—12 मई 1998 (पूर्वाह्न)।

(द) एम० ई० एस०—415164 श्री प्रतिपाल सिंह
भाटिया—29 अप्रैल, 1998 (पूर्वाह्न)।

(ध) एम० ई० एस०-148956 श्री दाव कुरियन—
06 अप्रैल, 1998 (पूर्वाह्न)।

(न) एम० ई० एस०-304735 श्री चुन्नी लाल कोतवाल
02 मार्च 1998 (पूर्वाह्न)।

(प) ए० ई० एम०—135733 श्री सी० पोन्नुरंधम
राजन—29 अप्रैल, 1998 (पूर्वा०)।

(फ) एम० ई० एस०—460526 श्री राम जी—26
फरवरी, 1998 (पूर्वा०)।

(ब) एम० ई० एस० 308249 श्री हरबन्स मिह—
13 फरवरी, 1995 (पूर्वा०)।

(भ) एम० ई० एस०—304789 श्री देवेन्द्र नाथ
विरमानी—24 मार्च, 1998 (पूर्वा०)।

गीता चैटर्जी,
अवर सचिव

नों मेना शाखा

सं० 678, दिनांक 07 अगस्त 1998—राष्ट्रपति निम्न-लिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दिये गये दिनांक में उप आयुक्त पूर्ति अधिकारी गेड-II के पद पर नियुक्त करते हैं:—

क्रमांक	नाम	दिनांक
(क)	श्री अकबाल अली	06 जुलाई 98 (पूर्वाह्न)
(ख)	श्री अरविन्द कुमार मण्डल	—14 जुलाई 98 (पूर्वा०)

2. ये दो साल तक परखाधीन रहेंगे।

कमोडोर बी० के० आहलुवालिया,
निदेशक सिविलियन कार्मिक

कैन्टीन स्टोर विभाग

सं० 679, दिनांक 10 अगस्त, 1998—राष्ट्रपति, श्री बी० के० राजन, ई० ई० को 09 जुलाई, 1998 से सिविल पद के लिये निर्धारित अधिर्वाषिता की आयु तक, इसमें जो भी पहले हो, दो वर्ष की अवधि, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के लिये कैन्टीन स्टोर विभाग से सहायक महाप्रबन्धक सम्पदा एव कार्य के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं।

टी० पी० मण्डल,
अवर सचिव

वायु सेना मुख्यालय

सं० 680, दिनांक 29 जुलाई, 1998—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित कर्मचारियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में उनके नाम के आगे उचित तिथि से अगले आदेश जारी होने तक सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

- | | |
|------------------------|------------|
| (1) श्री ए० के० सिंह | 30-12-1997 |
| (2) श्री अरविन्द | 02-01-1998 |
| (3) श्री एम० आर० कडोले | 20-01-98 |
| (4) श्री जी० के० सिंह | 03-02-98 |

रेनु के० राजू,
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

आर्मी शाखा

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थाई कमीशन

सं० 681, दिनांक 03 अगस्त, 1998—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को मिलिट्री नर्सिंग सेवा (नियमित) में सेना अनुदेश 61/77 के अन्तर्गत दिनांक 03 जून, 1986 (वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति के लिये दिनांक 03 जून, 1985) में स्थाई कमीशन प्रदान करते हैं :—

लेफ्टीनेन्ट

कुमारी पी० अम्बिका देवी—एन० आर०—18614 एल०।

- कुमारी अमिता देवरानी—एन० आर०—18615 एन०।
 कुमारी जेसी मार्टिन—एन० आर०—18616 डब्ल्यू०।
 कुमारी पूनम सचदेव—एन० आर०—18617 वाई०।
 कुमारी रानी जार्ज—एन० आर०—18618 एफ०।
 कुमारी मेरी थॉमस के०—एन० आर०—18619 के०।
 कुमारी हरिन्दर पाल—एन० आर०—18620 वाई०।
 कुमारी स्टेलेना सी० जोसेफ—एन० आर०—18621 एफ०।
 कुमारी सेली कुट्टी सेवास्टिन—एन० आर०—18622 के०।
 कुमारी विभा शर्मा—एन० आर०—18623 एम०।
 कुमारी जयालक्ष्मी एस०—एन० आर०—18624 पी०।
 कुमारी जौली सुसन् थॉमस—एन० आर०—18625 एक्स०।
 कुमारी मरिअम्मा वर्गीस—एन० आर०—18626 ए०।
 कुमारी पी० आर० जेर्लीन—एन० आर०—18627 एच०।
 कुमारी सावित्री वी० के०—एन० आर०—18628 एल०।
 कुमारी एनी के० सी०—एन० आर०—18629 एन०।

- कुमारी ए० मेरी वसन्तो—एन० आर०—18630 एच०।
 कुमारी जेसी मथ्यू—एन० आर०—18631 एल०।
 कुमारी लता नायडू—एन० आर०—18632 एन०।
 कुमारी रेजिना पी० एफ०—एन० आर०—18633 डब्ल्यू०।
 कुमारी आन्नादावली एम० जी०—एन० आर०—18634 वाई०।
 कुमारी हेमा लता वी—एन० आर०—18635 एफ०।
 कुमारी गीता मोनी जी—एन० आर०—18636 के०।
 कुमारी सी० डी० प्रशान्ती—एन० आर०—18637 एम०।
 कुमारी ग्रेसी पी० वर्गीस—एन० आर०—18638 पी०।
 कुमारी श्यामला एम० जी०—एन० आर०—18639 एम०।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को मिलिट्री सेवा नर्सिंग (नियमित) में सेना अनुदेश 61/77 के अंतर्गत दिनांक 26 नवम्बर, 1986 (वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति के लिए दिनांक 26 नवम्बर, 85) से स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

लेफ्टीनेन्ट

कुमारी मीना बनर्जी—एन० आर०—18714 डब्ल्यू०।

एस० पदमनीअम्मा

मेजर जनरल

अतिरिक्त डी० जी० एम० एन० एस०

वायु शाखा

सं० 682, वायु शाखा तारीख 23-7-98—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें 27 मई, 1996 से स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था उनकी पुष्टि करते हैं तथा उनके नाम के सामने दी गई तारीख से एन्टीडेट की स्वीकृति देते हैं :—

भारतीय वायु सेना

(वैमानिक इंजीनियरिंग) मैकेनिकल शाखा फ्लाइट अफसर श्रीकान्त चन्चुगारी (23671) रोहित भार्गव (23664) दिपक टाकर (23670), कोमिदी हरीश रेड्डी (23669), निम्माकयाला वैकंटा किशोर नायडू (23662), मुन्दन चैरी पी० सुधीर कुमार (23668), संजय कुर्ग सुदर्शन (23672), राजेश कुमार गुप्ता (23667), ओम प्रकाश भोरे (23666), सायक अहमर बासा (23665), संजय राये (23661), वैकंटा गिरिश एक (23663) -----एन्टीडेट-----
27 मई, 94।

(वैमानिक इंजिनियरिंग) इलक्ट्रॉनिक शाखा

फ्लाइट अफसर सुशील अग्रवाल (23684)--27 मई, 1994।
फ्लाइट अफसर रमन केवल भाटला (23686) --27 मई, 1994।

फ्लाइट अफसर जमसन्देकर मनोज अशोक (23679)--
27 मई 1994।

फ्लाइट अफसर आनन्द जयन्त कारवे (23676)--
27 मई, 1994।

फ्लाइट अफसर राजेश रंजन (23674)--27 मई
1994।

फ्लाइट अफसर सुरप्रीत सिंह सुरी (23680)--
27 मई, 1994।

फ्लाइट अफसर संजय भट्टाचार्यजी (23673)--
27 मई, 1994।

फ्लाइट अफसर राजीव कक्कड़ (23687)--27 मई,
1994।

फ्लाइट अफसर मिश्रा आनन्द (23678)--27 मई,
1994।

फ्लाइट अफसर सी० राधाकृष्णा चेतन (23683)--
27 मई, 1994।

फ्लाइट अफसर मनीश कुमार (23334)--
27 मई, 1994।

फ्लाइट अफसर ए० दिपक (23681)--27 मई,
1994।

फ्लाइट अफसर समीर डुसेजा (23685)--
27 मई, 1994।

फ्लाइट अफसर अरधी कुमार वर्मा (23675)--
27 मई, 1994।

फ्लाइट अफसर जोन एन्थोनी कट्टाकयम (23677)--
27 मई, 1994।

फ्लाइट अफसर सुबतीज सिंह राव (23682)--
27 मई, 1994।

फ्लाइट अफसर सुरज प्रकाश (23688)--27 मई,
1994।

फ्लाइट अफसर जे० जे० जकब (23406)--27 मई,
1994।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें स्थायी
कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था उनके नाम के
सामने दी गई तारीख से पुष्टि करते हैं :--

भारतीय वायु सेना
(पायलट शाखा)

पायलट अफसर परमजीत सिंह (23719)--16 दिस-
म्बर, 1995।

पायलट अफसर संदीप चौधरी (23720)--16 दिसम्बर,
1995।

पायलट अफसर रमनवीर सिंह (23721)--16 दिस-
म्बर, 1995।

पायलट अफसर विक्रम गोविन्द (23722)--16 दिसम्बर,
1995।

पायलट अफसर नवीन प्रभाकरन (23723)--
16 दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर प्रणान्त सिंह (23729)--16 दिस-
म्बर, 1995।

पायलट अफसर समीर जोशी (23730)--16 दिसम्बर,
1995।

पायलट अफसर बाल रैडी, सी० एच० (23732)--
16 दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर पूर्णत विग (23733)--16 दिसम्बर,
1995।

पायलट अफसर सुखमिन्दर सिंह वालिंग (23736)--
16 दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर अविनाश कुमार कौशल (23740)--
16 दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर अमीत कुमार गुप्ता (23742)--
16 दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर गानेश खल्लर (23744)--16 दिस-
म्बर, 1995।

पायलट अफसर शौरभ (23745)--16 दिसम्बर,
1995।

पायलट अफसर कुलदीप सिंह (23747)--
16 दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर प्रगान्त श्रीवास्तव (23748)--
16 दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर वी० एस० राव रामा कृष्णा (13750)
--16 दिसम्बर 1995।

पायलट अफसर विक्रम अरोडा (23751)--
16 दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर अमित बन्सल (23753)--16 दिस-
म्बर, 1995।

पायलट अफसर गौरव मालूजा (23755)--16
दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर संगरत कुमार नायक (23758)--
16 दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर गुरसीमरत सिंह (23760)--
16 दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर जे० महेन्द्रा (23762)--16 दिसम्बर,
1995।

पायलट अफसर अनमोल अरविन्द सस्वादकर (23768)
--16 दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर पंकज दलाल (23769)--16 दिसम्बर,
1995।

पायलट अफसर सुशील विजय सनसारे (23770)--16
दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर सुमनदीप सिंह (23774)--16 दिसम्बर,
1995।

पायलट अफसर रंजीश सिसोदिया (23775)--
16 दिसम्बर, 1995।

पायलट अफसर बलजीत सिंह (23778)--16 दिसम्बर 1995 ।

पायलट अफसर ठाकुर नरसिंह भगत सिंह (23790)--16 दिसम्बर, 1995 ।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था उनके उनके नाम के सामने दी गई तारीख से पुष्टि करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

(उड़ान पायलट शाखा)

पायलट अफसर भवनजीत सिंह (23544), विनय प्रकाश (23557), दिपेश फ्रान्सीज गराशिया (23575)--पुष्टि 17 जून, 1995 से ।

ए० एच० सिद्दिकी,
स्क्वाड्रन लीडर,
ए० डी०पी०ओ० 3डी०

(थल सेना विभाग)

स० 683, दिनांक 06 अगस्त 1998--राष्ट्रपति निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशण्ड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं । पद बहाली की तिथि नाम के सामने अंकित है :-

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर
सूबेदार मेजर (जी डी) के रक में

सूबेदार मेजर रामस्वार्थ साह सुधान्धु (जे सी-133227एच) पहले कोर आफ सिगनल्स--07 जुलाई 1997 ।

सूबेदार (जी डी) के रक में

सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे सी-164357 एम)--पहले रेजिमेन्ट आफ आर्टिलरी--05 नवम्बर 1997 ।

सूबेदार लक्ष्मण सिंह थापा (जे सी-173098 डब्ल्यू) पहले 14 गोरखा राईफल्स--03 जुलाई 1997 ।

सूबेदार मालकियत सिंह (जे सी-100626 एम)--पहले दी सिक्ख एल आई--03 जुलाई 1997 ।

सूबेदार यशपाल सिंह (जे सी-152896 डब्ल्यू)--पहले दी गढवाल राईफल्स--05 जुलाई 1997 ।

सूबेदार धर्म सिंह (जे सी-120390 के)--पहले रेजिमेन्ट आफ आर्टिलरी--06 जुलाई 1997 ।

नायब सूबेदार (जी डी) के रक में

नायब सूबेदार रोहताश कवर (जे सी-747085 वाई)--पहले ई एम ई--04 जुलाई 1997 ।

तारा पद मंडल,
अवर सचिव

स० 684, दिनांक 06 अगस्त 1998--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

केप्टन से मेजर के पद पर

एस० के० मौर्या (एम०आर०-06370 डब्ल्यू), ए एम सी--09 दिसम्बर 1997 ।

पी० मुखर्जी (एम०आर०-06367 डब्ल्यू), ए० एम० सी०--09 दिसम्बर, 1997 ।

तरुणवर्मा (एम०आर०-06336 डब्ल्यू), ए० एम० सी०--21 दिसम्बर, 1997 ।

सुभद्रत घोष (एम०आर०-07046 एल), ए एम सी--30 दिसम्बर 1997 ।

सुकुमार नस्कर (एम० आर०-07044ए), ए एम सी--29 अप्रैल 1997 ।

एस० के० सुकुमार (एम०आर०-06363ए), ए एम सी--09 दिसम्बर 1997 ।

एल० के० वर्मा
एयर वाईस मार्शल
अपर महानिदेशक
सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा

स० 685, दिनांक 06 अगस्त 1998--थल सेना अनुदेश 15/79 के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

सर्जन एस/लेफ्टिनेन्ट से सर्जन लेफ्टिनेन्ट (डी) के रक में

श्रीमती हर्ष किरन बब्बर (डी० एस०-11920 एक्स), (79049एफ)--7 अक्टूबर 1997 ।

जे० एल० शर्मा
त्रिगेडियर
डिप्टी डी जी डी एम

मिलिट्री नर्सिंग सेवा
(स्थायी कमीशन)

सं० 686, दिनांक 03 अगस्त 1998—राष्ट्रपति सहर्ष
निम्नलिखित पदोन्नति दिनांक 14 अगस्त 1997 से करते
हैं :—

(ले० कर्नल से कर्नल)

श्रीमती शशि बाला (एन आर 14615 डब्ल्यू)

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति दिनांक 02 अप्रैल
97 से करते हैं :—

(ले० कर्नल से कर्नल)

श्रीमती शान्ता नेमुअल (एन आर-14560 एक्स)

एस० पद्मिनीअम्मा

मेजर जनरल

अतिरिक्त डी जी एम एन एम

सं० 687, दिनांक 10 अगस्त 1998—राष्ट्रपति
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अनन्त बाबाजीराव शिंदे (जे० सी०-151225 ए)
—01 दिसम्बर, 1997।

सूबेदार रामराव जयवत पाटील (जे० सी०-135604 एम)
—01 जनवरी, 1998।

सूबेदार खराडे दादा अकोब (जे० सी०-151225 एच)
—01 जनवरी, 1998।

सूबेदार बाबू बसाप्पा जुट्टभावर (जे० सी०-179315
एक्स)—01 जनवरी, 1998।

सूबेदार हनुमंत गोडसे (जे० सी०-139590 पी)—
01 फरवरी, 1998।

सूबेदार पाटील लक्ष्मण शंकर (जे० सी०-141491
एल)—01 फरवरी, 1998।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नरेश बाबूराव कदम (जे० सी०-218449
पी)—03 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार भोसले अरुण थोडबाराव (जे० सी०-
210988 डब्ल्यू)—03 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार अल्लप्पा भल्लप्पा बेलगली (जे० सी०-
188459 एफ)—03 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार अब्बास अली (जे० सी०-196201 एच)
—03 जनवरी 1998।

नायब सूबेदार कृष्णा रामजी पाटील (जे० सी०-218450
के)—10 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार भरगुडे मोहन गुलाबराव (जे० सी०-
218452 पी)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार अप्पासी थोडिबा सावंत (जे० सी०-
205523 एम)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार कदम नामदेव नारायण (जे० सी०-
224522 वाई)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार जयसिंह सोपाना पडवल (जे० सी०-
205513 एच)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार सूरसवंशी विलास सोपानराव (जे० सी०-
201832 एक्स)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार गायकवाड श्रीमंत अंगद (जे० सी०-
224524 के)—02 फरवरी 1998।

नायब सूबेदार पवार बालासाहेब सायाप्पा (जे० सी०-
196195 एम)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार चौधरी दामोदर राजधर (जे० सी०-
211000 के)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार बाबू दगडू जाधव (जे० सी०-212545
एन)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार अतिथी मारुती विष्णु (जे० सी०-201828
पी)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार कुमार अय्यरे भानाजी आत्माराम (जे०
सी०-212863 एक्स)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार भाऊ तिविले (जे० सी०-220163
वाई)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार भगवान विश्वनाथ शिंदे (जे० सी०-
211001 एम)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार तांबे नारायण तूकाराम (जे० सी०-
226182 ए) 02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार वरल विठल आनंदा (जे० सी०-
458019 एक्स)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार सावंत सदाशिव नाना (जे० सी०-
211002 पी)—02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार फकीरप्पा मणगुली (जे० सी०-212869 वाई)--02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार भगीरथ (जे० सी०-222664 एक्स)--02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार थोरपडे विष्णु भगवान (जे० सी०-205524 पी)--02 फरवरी 1998।

नायब सूबेदार परिते आनंदराव सहू (जे० सी०-216496 एन)--02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार शंकर जाधव (जे० सी०-220920 एच)--02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार दशरथ पारथी (जे० सी०-226772 एल)--02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार कंबार अर्जुन सिद्धाप्पा (जे० सी०-199213 एच)--02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार शहाजी रामचंद्र नलवडे (जे० सी०-205499 एम)--02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार मालासाने अनिल वासुदेवराव ((जे० सी०-216775 वाई)--02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार बालू परशुराम निवम (जे० सी०-196440 एफ)--02 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार पाटील सूर्यकांत बलराम (जे० सी०-212557 एच)--02 फरवरी, 1998।

जम्मू और काश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

ठोस सूबेदार रैंक की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार बलबीर सिंह चिब (जे० सी०-592081 एल)--01 जुलाई, 1997।

नायब सूबेदार मदन लाल (जे० सी०-592004 एम)--01 अक्टूबर, 1997।

नायब सूबेदार संसार चन्द (जे० सी०-592008 एम)--31 मार्च, 1998।

ठोस सूबेदार मेजर रैंक के पदोन्नति के लिए

सूबेदार जाट राम (जे० सी०-166122 वाई)--01 जून, 1998।

5 जी० आर० (एफ० एफ०)

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) हुम नाथ गोवर्धन शर्मा (जे० सी०-143091 एक्स)--01 अप्रैल, 1998।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) बाबू लाल थापा (जे० सी०-617111 एल)--01 मई, 1998।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार धन बहादुर गुरूंग (जे० सी०-212811 एफ)--01 दिसम्बर, 1997।

नायब सूबेदार चेत बहादुर गुरूंग (जे० सी०-222843 एक्स)--01 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार चित्त बहादुर गुरूंग (जे० सी०-212813 एम)--01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार आनन्द बहादुर चन्द (जे० सी०-212814 पी)--01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार शेर बहादुर गुरूंग (जे० सी०-224501 एन)--01 मार्च, 1998।

नायब सूबेदार एम० बहादुर थापा (जे० सी०-205805 एल)--01 मार्च, 1998।

नायब सूबेदार श्याम प्रसाद गुरूंग (जे० सी०-61700 पी)--01 मार्च, 1998।

8 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कौश बहादुर गुरूंग (जे० सी०-163730 वाई)--1 फरवरी, 1998।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बल बहादुर थापा (जे० सी०-623027 एफ)--1 मार्च, 1998।

नायब सूबेदार खड्काचन्द्र गुरूंग (जे० सी०-623031 के)--01 अप्रैल, 1998।

नायब सूबेदार होम बहादुर थापा (जे० सी०-623039 वाई)--1 अप्रैल, 1998।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) गजेन्द्र सिंह आले (जे० सी०-623024 डब्ल्यू)--1 मई, 1998।

नायब सूबेदार (लिपिक) विजय कुमार गुरूंग (जे० सी०-623032 एम)--1 मई, 1998।

नायब सूबेदार (लिपिक) देवव्रत गोस्वामी (जे० सी०-623067 एच)--1 मई, 1998।

1 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार नारायण सिंह थापा (जे० सी०-173090 के)--01 जून 1998।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार धन बहादुर गुरूंग (जे० सी०-212786 एन)--01 जून 1998।

नायब सूबेदार गम बहादुर गना (जे०सी०-602006एकम)
--01 जून 1998 ।

नायब सूबेदार प्यारा बहादुर पुन (जे०सी०-224318ए)
--01 मितम्बर 1997 ।

नायब सूबेदार पूर्णा बहादुर थापा (जे०सी०-216949एन)
--01 फरवरी 1998 ।

4 जी० आर०

स्थायी सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार लिपिक हरनाम सिंह कटोच (जे० सी०-612011
डब्ल्यू) --01 जनवरी 1998 ।

स्थायी सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार भगवान सिंह थापा (जे० सी०-57949 एन)
--01 जून 1998 ।

स्थायी सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक चन्द्रा धन तमंग (जे०सी०-612095
पी) --01 दिसम्बर 1997 ।

नायब सूबेदार लिपिक राम कुमार (जे०सी०-612096
एक्स) --01 दिसम्बर 1997 ।

नायब सूबेदार लिपिक पवन कुमार गुरूंग (जे० सी०-
612097ए) --01 दिसम्बर 1997 ।

नायब सूबेदार लिपिक कृष्ण चन्द्र (जे०सी०-612106
डब्ल्यू) --01 दिसम्बर 1997 ।

नायब सूबेदार लिपिक दुर्गा बहादुर गुरूंग (जे०सी०-
612107 वाई) --01 दिसम्बर 1997 ।

स्थायी सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चक्रा बहादुर गुरूंग (जे०सी०-222830ए)
--01 अक्टूबर 1997 ।

नायब सूबेदार भीम कुमार प्रधान (जे०सी०-612021 ए)
--01 नवम्बर 1997 ।

नायब सूबेदार तुल बहादुर पुन (जे०सी०-218108 के)
--01 दिसम्बर 1997 ।

नायब सूबेदार बल चन्द्रा थापा (जे०सी०-612048 एक्स)
--01 दिसम्बर 1997 ।

नायब सूबेदार दिपेन्द्रा गुरूंग (जे०सी०-612003एक्स)
--01 जनवरी 1998 ।

नायब सूबेदार नरीन्द्र कुमार गुरूंग (जे०सी०-612049ए)
--01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार नारायण कुमार थापा (जे०सी०-612068
डब्ल्यू) --01 अप्रैल 1998 ।

नायब सूबेदार तिरथा बहादुर पुन (जे०सी०-612012
वाई) --01 मई 1998 ।

नायब सूबेदार टीका राम थापा (जे०सी०-612017 एकम) --
01 मई 1998 ।

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर थापा (जे० सी०-205367एल) --
01 जून 1998 ।

नायब सूबेदार टेक बहादुर गुरूंग (जे०सी०-612018 ए) --
01 जून 1998 ।

दी राजपूताना राईफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जे० सी०-168840 एन) --
01 फरवरी 1998 ।

सूबेदार कुम्भ सिंह (जे०सी०-164957 पी) --01
फरवरी 1998 ।

सूबेदार रन सिंह (जे०सी०-173001 ए) --01 मार्च
1998 ।

सूबेदार रणजीत सिंह (जे० सी०-151664 एल) --
01 अप्रैल 1998 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जे०सी०-188468 एच) --
01 अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार राम किशन (जे०सी०-192399 पी) --
01 अप्रैल 1997 ।

नायब सूबेदार नारू सिंह (जे०सी०-216790 एन) --
01 जून 1997 ।

नायब सूबेदार भनवर सिंह शेखावत (जे०सी०-220724
एच) --01 जुलाई 1997 ।

नायब सूबेदार रीतन सिंह (जे०सी०-216791 डब्ल्यू) --
01 अगस्त 1997 ।

नायब सूबेदार धन सिंह (जे०सी०-224387 डब्ल्यू) --
01 नवम्बर 1997 ।

नायब सूबेदार लीला राम (जे०सी०-468334एफ) --01
दिसम्बर 1997 ।

नायब सूबेदार छोटे लाल जाट (जे०सी०-468365 एफ) --
02 मार्च 1998 ।

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक अगनी घर (जे०सी०-468279
डब्ल्यू) --01 अप्रैल 1998 ।

बिहार रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार धुरा ओरांव (जे० सी०-212740एल)
01 सितम्बर 1997।

नायब सूबेदार चन्द्रेश्वर प्रमाद सिंह (जे० सी०-558021के)-
01 अक्टूबर 1997।

नायब सूबेदार प्रताप चन्द्र प्रधान (जे० सी०-218038 डब्ल्यू)
01 अक्टूबर 1997।

नायब सूबेदार आदया नंद मिश्रा (जे० सी०-558042ए)-
01 मार्च 1998।

डोगरा रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कृष्ण जमवाल (जे० सी०-203728 एच)--
01 फरवरी, 1998।

सूबेदार मोहिन्द्र सिंह (जे० सी०-167107 डब्ल्यू)--
01 मार्च, 1998।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बालक राम शर्मा (जे० सी०-518090
एक्स)--01 नवम्बर, 1997।

नायब सूबेदार नफे सिंह (जे० सी०-518099 एम)--
01 नवम्बर, 1997।

नायब सूबेदार कान्ती राम (जे० सी०-518092एच)
--01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार मोहिन्द्र सिंह (जे० सी०-518109एल)
--01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार कुशल सिंह राणा (जे० सी०-518217
पी)--01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार प्रेम लाल शर्मा (जे० सी०-518222
ए)--01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जे० सी०-518481एच)
--01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार हरबंस लाल (जे० सी०-518482एल)
--01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार सुरम सिंह (जे० सी०-518483एन)
--01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार दिलीप सिंह (जे० सी०-194620एफ)
--02 मार्च, 1998।

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जे० सी०-204317डब्ल्यू)
--02 मार्च, 1998।

नायब सूबेदार मुलतान सिंह (जे० सी०-518079वाई)
--01 मई, 1998।

2-234GI198

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जे० सी०-518223एच)
--01 मई, 1998।

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जे० सी०-518224एल)
--01 मई, 1998।

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द्र मुमन (जे० सी०-518289
वाई)--01 मई, 1998।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कुलदीप ठाकुर (जे० सी०-203743 एक्स)--
01 फरवरी, 1998।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रजिन्दर सिंह (जे० सी०-518291 डब्ल्यू)
--01 नवम्बर, 1997।

नायब सूबेदार कपूर चन्द (जे० सी०-518085 एम)--
01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार दर्शन कुमार (जे० सी०-518086 पी)
--01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार राज करन (जे० सी०-518153पी)--
01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार रमश चन्दर (जे० सी०-518155 ए)--
--01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार तरलोक सिंह (जे० सी०-518296पी)
--01 मार्च, 1998।

नायब सूबेदार चेत राम राणा (जे० सी०-518242
एन)--02 मार्च, 1998।

नायब सूबेदार निक्को राम कौडल (जे० सी०-518294
के)--01 मई, 1998।

नायब सूबेदार हल्का राम, एम० सी० (जे० सी०-518402
ए)--01 जून, 1998।

नायब सूबेदार उद्यम सिंह (जे० सी०-518307डब्ल्यू)
--01 जून, 1998।

जाट रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार विजय सिंह (जे० सी०-173174 एक्स)--
1 जुलाई, 1997।

सूबेदार हवाई सिंह (जे० सी०-173177 एल)--1
जुलाई, 1997।

सूबेदार हवा सिंह (जे० सी०-159201 एल)--1
जुलाई, 1997।

सूबेदार कंवर पाल नेहरा (जे० सी०-171926 एक्स)--
1 अगस्त, 1997।

सूबेदार महावीर सिंह (जे० सी०-175369 एफ)--
1 अगस्त, 1997।

सूबेदार राम चन्द्र सिंह (जे० सी०-173192 एफ)---
1 अगस्त, 1997।

सूबेदार राम लाल सिंह (जे० सी०-173169 एम)-
1 सितम्बर, 1997।

सूबेदार विजय सिंह (जे० सी०-171723 एन)---1
फरवरी, 1998।

सूबेदार (लिपिक)के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक अनूप सिंह (जे० सी०-220966
एल)---1 दिसम्बर, 1997।

नायब सूबेदार लिपिक सृध राम चौधरी (जे० सी०-
216541 पी)---1 दिसम्बर, 1997।

नायब सूबेदार लिपिक हरी सिंह (जे० सी०-220968
डब्ल्यू)---1 दिसम्बर, 1997।

नायब सूबेदार लिपिक धन सिंह (जे० सी०-220969
वाई)---1 दिसम्बर, 1997।

नायब सूबेदार लिपिक जय नारायण शर्मा (जे० सी०-
222682 ए)---1 दिसम्बर, 1997।

नायब सूबेदार लिपिक पुरुषोत्तम कुमार (जे० सी०-
488008 ए)---1 दिसम्बर, 1997।

मद्रास रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार एलविन एस० (जे० सी०-224179 एफ
---1 अप्रैल, 1997।

नायब सूबेदार रवीन्द्रन अक्षारी वी० (जे० सी०-224180
डब्ल्यू)---1 जून, 1997।

नायब सूबेदार संकर एन० (जे० सी०-210951 पी)
---8 अगस्त, 1997।

नायब सूबेदार मुभाष वी० (जे० सी०-224181 वाई)
---1 सितम्बर, 1997।

नायब सूबेदार रवीन्द्रन पी० वी० (जे० सी०-212495
एन)---1 अक्टूबर, 1997।

नायब सूबेदार कृष्णन एम० वी० (जे० सी०-222638
डब्ल्यू)---1 नवम्बर, 1997।

नायब सूबेदार अम्मानूर राजन (जे० सी०-218417
एम)---1 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार पविश्रन एन (जे० सी०-212518 के)---
1 फरवरी, 1998।

ग्रिनेडियर्स

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्म शिक्षक) हनुमान प्रसाद शर्मा (जे० सी०-
61794 एफ)---01 अप्रैल, 1998।

सूबेदार (धर्म शिक्षक) महावीर प्रसाद शर्मा (जे० सी०-
66923 के)---01 अप्रैल, 1998।

जम्मू और कश्मीर राईफल्स

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार शेर सिंह, मेना मेडल (जे० सी०-185866 वाई०)
जैक राईफल्स-01 जनवरी 1998।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार चौधरी हनुमान जनार्दन (जे० सी०-578309
एल) जैक राईफल्स-01 सितम्बर 1998।

नायब सूबेदार मदन सिंह (जे० सी०-578050 ए) जैक
राईफल्स-1 नवम्बर 1997।

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जे० सी०-578185 एफ)
जैक राईफल्स-01 नवम्बर 1997।

नायब सूबेदार दलवीर चन्द (जे० सी०-578187 एम)
जैक राईफल्स-01 नवम्बर 1997।

नायब सूबेदार संतोष कुमार (जे० सी०-578024 वाई)
जैक राईफल्स-01 नवम्बर 1997।

नायब सूबेदार सरदार सिंह (जे० सी०-578025 एफ)
जैक राईफल्स-01 नवम्बर 1997।

नायब सूबेदार ओंकार सिंह (जे० सी०-578116 एल)
जैक राईफल्स-01 नवम्बर 1997।

नायब सूबेदार कुलवीर सिंह राना (जे० सी०-578119
वाई) जैक राईफल्स-01 नवम्बर 1997।

नायब सूबेदार मदन गोपाल सिंह (जे० सी०-578197
डब्ल्यू) जैक राईफल्स-01 नवम्बर 1997।

नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जे० सी०-578125 एम) जैक
राईफल्स-01 नवम्बर 1997।

नायब सूबेदार हंस राज (जे० सी०-578355 ए) जैक
राईफल्स-01 नवम्बर 1997।

नायब सूबेदार चोक बहादुर (जे० सी०-578162 ए)
जैक राईफल्स-01 दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार धन बहादुर भुजेल (जे० सी०-578252 एफ)
जैक राईफल्स-01 दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार किशोर चन्द (जे० सी०-578233 डब्ल्यू)
जैक राईफल्स-01 दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार बालक राम (जे० सी०-578234 वाई)
जैक राईफल्स-01 दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार दुर्गा दास (जे० सी०-219794 पी) जैक
राईफल्स---1 दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार तरसैम सिंह (जे० सी०-578196 एन)
जैक राईफल्स-01 दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार रतन लाल (जे० सी०-578180
एच) जैक राईफल्स-01 दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार रतजीत सिंह (जे० सी० 578075 एम)
जैक राईफल्स-01 दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार राम पाल (जे० सी०-578076 पी)
जैक राईफल्स-01 दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार रणपाल सिंह (जे० सी०-224302 एफ)
जैक राईफल्स-01 दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार करन सिंह (जे० सी०-578053 एन)
जैक राईफल्स-01 दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार केदार सिंह थापा (जे० सी० 220803
एक्स) जैक राईफल्स-1 दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार दर्शन चन्द (जे० सी०-578120 एम)
जैक राईफल्स-14 दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार गिरधारी लाल (जे० सी०-578186 के)
जैक राईफल्स-1 जनवरी 1998।

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जे० सी०-578275 एच)
जैक राईफल्स-01 जनवरी 1998।

नायब सूबेदार करम सिंह (जे० सी०-578282 वाई)
जैक राईफल्स-1 जनवरी 1998।

नायब सूबेदार दर्शन कुमार (जे० सी०-578070 एन)
जैक राईफल्स-1 जनवरी 1998।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-578071 डब्ल्यू)
जैक राईफल्स-1 जनवरी 1998।

नायब सूबेदार वजीर सिंह जसरोटिया (जे० सी०-578111
एम) जैक राईफल्स-01 जनवरी 1998।

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-578164 एल)
जैक राईफल्स-1 जनवरी 1998।

नायब सूबेदार रोमेश चन्दर (जे० सी०-578165 एन)
जैक राईफल्स-1 जनवरी 1998।

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जे० सी०-578077 के)
जैक राईफल्स-1 जनवरी 1998।

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुखदेव सिंह (जे० सी०-167210 एफ)-1
मई 1998।

सूबेदार मंगल सिंह (जे० सी०-144050 एफ)-1 जून
1998।

सूबेदार जसपाल सिंह (जे० सी०-169177 एन)-1
मई 1998।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार धरम सिंह (जे० सी०-208095 के)-
1 मई 1998।

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार (क्लर्क) जी० डी० के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) करनैल सिंह (जे० सी०-508114
एच)-1 जुलाई 1997।

नायब सूबेदार (क्लर्क) सुभाष चन्द्र त्रिगोता (जे० सी०-
508023 वाई)-1 अगस्त 1997।

नायब सूबेदार (क्लर्क) सरमुख सिंह (जे० सी०-508115
एल)-1 नवम्बर 1997।

नायब सूबेदार (क्लर्क) मोन्दरसिंह सागवान (जे० सी०-
508147 एन)-1 जनवरी 1998।

नायब सूबेदार (क्लर्क) गुरूपाल सिंह (जे० सी०-508145
एन)-1 जनवरी 1998।

नायब सूबेदार (क्लर्क) प्यारा सिंह (जे० सी०-508186
डब्ल्यू)-1 मार्च 1998।

नायब सूबेदार (क्लर्क) अमरजीत राम (जे० सी०-508192
वाई)-1 मई 1998।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-208128 के)-3
दिसम्बर 1997।

नायब सूबेदार कणमीर सिंह (जे० सी०-220994 एक्स)
-1 अप्रैल 1998।

5 जी० आर० (एफ० एफ०)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कर्ना बहादुर गुरुंग (सं० 5446743 के अब
जे० सी०-617290 डब्ल्यू) *05 जून, 1998।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1998 से
दी जायेगी)।

हवलदार राजेन्द्र सिंह थापा (सं० 5446463 डब्ल्यू अब
जे० सी०-617291 वाई)-@15 मई, 1998।

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1998 से
दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) दीक बहादुर छेत्री (सं० 5448383
एक्स अब जे० सी०-617292 एफ)-01 मई, 1998।

हवलदार (लिपिक) मनोज गुरुंग (सं० 5447574 ए
अब जे० सी०-617293 के)-01 जून, 1998।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार इन्द्र बहादुर गुरुंग (सं० 5447024 एक्स अब
जे० सी०-617285 एल)-*14 मार्च, 1998।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1998 से
दी जायेगी)।

हवलदार तोया बहादुर राना (सं० 5446804 डब्ल्यू अब जे० सी०-617286 एन)--14 मार्च, 1998।

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1998 से दी जायेगी)।

हवलदार केश बहादुर थापा (सं० 5446824 के अब जे० सी०-617287 डब्ल्यू)--05 मई, 1998।

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1998 से दी जायेगी)।

हवलदार मनी लाल थापा (सं० 5446848 एन अब जे० सी०-617288 वाई)--15 मई, 1998।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1998 से दी जायेगी)।

हवलदार फानी राज थापा (सं० 5447173 एन अब जे० सी०-617289 एफ)--17 मई, 1998।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1998 से दी जायेगी)।

8 जी० आर०

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) नरेश कुमार छेत्री (सं० 5748548 के अब जे० सी०-623228 ए)--30 दिसम्बर, 1997।*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1997 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कृम बहादुर गुर्गुंग (सं० 5749315 पी अब जे० सी०-623229 एच)--20 दिसम्बर, 1997।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1997 से दी जायेगी)।

हवलदार लाल बहादुर गुर्गुंग (सं० 5746780 डब्ल्यू अब जे० सी०-623230)--9 जनवरी, 1998।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1998 से दी जायेगी)।

हवलदार दिल बहादुर मगर (सं० 5747610 वाई अब जे० सी०-623231 ए)--1 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार चिन्ता बहादुर पुन (सं० 5747162 एक्स अब जे० सी०-623232 एच)--1 जनवरी, 1998।

हवलदार गुमान सिंह उचाइ (सं० 5747117 एल अब जे० सी०-623233 एल)--1 जनवरी, 1998।

हवलदार अजीत कुमार थापा (सं० 5747686 वाई अब जे० सी०-633234 एन)--30 मार्च, 1998।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी, 1998 से दी जायेगी)।

हवलदार यम बहादुर गुर्गुंग (सं० 5747048 ए अब जे० सी०-623235 डब्ल्यू)--12 फरवरी, 1998।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1998 से दी जायेगी)।

हवलदार धन कुमार थापा (सं० 5747306 पी अब जे० सी०-623236 वाई)--13 मार्च, 1998।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1998 से दी जायेगी)।

हवलदार बिशन बहादुर थापा (सं० 5748035 पी अब जे० सी०-623242 एम)--15 फरवरी, 1998।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1998 से दी जायेगी)।

हवलदार मुन्न बहादुर गुर्गुंग (सं० 5747896 वाई अब जे० सी०-633243 पी)--14 मार्च, 1998।

हवलदार मन बहादुर गुर्गुंग (सं० 5747101 ए अब जे० सी०-623244 एक्स)--20 अप्रैल, 1998।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1998 से दी जायेगी)।

हवलदार चीज बहादुर गुर्गुंग (सं० 5748075 डब्ल्यू अब जे० सी०-622345 ए)--5 मई, 1998।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1998 से दी जायेगी)।

हवलदार राजन प्रधान (सं० 5748414 एल अब जे० सी०-623237 एफ)--15 फरवरी, 1998 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1998 से दी जाएगी) ।

हवलदार बितमान पुन (सं० 5747403 एम जे० सी०-623238 के)--5 अप्रैल, 1998 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1998 से दी जायेगी) ।

हवलदार शिव बहादुर राना (सं० 5749018 एफ अब जे० सी०-623239 एम)--15 फरवरी, 1998 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1998 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) थंगा राज थापा (सं० 5748540 वाई अब जे० सी०-623240 एफ)--1 मई, 1998 ।

हवलदार (लिपिक) महेन्द्र छैत्री (सं० 5749983 एल अब जे० सी०-623241 के)--1 मई, 1998 ।

5 जी० आर० (एफ० एफ०)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मीन बहादुर गुरूंग (सं० 5445863 डब्ल्यू अब जे० सी०-617280 एम)--14 मार्च, 1998 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1997 से दी जाएगी) ।

हवलदार यम बहादुर गुरूंग (सं० 5445324 ए अब जे० सी०-617281 पी)--25 मार्च, 1998 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 नवम्बर, 1997 से दी जाएगी) ।

हवलदार बोंम बहादुर गुरूंग (सं० 5446579 एम अब जे० सी०-617282 एक्स)--25 मार्च, 1998 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 नवम्बर, 1997 से दी जाएगी) ।

हवलदार टौबी प्रसाद गुरूंग (सं० 5446706 डब्ल्यू अब जे० सी०-617283 ए)--6 अप्रैल, 1998 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1997 से दी जाएगी) ।

हवलदार रुद्र बहादुर आले मगर (सं० 5446791 के अब जे० सी०-617284 एच)--14 मार्च, 1998 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जनवरी, 1998 से दी जाएगी) ।

1 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धन बहादुर थापा (सं० 5040814 डब्ल्यू अब जे० सी०-602236 एल)--20 मार्च, 1998 ।

हवलदार हर्क बहादुर गुरूंग (सं० 5041229 एच अब जे० सी०-602234 ए)--4 जून, 1998 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1998 से दी जाएगी) ।

हवलदार तोल बहादुर गुरूंग (सं० 5041356 एक्स अब जे० सी०-602235 एच)--8 जून, 1998 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1998 से दी जाएगी) ।

4 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लुम बहादुर थापा (सं० 5343066 एक्स अब जे० सी०-612240 एफ)--6 दिसम्बर, 1996 ।

हवलदार गयान बहादुर थापा (सं० 5342584 एल अब जे० सी०-612241 के)--1 फरवरी, 1998 ।

हवलदार विशाल गुरूंग (सं० 5342793 एच अब जे० सी०-612242 एम)--8 मार्च, 1998 ।

हवलदार जंगा बहादुर थापा (सं० 5342801 डब्ल्यू अब जे० सी० 612243 पी)--1 अप्रैल 1998 ।

हवलदार रेशम बहादुर थापा (सं० 5342832 डब्ल्यू अब जे० सी०-0612244 एक्स)--1 मई, 1998 ।

महार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार साहेबराव मोतीराम सरदार (सं० 4552939 एम अब जे० सी०-568599 ए)--1 अगस्त, 1997 ।

हवलदार गुरुमुख सिंह (सं० 4545002 वाई अब जे० सी०-568600 के)--27 अप्रैल, 1998 ।*

*(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 नवम्बर, 1997) ।

हवलदार अश्रुवा कवरुवा वाघ (सं० 4552243 एफ अब जे० सी०-568601 एम)--1 दिसम्बर, 1997 ।

सी० एच० एम० महीपाल (सं० 2978903 एम अब जे० सी०-568602 पी)--1 जनवरी, 1998 ।

हवलदार रणतेज सिंह (सं० 4549755 एच अब जे० सी०-568603 एक्स)--1 जनवरी, 1998 ।

हवलदार दलबीर सिंह (सं० 4550129 एल अब जे० सी०-568604 ए)--14 जनवरी, 1998 ।

हवलदार रंग राव (सं० 4549301 पी अब जे० सी०-568605 एच)--1 फरवरी, 1998 ।

हवलदार राम सिंह (सं० 4549879 एक्स अब जे० सी०-568606 एल)--1 फरवरी, 1998 ।

हवलदार हवाल तानाजी शिवाजी (सं० 4551422 पी अब जे० सी०-568607 एन)--12 अप्रैल, 1998 ।*

*(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 फरवरी, 1998) ।

हवलदार वायदंडे सुदाम उत्तम (सं० 4551112 के अब जे० सी०-568608 डब्ल्यू)--1 मार्च, 1998 ।

हवलदार सुखदेव राज (सं० 4547092 के अब जे० सी०-568609 वाई)--1 मई, 1998 ।*

*(वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1998) ।

हवलदार काम्बले अशोक सायबा (सं० 4552751 एक्स अब जे० सी०-568610 एन)--10 मार्च, 1998 ।

हवलदार काम्बले प्रभाकर हिंदूराव (सं० 4552975 एक्स अब जे० सी०-568611 डब्ल्यू)--10 मार्च, 1998 ।

हवलदार कुरणे विजय शिवाजी (सं० 4554469 एल अब जे० सी०-568612 वाई)--16 मई, 1998 ।

हवलदार रमेश अर्जुन त्रिभुवन (सं० 4551041 एस अब जे० सी०-568613 एफ)--16 मई, 1998 ।

सी० एच० एम० नरवडे विठ्ठल यशवंत (सं० 4551626 एफ अब जे० सी०-568614 के)--16 मई, 1998 ।

हवलदार सदानंदन पीके (सं० 4545700 एफ अब जे० सी०-568615 एम)--6 जून, 1998 ।

हवलदार महावीर प्रसाद (सं० 4546018 डब्ल्यू अब जे० सी०-568616 पी)--13 जून, 1998 ।

डोगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्यार चन्द चौहान (सं० 3974094 डब्ल्यू अब जे० सी०-518854 एल)--25 मई 1998 ।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक लाल मन वर्मा (सं० 3976215 एल अब जे० सी०-518855 एन)--1 अगस्त, 1997 ।

हवलदार लिपिक बीरी सिंह (सं० 3976552 ए अब जे० सी०-518856 डब्ल्यू)--1 जनवरी, 1998 ।

जाट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ओम प्रकाश (सं० 3166542 एफ अब जे० सी०-488620 के)--2 मार्च, 1998 ।

हवलदार प्रताप सिंह (सं० 3167713 पी अब जे० सी०-488621 एम)--1 मई, 1998 ।

हवलदार कृपाल सिंह (सं० 3168173 एन अब जे० सी०-488622 पी)--1 जून, 1998 ।

हवलदार राम पत (सं० 3169035 वाई अब जे० सी०-488623 एक्स)--14 जून 1998 ।

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भीम सिंह (सं० 2667843 के अब जे० सी०-448730 डब्ल्यू)--3 मई 1998 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1998) ।

हवलदार राम फूल सिंह राना (सं० 2669142 एम अब जे० सी०-448731 वाई)--05 मई 1998 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी 1998) ।

हवलदार कमल कुमार सिंह (सं० 2667229 पी अब जे० सी०-448732 एफ)--13 फरवरी 1998 ।

हवलदार लाल सिंह (सं० 2675498 डब्ल्यू अब जे० सी०-448733 के)--12 मार्च 1998 ।

हवलदार हेमा राम (सं० 2670998 के अब जे० सी०-448734 एम)--30 मई 1998 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 1 अप्रैल 1998) ।

हवलदार रूपा राम (सं० 2671155 एच अब जे० सी०-448735 पी)--10 अप्रैल 1998 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 1998) ।

हवलदार धर्म पाल (सं० 2668411 एफ अब जे० सी०-448736 एक्स)--18 मई 1998 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1998) ।

राजपूताना राइफलस

नायब सूबेदार (संगीतज्ञ) के रैंक में

हवलदार दिक बहादुर पूत (सं० 5344046 डब्ल्यू—
अब जे० सी०-468658 एम)—1 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मंग सिंह शेखावत (सं० 2886157 पी अब
जे० सी०-468639 एफ०)—3 अप्रैल, 1997।हवलदा रगीरधर सिंह (सं० 2875419 के अब जे०
सी०-4687640 डब्ल्यू)—29 जुलाई, 1996।*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून, 1997 से दी जायेगी)।हवलदार सुनायक सिंह (सं० 2872255 के अब जे०
सी०-468641 वाई)—27 सितम्बर, 1997।*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1997 से दी जायेगी)।हवलदार भंवर सिंह चौहान (सं० 2872129) एक्स
अब जे० सी०-468642 एफ०)—19 जुलाई, 1997।हवलदार महिपाल सिंह (सं० 2872345 एल० अब जे०
सी०-468643 के)—4 अगस्त, 1997।हवलदार चैन सिंह भाटी (सं० 2872360 ए अब जे०
सी०-468644 एम०)—1 अक्टूबर, 1997।हवलदार महिपाल सिंह (सं० 281718 वाई० अब
जे० सी०-468645 पी०)—1 नवम्बर, 1997।हवलदार होशियार सिंह (सं० 2874257 एन अब
जे० सी०-468646 एक्स)—1 नवम्बर, 1997।हवलदार सुभाष चन्द्र पंचाल (सं० 2877096 एफ
अब जे० सी०-468647 ए)—16 जनवरी, 1998।**नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 23 दिसम्बर 1997 से दी जायेगी)।हवलदार सुमेर सिंह (सं० 2873662 वाई० अब जे०
सी०-468649 एल०)—1 जनवरी, 1998।*हवलदार धर्मवीर सिंह (सं० 2871959 एफ० अब
जे० सी०-468649 एल०)—21 जनवरी, 1998।*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी, 1998 से दी जायेगी)।हवलदार गिरधारी सिंह (सं० 2870892 एफ०
अब जे० सी०-468650 ए०)—23 जनवरी, 1998।हवलदार शिवपाल सिंह (सं० 2870518 वाई अब
जे० सी०-468651 एच०)—11 फरवरी, 1998।हवलदार सुरेश कुमार (सं० 2877159 वाई अब जे०
सी०-468652 एल०)—1 मार्च, 1998।हवलदार हाकीम सिंह राजपूत (सं० 2870593 ए)
अब जे० सी०-468653 एन)—1 अप्रैल, 1998।

नायब सूबेदार (लिपिक) के पद पर

हवलदार क्लर्क राजेन्द्रा सिंह (सं० 2873081 एफ
अब जे० सी०-468654 डब्ल्यू)—1 फरवरी, 1998।हवलदार क्लर्क राम फल (सं० 2873326 एम अब
जे० सी०-468655 वाई)—1 फरवरी, 1998।हवलदार क्लर्क शमशेर सिंह (सं० 2873354 वाई अब
जे० सी०-468656 एफ०)—1 फरवरी, 1998।हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं० 2873482 डब्ल्यू अब
जे० सी०-468657 के)—1 फरवरी, 1998।

पैरासूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मनी राम (सं० 13613265 ए अब जे० सी०
412372 एल०)—06 मार्च, 1998।**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 13 जुलाई, 1997।हवलदार राम स्वरूप (सं० 13613292 के अब जे० सी०
412358 वाई)—18 अगस्त 1997।**नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता-01 अगस्त 1997।हवलदार जिशराम (13613306 वाई अब जे० सी०
412359 ए०)—01 सितम्बर 1997।हवलदार अवतार सिंह (सं० 4457328 एच अब जे०
सी०-412354 एच)—19 फरवरी 1998।**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1997।हवलदार जवाहर सिंह (सं० 13612015 एम० अब
जे० सी०-412356 एन०)—19 फरवरी, 1998।*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1997।हवलदार चन्द्रपाल सिंह (सं० 13613333 ए अब जे०
सी०-412360 डब्ल्यू०)—10 अक्टूबर, 1997।*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 16 सितम्बर, 1997।हवलदार प्रीतम सिंह (सं० 13611517 एच अब जे०
सी-412365 पी०) - 01 अक्टूबर, 1997।हवलदार बलबीर सिंह जूमट (सं० 4457356 वाई अब
जे० सी० 412355 एल०)—19 फरवरी 1998।*× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 26 अक्टूबर 1997)।

हवलदार महावीर सिंह सोलंकी (सं० 13612491 एल अब जे० सी० 412357 डब्ल्यू)—19 फरवरी 1998 ।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1998) ।

हवलदार जगतार सिंह (सं० 13612549 एक्स अब जे० सी० 412369 एल)—27 अप्रैल 1998 ।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1998) ।

हवलदार अल्कार सिंह (सं० 13614080 एल अब जे० सी० 412362 एफ)—20 जनवरी 1998 ।

हवलदार दलजीत कुमार (सं० 13613409 एक्स अब जे० सी० 412361 वाई)—28 जनवरी 1998 ।

हवलदार सुरेश सिंह अहलावत (सं० 13614457 के अब जे० सी० 412363 के)—28 जनवरी 1998 ।

हवलदार महावीर सिंह (सं० 13611801 वाई अब जे० सी० 412366 एक्स)—1 फरवरी 1998 ।

हवलदार जीवा नन्द (सं० 13613049 एम अब जे० सी० 412371 एच)—1 फरवरी 1998 ।

हवलदार मांगू सिंह राजावत (सं० 13611883 एम अब जे० सी० 412367 ए)—5 फरवरी 1998 ।

हवलदार जोगेन्द्र सिंह (सं० 13611330 डब्ल्यू अब जे० सी० 412364 एम)—15 मार्च, 1998 ।

हवलदार हीरा सिंह राना (सं० 13612041 एन अब जे० सी० 412368 एच)—15 मार्च, 1998 ।

हवलदार विजय सिंह (सं० 13612846 एल अब जे० सी० 412370 ए)—15 मार्च 1998 ।

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एच० एम० भिगोरी बारा पुतरंगी (सं० 4257774 के अब जे० सी०—558551 वाई)—1 मार्च, 1998 ।

सी० एच० एम० नवल किशोर राय (सं० 4253364 डब्ल्यू अब जे० सी०—558552 एफ)—1 अप्रैल, 1998 ।

सी० एच० एम० सुरेश प्रसाद (सं० 4257605 एच अब जे० सी० 558553 के)—12 अप्रैल, 1998 ।

हवलदार रमा कान्त सिंह (सं० 4256283 एफ अब जे० सी० 558554 एम)—26 अप्रैल, 1998 ।

जम्मू और काश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में पदोन्नति के लिए

हवलदार चरणदास शर्मा (सं० 9081831 के अब जे० सी०—592557 एम)—26 अप्रैल, 1998 ।*

*(1 जनवरी, 1998 को नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता पदोन्नति दी जाती है) ।

हवलदार मदन लाल (सं० 9082655 के अब जे० सी०—592558 पी)—31 मार्च, 1998 ।*

*(1 जनवरी, 1998 को नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता पदोन्नति दी जाती है) ।

सी० एच० एम० रछपाल चन्द (सं० 9083043 वाई अब जे० सी०—592559 एक्स)—7 मार्च 1998 ।%

%(1 जनवरी, 1998 को नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता पदोन्नति दी जाती है) ।

हवलदार जगदेव सिंह (सं० 9082982 पी अब जे० सी०—592560 एम)—8 अप्रैल, 1998 ।@

@(1 जनवरी, 1998 को नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता पदोन्नति दी जाती है) ।

हवलदार रघुबीर सिंह (सं० 9084538 एक्स अब जे० सी०—592561 (पी)—9 मई, 1998 ।£

£(1 जनवरी, 1998 को नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता पदोन्नति दी जाती है) ।

हवलदार राम पाल (सं० 9082032 ए अब जे० सी० 592562 एक्स)—1 मई 1998—2 मार्च, 1998 को नायब सूबेदार के रैंक में वरिष्ठता पदोन्नति दी जाती है ।

कुमाऊं रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी एच एम परमानन्द यादव (सं० 4168931 डब्ल्यू अब जे० सी०—538708 एम)—5 जून 1998 ।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 97 से दी गई) ।

सी एच एम विजयवीर सिंह (सं० 4167202 एफ अब जे० सी—538709 पी)—05 जून 1998 ।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 98 से दी गई) ।

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं० 4173380 ए अब जे० सी—538710के)—10 जून 1998 ।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 98 से दी गई) ।

हवलदार पुष्कर सिंह ब्रधयाल (सं० 4169415 एन अब जे० सी०—538711एम)—06 अप्रैल 1998 ।.

× (नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 1998 से दी गई) ।

हवलदार मोहन सिंह (सं० 4167117 एल अब जे० सी०—538712पी)—27 अप्रैल 1998 ।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 1998 से दी गई) ।

हवलदार कल्याण सिंह (सं० 4169359 ए अब जे० सी०-538713 एक्स) — 1 मई 1997।

गढ़वाल गार्डफल्म
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कुवर सिंह (सं० 4061185 एफ अब जे० सी०-528669 एल) — 21 अप्रैल 1998।

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1997 से दी जाती है)

हवलदार रमेश चन्द्र (सं० 4055797 एच अब जे० सी०-528671 एच) — 2 जनवरी 1998।

हवलदार महीपाल सिंह (सं० 4055770 एल अब जे० सी०-528672 एल) — 8 मार्च 1998।

हवलदार धन सिंह (सं० 4054789 एक्स अब जे० सी०-528673 एन) — 1 मई 1998।

हवलदार हुकम सिंह (सं० 4060423 डब्ल्यू अब जे० सी०-528675 वाई) — 1 मई 1998।

हवलदार प्रकाश चन्द्र (सं० 4057586 ए अब जे० सी०-528676 के) — 01 जून 1998।

हवलदार श्याम सिंह (सं० 4058360 ए अब जे० सी०-528677 एम) — 01 जून 1998।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) बाबर सिंह (सं० 4058704 एन अब जे० सी०-528670 ए) — 25 मई 1998।

× × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1998 से दी जाती है)।

हवलदार (लिपिक) हीरा लाल (सं० 4058748 एल अब जे० सी०-528674 डब्ल्यू) — 01 मई 1998।

सिख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मनजीत सिंह (3377290 के अब जे० सी०-498578 के) — 02 मार्च 1998।

हवलदार गुरबचन सिंह (3377603 एक्स अब जे० सी०-498579 एम) — 02 मार्च 1998।

हवलदार दर्शन सिंह (3376653 डब्ल्यू अब जे० सी०-498580 एफ) — 12 मई 1998।

हवलदार बलजीत सिंह (3377626 वाई अब जे० सी०-498581 के) — 19 मई 1998।

बी० पी० वर्गीज
अवर सचिव

सं० 688, दिनांक 10 अगस्त 1998—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

लोपखाना रेजीमेन्ट

सब्सटेन्टिव सूबेदार मेजर धर्म गुरु के पद में

सूबेदार दुर्गा दत्त जोशी (जे० सी०-62920 एम) — 1 अप्रैल 1998।

सब्सटेन्टिव सूबेदार (कलर्क जी डी/एस के टी)

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह अहलावत (जे० सी०-255934 एफ) — 01 अप्रैल 1998।

नायब सूबेदार विवी चन्द राना (जे० सी०-255937 पी) — 1 अप्रैल 1998।

नायब सूबेदार उयप्पा एम० सी० (जे० सी०-255947 वाई) — 1 अप्रैल 1998।

नायब सूबेदार हरी प्रताप (जे० सी०-255932 डब्ल्यू) — 1 अप्रैल 1998।

नायब सूबेदार जीत सिंह (जे० सी०-258619 डब्ल्यू) — 1 अप्रैल 1998।

नायब सूबेदार विजय कुमार (जे० सी०-258620 एल) — 1 अप्रैल 1998।

नायब सूबेदार रामेन्द्रा सिंह (जे० सी०-258622 डब्ल्यू) — 1 अप्रैल 1998।

नायब सूबेदार फगन सिंह जाट (जे० सी०-258623 वाई) — 1 अप्रैल 1998।

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जे० सी०-258624 एफ) — 1 अप्रैल 1998।

नायब सूबेदार हर लाल (जे० सी०-258625 के) — 7 अप्रैल 1998।*

(*ज्येष्ठता 01 अप्रैल 98 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार प्रीतम चन्द (जे० सी०-258673 के) — 1 अप्रैल 1998।

नायब सूबेदार तसबीर सिंह (जे० सी०-258674 एम) — 1 अप्रैल 1998।

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार द्वितीया बोकोटोकी (14334602 पी अब जे० सी०-260803 ए) — 11 नवम्बर 1997/1 जनवरी 1997।*

बी० एच० एन० धनराज टी० (14455121 एल अब जे० सी०-260804 एच) — 03 नवम्बर 1997/1 फरवरी 1997।*

हवलदार गिरे विठ्ठल गनगति (14478712 वाई अब जे० सी०-260805 एल) — 1 जनवरी 1998/5 मई 1997।*

हवलदार सुरेश बहादुर सिंह (14346686 ए अब जे ० सी ०—
260806 एन)—20 एन फरवरी 1998 / 1 जुलाई 1997 ।*

वी एच एम ईश्वर सिंह (14335790 एन अब जे सी
260807 डब्ल्यू) 11 अक्टूबर 1997/0 सितम्बर 97 ।

हवलदार लक्ष्मण जी ० (14335024 वाई अब जे ० सी ०—
260808 वाई)—25 सितम्बर 1997/ 01 सितम्बर 1997 ।*

आर एच एम सरबन सिंह (14457958 के अब जे ० सी ०—
260809 एफ)—12 दिसम्बर 1997/ 01 सितम्बर 1997 ।*

हवलदार बालसालन बी ० (14352089 एफ अब जे ० सी ०
260810 डब्ल्यू)—14 नवम्बर 1997/ 01 सितम्बर 1997 ।*

हवलदार बिम्ल बालुवा अगरे (14318891 एल अब जे ० सी ०—
260811 वाई)—01 जनवरी 1998/ 3 नवम्बर 1997 ।*

वी एच एम रघुबीर सिंह (14452125 डब्ल्यू अब जे ० सी ०—
260812 एफ)—22 जनवरी 1998 / 28 नवम्बर 1997 ।*

वी एच एम नानक चन्द (14469033 ए अब जे ० सी ०—
260813 के)—22 जनवरी 1998 / 28 नवम्बर 1997 ।*

आर एच एम ए ० गांधी राजन (14457908 वाई अब
जे ० सी ० 260814 एम)—24 जनवरी 1998 / 1 दिसम्बर
1997 ।*

वी एच एम ओम प्रकाश यादव (14459448 एफ अब
जे ० सी ०—260815 पी)—22 जनवरी 1998/ 1 दिसम्बर
1997 ।

वी एच एम जगमाल सिंह (14451082 ए अब जे ० सी ०—
260816 एक्स)—25 जनवरी 1998/ 1 दिसम्बर 1997 ।*

हवलदार बलदेव सिंह (14334511 एल अब जे ० सी ०—
260817 ए)—23 जनवरी 1998 / 1 दिसम्बर 1997 ।*

हवलदार गाडे सीता राम सान्तू (1265163 एफ अब
जे ० सी ० 260818 एच)—29 सितम्बर 1997 / 1 जनवरी
1997 ।*

हवलदार दर्शन सिंह (14455561 वाई अब जे ० सी ०—
260819 एल)—2 जून 1997 / 29 मार्च 1997 ।*

हवलदार जोगिन्दर पाल बरपाल (14357445 ए अब
जे ० सी ० 260820 ए)—22 सितम्बर 1997/1 सितम्बर
1997 ।*

हवलदार हरदीप सिंह (सं ० 1265181 के अब जे सी—
260821 एच)—18 दिसम्बर 1997/01 सितम्बर 1997 ।*

हवलदार मोहन एम ० (सं ० 14334295/एच अब जे सी—
260822 एल)—20 अक्टूबर 1997/01 सितम्बर 1997 ।*

हवलदार रोमेश चन्द (सं ० 14338237 डब्ल्यू अब जे सी—
260823 एन)—05 नवम्बर 97/01 अक्टूबर 1997 ।*

हवलदार राजा राम सिंह यादव (सं ० 14452519 पी अब
जे सी—260824 डब्ल्यू)—10 अक्टूबर 1997/01 अक्टूबर
1997 ।*

हवलदार कृष्ण दास (सं ० 1269507 एम अब जे सी—
260825 वाई)—08 अक्टूबर 97/01 अक्टूबर 1997 ।*

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं ० 14326065 ए अब जे सी—
260826 एफ)—01 नवम्बर 1997 ।

हवलदार कीकीटाकर नारायण नरसू (सं ० 14325355 एल
अब जे सी—260827 के)—22 फरवरी 98/29 नवम्बर
1997 ।*

आर एच एम सुभाष चन्द्र (सं ० 14330302 डब्ल्यू अब
जे सी—260828 एम)—22 फरवरी 1998/29 नवम्बर
1997 ।*

वी एच एम गायकवाड माधव प्रेम नाथ (सं ० 14340874
एल अब जे सी—260829 पा)—22 फरवरी 1998/29 नवम्बर
1997 ।*

हवलदार लैसराम सनजीवा सिंह (सं ० 14327786 डब्ल्यू
अब जे सी 260830 के)—14 फरवरी 1998/30 नवम्बर
1997 ।*

हवलदार लवली जोसफ (सं ० 14460340 डब्ल्यू अब जे सी—
260831 एम)—14 फरवरी 1998/30 नवम्बर 1997 ।*

हवलदार शंकर सिंह (सं ० 14329474 वाई अब जे सी—
260832 पी)—14 फरवरी 97/01 दिसम्बर 1997 ।*

* (ज्येष्ठता नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना) ।

आर एच एम अत्तर सिंह (सं ० 14329554 डब्ल्यू अब जे
सी—260868 एन)—08 नवम्बर 1997/01 अक्टूबर 1997 ।*

हवलदार विजय कुमार दास (सं ० 1268760 एफ अब
जे सी—260869 डब्ल्यू)—27 दिसम्बर 1997/1 नवम्बर
1997 ।*

हवलदार चैन सिंह (सं ० 14327319 वाई अब जे सी—
260870 एल)—01 नवम्बर 1997/01 नवम्बर 1997 ।*

हवलदार कमलेश्वर सिंह (सं ० 1442461 एच अब जे सी—
260871 एन)—10 नवम्बर 1997/01 नवम्बर 1997 ।*

हवलदार पाला सिंह (सं ० 14331503 एफ अब जे सी—
260872 डब्ल्यू)—04 नवम्बर 97/1 नवम्बर 97 ।*

हवलदार चूरिया राम (1433020 ए अब जे सी—
260873 वाई)—22 दिसम्बर 97/23 नवम्बर 97 ।*

हवलदार कदम दलीप साहिब राव (14327412 ए अब जे
सी—260874 एफ)—15 जनवरी 98/29 नवम्बर 97 ।*

हवलदार उटेकर विजय तुकाराम (1268193 के अब जे सी-260875के)--15 जनवरी 98/29 नवम्बर 97 ।*

बी एच एम सतविन्दर सिंह (14326534 एक्स अब जे सी-260876 एम)--13 जनवरी 98/01 दिसम्बर 97 ।*

हवलदार राम निवास (14348199 वाई अब जे सी-260877 एफ)--22 फरवरी 98/01 दिसम्बर 97 ।*

हवलदार अमर चन्द (14326541 एन अब जे सी-260876 एक्स)--18 दिसम्बर 97/10 दिसम्बर 97 ।*

हवलदार विजय कुमार (14452112 वाई अब जे सी-260879 ए)--07 अप्रैल 98/19 जनवरी 98 ।*

हवलदार जगतार राम (सं० 14454399ए अब जे सी-260880 पी)--25 मई 1998/ 22 जनवरी 1998 ।*

हवलदार महिन्द्रा सिंह पुनिया (सं० 14353574 एच अब जे सी-260881 एक्स)--25 मई 1998/1 अप्रैल 1998 ।*

हवलदार विजेन्द्र सिंह (सं० 1268486 पी अब जे सी-260882ए)--04 अक्टूबर 1997/1 जनवरी 1998 ।*

हवलदार साम्बासिदा राव आलम (सं० 14334938 पी अब जे सी-260883 एच)--04 अक्टूबर 97/04 मार्च 1997 ।*

हवलदार गिरवर सिंह (सं० 14476508 एफ अब जे सी-260884 एल)--11 अक्टूबर 97/31 मार्च 1997 ।*

हवलदार दरवान सिंह (सं० 14472878 के अब जे सी-260885 एन)--07 अक्टूबर 1997/01 अप्रैल 1997 ।*

बी एच एम राधे श्याम सिंह (सं० 14321081 एन अब जे सी-260886 डब्ल्यू--30 जनवरी 98/12 मई 1997 ।*

हवलदार इन्दरा प्रसाद (सं० 14336740पी अब जे सी-260887 वाई)--21 सितम्बर 97/01 जुलाई 1997 ।*

बी० एच० एम० सविन्दर सिंह (सं० 14357476 ए अब जे० सी०--260888 एफ)--5 नवम्बर, 1997/ 01 जुलाई, 1997 ।*

हवलदार राज सिंह (सं० 14324323 डब्ल्यू अब जे० सी०-260889 के)--21 अक्टूबर, 1997/ 25 जुलाई, 1997 ।*

बी० एच० एम० जगदीश प्रसाद (सं० 14319581 एम अब जे० सी०-260890 वाई)--14 अक्टूबर, 1997/ 30 अगस्त, 1997 ।*

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं० 14329844 एन अब जे० सी०-260891 एफ)--04 दिसम्बर 97/01 अक्टूबर 97 ।*

हवलदार ललन देव पांडे (सं० 14327274 के अब जे० सी०-260892 के)--8 नवम्बर, 1997/16 अक्टूबर, 1997 ।*

आर० एच० एम० अरविन्द कुमार सिंह (सं० 14460211 डब्ल्यू अब जे० सी०-260893 एम)--28 दिसम्बर, 1997/1 नवम्बर, 1997 ।*

हवलदार पदमराज भट (सं० 14324115 एफ अब जे० सी०-260894 पी)--05 नवम्बर, 1997/1 नवम्बर, 1997 ।*

हवलदार लाभ सिंह (सं० 14330994 डब्ल्यू अब जे० सी०-260895 एक्स)--27 जनवरी, 1998/28 नवम्बर, 1997 ।*

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं० 14459352 वाई अब जे० सी०-260896 ए)--22 फरवरी, 1998/28 नवम्बर 1997 ।*

बी० एच० एम० सतपाल सिंह (सं० 1432309एन अब जे० सी०-260897 एच)--29 जनवरी, 1998/ 01 दिसम्बर, 1997 ।*

हवलदार तचिन्दर सिंह (सं० 14453725 एल अब जे० सी०-260898 एल)--17 फरवरी, 1998/1 दिसम्बर 1997 ।*

आर० एच० एम० आनन्द पाल (सं० 14328916 ए अब जे० सी०-260899 एन)--21 जनवरी, 1998/ 01 दिसम्बर, 1997 ।*

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)

हवलदार वलसालन एम० (सं० 14454910 एल अब जे० सी०-259979 वाई)--5 फरवरी, 1997 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 नवम्बर, 1992) ।

हवलदार चन्द्रिका यादव (सं० 14452937 एल अब जे० सी०-259980 एन)--6 जून, 1997 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 नवम्बर, 1995) ।

हवलदार जर्नल सिंह (सं० 14455981 वाई अब जे० सी०-259981 डब्ल्यू)--28 जनवरी, 1997 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून, 1996) ।

हवलदार उमेश सिंह (सं० 14457874 डब्ल्यू अब जे० सी०-259982 वाई)--02 नवम्बर, 1996 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 1996) ।

हवलदार नरिन्दर सिंह गिल (सं० 14480094 एक्स अब जे० सी०-259983 एफ)--22 फरवरी, 1997 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 1996) ।

बी० एच० एम० राम शंकर प्रसाद (सं० 1260929 डब्ल्यू अब जे० सी०-259984 के)--10 मार्च, 1997।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1996)।

बी० एच० एम० मोहेन्द्र सिंह (सं० 14326609 डब्ल्यू अब जे० सी०-259985 एम)--1 मार्च, 1997।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 नवम्बर, 1996)।

हवलदार कुन्वर बहादुर सिंह (सं० 14323102 एक्स अब जे० सी०-259986 पी)--24 फरवरी, 1997।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 नवम्बर, 1996)।

हवलदार धर्मवीर (सं० 14455216 एल अब जे० सी०-259987 एक्स)--27 फरवरी, 1997।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 नवम्बर, 1996)।

हवलदार करन बहादुर मल्ल (सं० 14327014 वाई अब जे० सी०-259988 ए)--01 दिसम्बर, 1996।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं० 14335282 एक्स अब जे० सी०-259989 एच)--4 फरवरी, 1997।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1996)।

हवलदार विजय कुमार खजूरिया (सं० 14329537 डब्ल्यू अब जे० सी०-259990 एक्स)--24 फरवरी, 1997।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 जनवरी, 1997)।

बी० एच० एम० नारायण के० के० (सं०-14343212 एन अब जे० सी०-259991 ए)--1 मार्च, 1997।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1997)।

हवलदार उत्तम सिंह (सं० 14333296 वाई अब जे० सी०-260721 एक्स)--02 फरवरी, 1998/ 28 नवम्बर 1997।*

हवलदार ओमवीर सिंह (सं० 14327750 एक्स अब जे० सी०-260722 ए)--03 अप्रैल 1998/ *30 नवम्बर 1997*।

हवलदार जय प्रकाश राठी (सं० 14331857 के अब जे० सी०-260723 एच)--03 अप्रैल 1998/30 नवम्बर 1997।*

हवलदार ज्ञानेन्द्रा कुमार राए (सं० 14332080 एल अब जे० सी०-260724 एल)--18 फरवरी 1998 / 30 नवम्बर 1997।*

हवलदार दशरथ सिंह (सं० 14326374 एच अब जे० सी०-260725 एन)--31 दिसम्बर 1997 / 30 नवम्बर 1997।*

हवलदार राज पाल सिंह (सं० 14334328 एच अब जे० सी०-260726 डब्ल्यू)--03 अप्रैल 1998 / 18 दिसम्बर 1997।*

हवलदार स्वपन कुमार दास (सं० 14467373 के अब जे० सी०-260727 वाई)--21 अप्रैल, 1998/ 1 जनवरी, 1998।*

हवलदार कृष्णा सिंह (सं० 14329553 एन अब जे० सी०-260728 एफ)--21 अप्रैल, 1998 / 01 जनवरी 1998।*

हवलदार मोथू राम (सं० 14323818 डब्ल्यू अब जे० सी०-260729 के)--21 अप्रैल, 1998 / 01 फरवरी, 1998।*

हवलदार श्री चन्द (सं० 1269488 एम अब जे० सी०-260730 वाई)--28 मार्च, 1998 / 20 फरवरी, 1998।*

हवलदार लीला राम यादव (सं० 1264541 एच अब जे० सी०-260732 के)--13 अक्टूबर, 1997/01 जनवरी, 1997।*

हवलदार पाटिल शंकर वासुदेव (सं० 14350801 एम अब जे० सी०-260733 एम)--19 दिसम्बर, 1997/ 16 अप्रैल, 1997।*

हवलदार शाम राव नाना पाटिल (सं० 14465604 डब्ल्यू अब जे० सी०-260734 पी)--20 दिसम्बर, 1997/16 अप्रैल, 1997।*

हवलदार रघुनाथ पांडे (सं० 14338461 एन अब जे० सी०-260735 एक्स)--05 नवम्बर, 1997/22 अगस्त, 1997।*

हवलदार पारिध चन्द्रा राए (सं० 14333367 पी अब जे० सी०-260736 ए)--1 नवम्बर, 1997/1 सितम्बर 1997।*

हवलदार मुरलीधरण एम० (सं० 14471687 एच अब जे० सी०-260737 एच)--10 नवम्बर 1997/1 सितम्बर, 1997।*

हवलदार सत्याबीर सिंह यादव (सं० 14451904 एम अब जे० सी०-260738 एल)--5 नवम्बर, 1997/ 1 सितम्बर, 1997।*

हवलदार मधु सूदन नायर वी० (सं० 14377842 एल अब जे० सी०-260739 एन०)--10 नवम्बर, 1997/ 03 सितम्बर, 1997।*

बी० एच० एम० बलवन्त सिंह (सं० 14453413 पी अब जे० सी०-260740 एच)--20 अक्टूबर, 1997/ 15 सितम्बर, 1997।*

हवलदार रामा चन्द्रन नायर टी० (सं० 14453078 डब्ल्यू अब जे० सी०-260741 एल)--02 दिसम्बर, 1997/01 अक्टूबर, 1997* ।

वी० एच० एम० मलकीयत सिंह (सं० 14460494 एच अब जे० सी०-260742 एन)--23 अक्टूबर, 1997/1 अक्टूबर, 1997* ।

हवलदार एस० सीथा रमन (सं० 14461712 एच अब जे० सी०-260743 डब्ल्यू)--15 दिसम्बर, 1997/01 अक्टूबर, 1997* ।

हवलदार अन्नाथन के० (सं० 14342403 डब्ल्यू अब जे० सी०-260744 ए)--16 दिसम्बर, 1997/01 नवम्बर, 1997* ।

आर० एच० एम० अवतार सिंह (सं० 14327895 एच अब जे० सी०-260745 एच)--29 मार्च, 1998/01 मार्च, 1998* ।

हवलदार शिव कुमार (सं० 14324485 एफ अब जे० सी०-260746 एल)--28 मार्च, 1998 / 01 मार्च 1998* ।

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं० 14330315 एन अब जे० सी०-260747 एन)--01 अप्रैल, 1998 ।

हवलदार हरफूल सिंह (सं० 14333381 एफ अब जे० सी०-260748 डब्ल्यू)--01 अप्रैल, 1998 ।

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना) ।

हवलदार धर्मवीर सिंह (सं० 14321036 एफ अब जे० सी०-260784 ए)--9 अक्टूबर, 1997/1 जनवरी, 1997* ।

हवलदार विरेन्द्र कुमार (सं० 14460214 के अब जे० सी०-260785 एच)--30 अक्टूबर, 1997/5 अप्रैल, 1997* ।

वी० एच० एम० कर्ण सिंह (सं० 14454512 के अब जे० सी०-260786 एल)--08 नवम्बर, 1997 / 01 मई 1997* ।

वी० एच० एम० राजेन्द्र प्रसाद (सं० 14453119 डब्ल्यू अब जे० सी०-260787 एन)--24 अक्टूबर, 1997/14 जून, 1997* ।

हवलदार हरी ओम (सं० 1433000 के अब जे० सी०-260788 डब्ल्यू)--30 जनवरी, 1998/30 जून, 1997* ।

हवलदार दलीप चन्द (सं० 14328064 डब्ल्यू अब जे० सी०-260789 वाई)--29 सितम्बर 97/25 जुलाई 97* ।

हवलदार ललित सिंह (सं० 14456496 डब्ल्यू अब जे० सी०-260790 एन)--08 दिसम्बर 97/31 जुलाई 97* ।

हवलदार मेहर सिंह बिष्ट (सं० 14344347 एफ अब जे० सी०-260791 डब्ल्यू)--13 सितम्बर 97/31 जुलाई 97* ।

हवलदार शशिधरण नायर के० (सं० 14456915 एच अब जे० सी०-260792 वाई)--08 अक्टूबर 97/31 जुलाई 97* ।

हवलदार पाटिल विजय बापुनी (सं० 14457408 एफ अब जे० सी०-260793 एफ)--06 दिसम्बर 97/01 सितम्बर 97* ।

हवलदार जगदीश चन्द (सं० 1266645 एच अब जे० सी०-260794 के)--13 सितम्बर 97/01 सितम्बर 97* ।

हवलदार ब्रीजन चन्द्रा गोगई (सं० 14456486 एम अब जे० सी०-260795 एक्स)--08 जनवरी 98/01 सितम्बर 97* ।

हवलदार हर प्रसाद नेया (सं० 14342909 पी अब जे० सी०-260706 पी-05 नवम्बर 97/19 सितम्बर 97* ।

हवलदार राम कुमार (सं० 14325163 एन अब जे० सी०-260797 एक्स)--16 दिसम्बर 97/01 अक्टूबर 97* ।

हवलदार के मुन्वई ईह (सं० 14463692 वाई अब जे० सी०-260798 ए)--13 अक्टूबर 97/01 अक्टूबर 97* ।

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं० 14451774 पी अब जे० सी०-260799 एच)--24 नवम्बर 97/01 नवम्बर 97* ।

हवलदार कमल चन्द्रा भुईया (सं० 14340602 एल अब जे० सी०-260800 एम)--31 जनवरी 98/01 नवम्बर 97* ।

हवलदार सनातन नाथ (सं० 14333435 एक्स अब जे० सी०-260801 पी)--11 जनवरी 98/01 नवम्बर 97* ।

हवलदार बनवारी दास (सं० 14353547 वाई अब जे० सी०-260802 एक्स) 26 जनवरी 98/01 नवम्बर 97* ।

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना) ।

हवलदार इन्द्रजीत (सं० 1435646 डब्ल्यू अब जे० सी०-260749 वाई)--23 जनवरी 98/01 अगस्त 97* ।

हवलदार सत्या नारायण यादव (14340664 एल अब जे० सी०-260750 एम)--11 अगस्त 97/16 नवम्बर 96* ।

आर एच एम रानोशन सिंह गटोर (सं० 14321950 एक्स अब जे सी-260751 पी) 07 अक्टूबर 97/30 नवम्बर 96* ।

हवलदार हाडे दिनीय बिठन राव (1268803 एल अब जे० सी० 260752 एक्स) 02 मार्च 98/30 नवम्बर 96* ।

हवलदार दिनेश सिंह (सं० 14455826 एक्स अब जे सी-260753 ए)--12 दिसम्बर 97/01 दिसम्बर 96* ।

हवलदार तरसेम सिंह (सं० 1432453 4 वाई अब जे सी-260754 एच)--09 जनवरी 98/31 दिसम्बर 96* ।

हवलदार सुरिन्दर सिंह (सं० 14336394 के अब जे सी-260755 एल)--24 सितम्बर 97/30 मार्च 97* ।

वी एच एम राम कुमार सिंह सेंगर (सं० 1267144पी अब जे० सी०-260756 एन)--13 मई 97/31 अप्रैल 97।*

वी एच एम नरेन्द्रा सिंह भदौरिया (सं० 1267123 वाई अब जे० सी०-260757 डब्ल्यू)--30 नवम्बर 97/19 अप्रैल 97।*

हवलदार मुन्सी विश्वकर्मा (सं० 14332942 वाई अब जे० सी०-260758 वाई)--07 अक्टूबर 97/30 जून 97।*

हवलदार चन्द्रा दाम मिन्हा (सं० 14477181 ए अब जे० सी०-260759 एफ)--01 अक्टूबर 97/01 अगस्त 97।*

हवलदार पूर्ण सिंह (सं० 14327973 पी अब जे० सी०-260760 डब्ल्यू)--12 नवम्बर 97/01 अगस्त 97।*

हवलदार तारा चन्द जाट (सं० 1268044 डब्ल्यू अब जे० सी०-260761 वाई)--01 अक्टूबर 97/01 सितम्बर 97।*

हवलदार कारणे प्रवीन विश्वनाथ (सं० 14338278 ए अब जे० सी०-260762 एफ)--04 दिसम्बर 97/14 नवम्बर 97।*

हवलदार के० देवा राज (14460684 पी० अब जे० सी०-सी०-260763 के)--02 मार्च 98/19 नवम्बर 97।*

हवलदार काशी नाथ सिंह (सं० 14343066 वाई अब जे० सी०-260764 एम)--22 जनवरी 98/30 नवम्बर 97।*

वी एच एम दलेल सिंह (सं० 14327832 ए अब जे० सी०-260765 पी)--22 जनवरी 98/30 नवम्बर 97।*

वी एच एम एस मारिया कुलनदाई (सं० 14339465 एल अब जे० सी०-260766 एक्स)--01 नवम्बर 97/01 जनवरी 97।*

हवलदार हजारी सिंह (सं० 1267887 एक्स अब जे० सी०-260767 ए)--04 दिसम्बर 97/01 जनवरी 97।*

हवलदार रणजीत सिंह राठौर (14340649 डब्ल्यू अब जे० सी०-260768 एच)--17 अक्टूबर 97/23 मार्च 97।*

वी एच एम करमा शंकर (सं० 1267068 एन अब जे० सी०-260769 एल)--12 दिसम्बर 97/01 अप्रैल 97।*

हवलदार गुरचरन सिंह (सं० 14487174 एक्स अब जे० सी०-260770 ए)--03 दिसम्बर 97/01 अप्रैल 97।*

हवलदार जी० वेंनूगोपाल (सं० 14321792 एन अब जे० सी०-260771 एच)--04 नवम्बर, 1997/07 मई, 1997।*

हवलदार नाहर सिंह (सं० 14451374 एच अब जे० सी०-260772 एल)--08 नवम्बर, 1997/01 जुलाई, 1997।*

वी०एच०एम० सूबे सिंह (सं० 14452094 एफ अब जे० सी०-260773 एन)--01 जनवरी, 1998/06 जुलाई, 1997।*

हवलदार दिल बहादुर गुरूंग (सं० 5445255 पी अब जे० सी०-260774 डब्ल्यू)--19 दिसम्बर, 1997/06 जुलाई, 1997।*

हवलदार शेख नाथ सिंह यादव (सं० 14453952 एल अब जे० सी०-260775 वाई)--19 नवम्बर, 1997/31 जुलाई, 1997।*

वी०एच०एम० ओम प्रकाश (सं० 14349787 वाई अब जे० सी०-260776 एफ)--15 दिसम्बर, 1997/01 अगस्त, 1997।*

आर० एच० एम० करतार सिंह (सं० 14337513 एफ अब जे० सी०-260777 के)--04 दिसम्बर, 1997/16 अगस्त, 1997।*

वी०एच०एम० राधाकृष्णन के० बी० (सं० 14454780 एन अब जे० सी०-260778 एम)--07 अक्टूबर, 1997/22 अगस्त, 1997।*

हवलदार जनक सिंह (सं० 14453756 वाई अब जे० सी०-260779 पी)--22 अक्टूबर, 1997/01 सितम्बर, 1997।*

हवलदार धर्म राज (सं० 14327568 एक्स अब जे० सी०-260780 के)--24 दिसम्बर, 1997/01 सितम्बर, 1997।*

हवलदार राम प्रकाश (सं० 14456174 डब्ल्यू अब जे० सी०-260781 एम)--08 नवम्बर, 1997/01 सितम्बर, 1997।*

वी०एच०एम० रामेश बाबू पी० (सं० 14454829 वाई अब जे० सी०-260782 पी)--14 अक्टूबर, 1997/02 सितम्बर, 1997।*

हवलदार सुरिन्दर सिंह (सं० 14457405 एन अब जे० सी०-260783 एक्स)--29 दिसम्बर, 1997/05 सितम्बर, 1997।*

*(ज्येष्ठता नाथन सूबेदार के पद में वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)।

हवलदार गोपालजी उपाध्याय (सं० 14351965 पी अब जे० सी०-260694 एक्स)--02 अगस्त 1997/11 अक्टूबर, 1996।*

वी०एच०एम० सीता राम (सं० 14324495 एल अब जे० सी०-260695 एफ)--30 जून, 1997/28 नवम्बर, 1996।*

हवलदार के० मेयालगन (सं० 14344064 ए अब जे० सी०-260696 के)--25 अप्रैल, 1997/30 नवम्बर, 1996।*

हवलदार निस्तार मोन्ज (सं० 14360188 वाई अब जे० सी०-260697 एम)--04 फरवरी, 1997/30 नवम्बर, 1996।*

हवलदार बलदेव राज शर्मा (सं० 14326028 एम अब जे० सी०-260698 पी)—20 जुलाई, 1997/01 दिसम्बर, 1996।*

हवलदार सुरेण कुमार (सं० 10478729 एन अब जे० सी०-260699 एक्स)—17 सितम्बर, 1997/01 जनवरी, 1997।*

बी० एच० एम० मान चन्द्र (सं० 1268325 एम अब जे० सी०-260700 एफ)—12 जुलाई, 1997/26 जनवरी, 1997।*

हवलदार फकीरप्पा एस० कोनी (सं० 14462699 डब्ल्यू अब जे० सी०-260701 के)—10 जून, 1997/25 अप्रैल, 1997।*

हवलदार राजिन्दर प्रसाद (सं० 14463329 एच अब जे० सी०-260702 एम)—07 जून, 1997/01 जून, 1997।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता)।

हवलदार शिव सिंह चहार (सं० 14327980 एल अब जे० सी०-260703 पी)—14 सितम्बर, 1997/01 जुलाई, 1997।*

हवलदार राठीर राम अम्बाजी (सं० 14345184 एल अब जे० सी०-260704 एफ)—16 सितम्बर, 1997/07 जुलाई, 1997।*

हवलदार बालाराजन एस टी (सं० 14466337 एम अब जे० सी०-260705 ए)—31 दिसम्बर, 1997/10 जुलाई, 1997।*

हवलदार किरपाल सिंह (सं० 14340395 के अब जे० सी०-260706 एच)—06 अक्टूबर, 1997/01 अगस्त, 1997।*

बी० एच० एम० रवी के० (सं० 1269957 के अब जे० सी०-260707 एल)—31 दिसम्बर, 1997/20 सितम्बर, 1997।*

हवलदार कुनान सिंह (सं० 14338137 एल अब जे० सी०-260708 एन)—01 अक्टूबर, 1997।*

बी० एच० एम० त्रिन्देश्वरी महतो (सं० 14336572 एफ अब जे० सी०-260709 डब्ल्यू)—28 दिसम्बर, 1997/01 नवम्बर, 1997।*

हवलदार उदय राज राम (सं० 14332352 ए अब जे० सी०-260710 एल)—15 जनवरी, 1998/23 नवम्बर, 1997।*

हवलदार मोहर सिंह (सं० 14326457 एन अब जे० सी०-260711 एन)—17 जनवरी, 1998/28 नवम्बर, 1997।*

बीएचएम बलजीत सिंह (14337978 एफ अब जेसी-260712 डब्ल्यू)—07 अक्टूबर 96/07 अप्रैल 96।*

हवलदार दरेश सिंह तोमर (14456524 एक्स अब जेसी-260713 वाई)—08 जुलाई 97/30 नवम्बर 96।*

हवलदार हकीम सिंह (14464285 एच अब जेसी-260714 एफ)—31 अगस्त 97/01 अप्रैल 97।*

हवलदार राजम जी (14456900 ए अब जेसी-260715 के)—28 अगस्त 97/01 मई 97।*

हवलदार गुरमंज सिंह (1432142 के अब जेसी-260716 एम)—08 सितम्बर 97/26 जुलाई 97।*

बीएचएम अमरजीत सिंह (14333061 एम अब जेसी-260717 पी)—01 सितम्बर 97/29 जुलाई 97।*

बीएचएम जगदीश चन्दर (14353582 एफ अब जेसी-260718 एक्स)—15 सितम्बर 97/01 सितम्बर 97।*

हवलदार सहदेवन एम (14460280 एम अब जेसी-260719 ए)—01 अप्रैल 98/10 नवम्बर 97।*

हवलदार जोगराज (14465364 के अब जेसी-260720 पी)—27 अप्रैल 98/28 नवम्बर 97।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता)।

हवलदार जय शंकर मित्रा (14331892 एम अब जेसी-260613 एन)—11 अगस्त 97/01 जनवरी 97।*

हवलदार बन्सी लाल (14455141 वाई अब जेसी-260614 डब्ल्यू)—08 सितम्बर 97/01 जनवरी 97।*

हवलदार इन्द्र सिंह इन्डा (14339405 डब्ल्यू अब जेसी-260615 वाई)—26 अगस्त 97/01 मार्च 97।*

हवलदार धर्म नाथ राए (14457927 के अब जेसी-260616 एफ)—10 अगस्त 97/30 मार्च 97।*

बी एच एम पाटिल अबूलाल दौलत (14323099 एच अब जेसी-260617 के)—30 मई 97/01 मई 97।*

हवलदार राम करण (14458514 एम अब जेसी-260618 एम)—15 अगस्त 97/26 जून 97।*

हवलदार भागदत्त सिंह तरागी (14327918 वाई अब जेसी-260619 पी)—18 अगस्त 97/07 जुलाई 97।*

हवलदार धर्मवीर सिंह (14336457 एफ अब जेसी-260620 के)—07 जनवरी 98/10 जुलाई 97।*

हवलदार राधाकृष्णन वीबी (14466175 एम अब जेसी-260621 एम)—31 दिसम्बर 97/10 जुलाई 97।*

हवलदार गौड गोपाल सिन्हा (14453519 एफ अब जेसी-260622 पी)—01 सितम्बर 97।

बी एच एम जौरज के एक्स (14334310 एम अब जेसी-260623 एक्स)—01 सितम्बर 97।

आर एच एम जरनैल सिंह (14325475 के अब जेसी-260624 ए)—02 सितम्बर 97/01 सितम्बर 97 ।*

आर एच एम बुधपाल सिंह (14456956 एम अब जेसी-260625 एच)—01 सितम्बर 97 ।

आर एच एम धर्म वीर (14454715 एन अब जेसी-260626 एल)—01 सितम्बर 97 ।

हवलदार आर वैकटेशन (14327541 ए अब जेसी-260627 एन)—08 जनवरी 98/14 दिसम्बर 97 ।*

हवलदार शिंदे वाली राम गोविन्द (14332246 एफ अब जेसी-260628 डब्ल्यू)—05 जनवरी 98/30 नवम्बर 96 ।*

हवलदार सत्यावीर सिंह (14330715 ए अब जेसी-260629 वाई)—16 सितम्बर 97/01 जनवरी 97 ।

हवलदार बलजीत सिंह (14454209 एच अब जेसी-260630 एन)—15 सितम्बर 97/01 जनवरी 97 ।*

बी एच एम कर्ण सिंह (14479675 एच अब जेसी-260631 डब्ल्यू)—15 अगस्त 97/01 जनवरी 97 ।*

हवलदार हेम राज (14455460 एल अब जेसी-260632 वाई)—20 अगस्त 97/01 जनवरी 97 ।*

हवलदार राम नरेश (14456334 एल अब जेसी-260633 एफ)—05 अगस्त 97/01 मार्च 97 ।*

हवलदार फुगटे प्रभाकर विश्वानाथ (14332420 एच अब जेसी-260634 के)—11 अगस्त 97/30 मार्च 97 ।*

हवलदार नरपत सिंह भठी (14327487 एक्स अब जेसी-260635 एम)—07 अक्टूबर 97/30 मार्च 97 ।*

हवलदार राजेश कुमार (14358885 ए अब जेसी-260636 पी)—30 दिसम्बर 97/30 मार्च 97 ।*

हवलदार राम निवास (14350472 एफ अब जेसी-260637 एक्स)—01 जनवरी 98/05 अप्रैल 97 ।*

हवलदार सुरजीत सिंह (1269035 एफ अब जेसी-260638 ए)—04 जून 97/01 मई 97 ।

बी एच एम धर्मवीर सिंह हड्डे (14349191 वाई अब जेसी-260639 एच)—03 सितम्बर 97/01 जुलाई 97 ।*

हवलदार चहेल सिंह (14331970 वाई अब जेसी-260640 एक्स)—12 अगस्त 97/01 जुलाई 97 ।*

हवलदार जं गोविन्द राज (14457852 एक्स आ जेसी-260641 ए)—01 सितम्बर 97/01 जुलाई 97 ।*

हवलदार बिसम्बर दयाल (14324164 के अब जेसी-260642 एच)—15 सितम्बर 97/27 जुलाई 97 ।*

बी एच एम महीपाल (1269454 वाई अब जेसी-260643 एल)—05 सितम्बर 97/01 सितम्बर 97 ।*

आर एच एम वाल्मीकि एम जोरजे (14326128 एक्स अब जेसी-260644 एन)—01 सितम्बर 97 ।

हवलदार रुदल कुमार सिंह (14463755 डब्ल्यू अब जेसी-260645 डब्ल्यू)—12 सितम्बर 97/01 सितम्बर 97 ।*

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना) ।

हवलदार दिनेश दुआरहा (14345763 एक्स अब जे० सी० 260834 ए)—24 नवम्बर 1997/1 जनवरी 1997* ।

बी एच एम विनायक राम राज अहीर (14339433 एच अब जे० सी० 260735 एच)—26 नवम्बर 97/01 मार्च 97* ।

हवलदार राजेन्द्रा प्रसाद (14479322 एच अब जे० सी० 260836 एल)—06 सितम्बर 97/01 अप्रैल 97* ।

हवलदार सी पेरूमल (1268293 पी अब जे० सी० 260837 एन)—17 मई 97/01 मई 97* ।

हवलदार ऊमेद सिंह (14332231 वाई अब जे० सी० 260838 डब्ल्यू)—04 नवम्बर 97/03 मई 97* ।

हवलदार हरीवेश बहादुर सिंह (14330823 एन अब जे० सी० 260839 वाई)—9 जून 1996 ।

हवलदार श्री बहादुर गुरुंग (5445196 एन अब जे० सी० 260840 एन)—29 अक्टूबर 1997/1 जुलाई 1997* ।

हवलदार नरेश कुमार (1433018 एक्स अब जे० सी०—260541 डब्ल्यू)—1 नवम्बर 1997/3 जुलाई 1997* ।

हवलदार राजेन्द्रा सिंह (1264054 एच अब जे० सी०—260842 वाई)—19 सितम्बर 1997/15 जुलाई 1997* ।

हवलदार पेरसीमुला पुतनात्रा (14343177 डब्ल्यू अब जे० सी० 260843 एफ)—22 सितम्बर 1997/1 अगस्त 1997* ।

बी एच एम अमर सिंह रावत (14452684 ए अब जे० सी०—260844 के)—19 दिसम्बर 1997/14 सितम्बर 1997* ।

बी एच एम रामेशपाल (14460812 एफ अब जे० सी०—260845 एम)—अक्टूबर 1997/1 अक्टूबर 1997* ।

हवलदार हरजिन्दर सिंह (3379858 डब्ल्यू अब जे० सी०—260846 पी०)—3 दिसम्बर 1997/1 अक्टूबर 1997* ।

हवलदार दिनेश कुमार शर्मा (14346376 अब जे० सी०—260847 एक्स)—11 जनवरी 1997/1 अक्टूबर 1997* ।

हवलदार सुलतान सिंह राठी (1434347 एन अब जे० सी०—260848 ए)—13 नवम्बर 1997/1 नवम्बर 1997* ।

हवलदार वेद प्रकाश भावर (14453125 एच अब जे० सी० 260849 एच)—17 नवम्बर 1997/1 नवम्बर 1997* ।

हवलदार दया चन्द (1446313 एच अब जे० सी०—260850 एक्स)—01 नवम्बर 1997

(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना) ।

हवलदार सुबल चन्द्रा मंडल (11244303 एम अब जे० सी०-260851 ए)--19 सितम्बर 1997/19 फरवरी 1996* ।

हवलदार हरभजन सिंह (14456213 के अब जे० सी०-260852 एच)--8 दिसम्बर 1997/1 जनवरी 1997*

हवलदार दुर्लभ चन्द्रा दाम (14329262 एफ अब जे० सी०-260853 एल)--3 अक्टूबर 1997/8 फरवरी 1997 ।

हवलदार सुर्या देव महा (14457847 एम अब जे० सी० 260854 एन)--16 जून 1997/30 मार्च 1997* ।

हवलदार अभि राम झा (14456233 एम अब जे० सी०-2600855 डब्ल्यू)--1 अगस्त 1997/24 मई 1997 ।*

हवलदार सूरजनाथपाडे (14334013 वाई अब जे० सी०-260856 वाई)--25 सितम्बर 1997/29 जून 1997* ।

वी एच एम देस राज (14340610 के अब जे० सी०-260857 एफ)--15 अक्टूबर 1997/15 जुलाई 1997* ।

हवलदार जगदीश चन्द धिमान (14330777 ए अब जे० सी०-260857 के)--15 अक्टूबर 1997/20 जुलाई 1997* ।

वी एच एम शंकारा सुब्बू ए (14457911 वाई अब जे० सी०-260859 एम)--6 जनवरी 1998/31 जुलाई 1997* ।

वी एच एम गुरचरण सिंह (14452070 एक्स अब जे० सी०-260860 एफ)--10 दिसम्बर 1997/31 जुलाई 1997 ।*

वी एच एम बजरंग सिंह शेखावन (14324265 एक्स अब जे० सी०-260861 के)--20 सितम्बर 1997/1 अगस्त 1997* ।

वी एच एम शाम लाल (12668007 एच अब जे० सी०-260862 एम)--19 अक्टूबर 1997/27 अगस्त 1997* ।

हवलदार भीम बहादुर पून (14328253 ए अब जे० सी०-260863 पी)--5 दिसम्बर 1997/1 सितम्बर 1997* ।

वी एच एम मोहन सिंह (14452490 एक्स अब जे० सी०-260864 एक्स)--22 दिसम्बर 1997/1 सितम्बर 1997* ।

हवलदार अजीत सिंह (14336026 पी अब जे० सी०-260865 ए)--31 अक्टूबर 1997/1 सितम्बर 1997* ।

हवलदार नन्द किशोर यादव (14324032 डब्ल्यू अब जे० सी०-260866 एच)--8 अक्टूबर 1996/21 सितम्बर 1997* ।

हवलदार हरभजन सिंह (14451584 एच अब जे० सी०-260867 एल)--12 नवम्बर 1997/22 सितम्बर 1997*

(ज्येष्ठता नायव सूवेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना) ।

हवलदार रघुवीर सिंह (14458479 पी अब जे० सी०-260583 एफ)--8 अगस्त 1997/1 जुलाई 1997* ।

4 —234 GI/98

आर एच एम दर्शन सिंह (1269608 ए अब जे० सी०-260584 के)--2 अगस्त 1997/1 जुलाई 1997*

हवलदार जगनपाल सिंह (1263355 ए अब जे० सी०-260385 एम)--3 सितम्बर 1997/1 जुलाई 1997*

हवलदार बालाकृष्णन पी (14340580 एम अब जे० सी०-260586 पी)--7 अगस्त 1997/2 जुलाई 1997* ।

हवलदार तेजपाल सिंह (14454304 पी अब जे० सी०-260587 एक्स)--2 अगस्त 1997/4 जुलाई 1997* ।

हवलदार बलकार सिंह (14326112 एम अब जे० सी०-260588 ए)--1 अगस्त 1997/08 जुलाई 1997* ।

हवलदार कृष्णा कुमार (1269346 पी अब जे० सी०-260589 एच)--8 अगस्त 1997/08 जुलाई 1997 ।*

हवलदार करनैल सिंह (14454177 एल अब जे० सी०-260590 एक्स)--15 अगस्त 1997/11 जुलाई 1997 ।

वी एच एम दौलत सिंह (14330283 डब्ल्यू अब जे० सी०-260591 ए)--1 सितम्बर 1997 ।

हवलदार हरभोज सिंह (14459127 के अब जे० सी०-260597 एफ)--19 अप्रैल 1997/1 अक्टूबर 1996* ।

हवलदार चान्दी चरन खां (14455791 एम अब जे० सी०-260598 के)--26 जुलाई 1997/26 नवम्बर 1996* ।

हवलदार केदारनाथ झा (14335885 एल अब जे० सी०-269599 एम)--15 जुलाई 1997/28 नवम्बर 1996* ।

वी एच एम हरीप चन्द शर्मा (14451879 वाई अब जे० सी०-260600 डब्ल्यू)--16 सितम्बर 1997/1 जनवरी 1997* ।

हवलदार मोहर सिंह (14331530 एल अब जे० सी०-260601 वाई)--23 अगस्त 1997/1 जनवरी 1997* ।

हवलदार डंगर सिंह (14466717 एल अब जे० सी०-260602 एफ)--21 अगस्त 1997/1 जनवरी 1997* ।

हवलदार परमजीत सिंह (14326047 एक्स अब जे० सी०-260603 के)--17 जून 1997/5 मार्च 1997* ।

हवलदार राजिन्दर प्रसाद (14457003 एक्स अब जे० सी०-260604 के)--30 अप्रैल 1997/9 मार्च 1997* ।

हवलदार नरेन्द्रा सिंह (14329249 के अब जे० सी०-260605 पी)--14 सितम्बर 1997/01 अप्रैल 1997* ।

आर एच एम रेशम सिंह (14460705 ए अब जे० सी०-260606 एक्स)--16 अगस्त 1997/1 मई 1997* ।

वी एच एम ओम प्रकाश जाट (14487380 एफ अब जे० सी०-260607 ए)--15 सितम्बर 1997/12 मई 1997* ।

हवलदार राम कुमार (14333982 एम अब जे० सी०-260608 एच)--15 जुलाई 1997/01 जून 1997* ।

हवलदार एस नवनीथा बाला कृष्णन (14343931 एम अब जे० सी०-260609 एल)--12 अगस्त 1997/08 जून 1997।*

हवलदार चन्द्रा शेखरन नायर टी (14356970 के अब जे० सी०-260610 ए)--27 अगस्त 1997/1 जुलाई 1997*।

हवलदार सुरेन्द्रा प्रसाद (14348228 एच अब जे० सी०-260611 एच)--20 जुलाई 1997/01 जुलाई 1997*।

बी एच एम सुलखन सिंह (1252867 ए अब जे० सी०-260612 एल)--13 जुलाई 1997/06 जुलाई 1997*।

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)।

हवलदार जागवीर सिंह (14356640 एल अब जे० सी०-260441 के)--11 जून 1997/1 अप्रैल 1997।*

बी एच एम आनंद कुट्टन नायर एम० के० (1460675 एन अब जे० सी०-260442 एम)--30 जून 1997/20 अप्रैल 1997।*

हवलदार ओम सिंह (1268835 एन अब जे० सी०-260443 पी)--03 जून 1997/01 मई 1997।*

हवलदार लिम्बादिया इस्माइल भाई गाजी भाई (14464700 वाई अब जे० सी०-260444 एक्स)--29 मई 1997/1 मई 1997।*

हवलदार कृशन दयाल (1268788 एफ अब जे० सी०-260445 ए)--12 जून 1997/05 मई 1997*।

आर एच एम गुलाब सिंह (14451810 पी अब जे० सी०-260446 एच)--7 जून 1997/1 जून 1997।*

हवलदार पी० डंडापानी (14456150 एम अब जे० सी०-260447 एल)--1 जून 1997।

आर एच एम पी० रामचन्द्रन (14335396 एच अब जे० सी०-260467 वाई)--6 सितम्बर 1997/20 नवम्बर 1996।*

बी एच एम सत्यनारायन ऋ१ 14356808 एम अब जे० सी०-260468 एफ)--3 मई 1997/20 नवम्बर 1996।*

हवलदार बलवान (14453315 पी अब जे० सी०-260469 के)--18 अगस्त 1997/20 नवम्बर 1996।*

बी एच एम सोमपाल सिंह (14324454 एफ अब जे० सी०-260470 वाई)--17 जुलाई 1997/28 नवम्बर 1996*।

हवलदार श्रीकान्त मिश्रा (14344759 एच अब जे० सी०-260471 एफ)--26 जून 1997/30 नवम्बर 1996।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता)।

नायब सूबेदार के पद में (निरन्तर)

हवलदार सुरेन्द्रन एस (14241758 ए अब जे० सी०-260472 के)--20 अप्रैल 1997/30 नवम्बर 1996।*

आर एच एम चन्दर भान भंडु (14451970 पी अब जे० सी०-260473 एम)--11 जून 1997/1 दिसम्बर 1996।*

बी एच एम लाल सिंह रावत (14456532 डब्ल्यू अब जे० सी०-260474 पी)--19 जुलाई 97/11 दिसम्बर 96*।

बी एच एम सुन्दर लाल (1268813 पी अब जे० सी०-260475 एक्स)--19 जुलाई 97/05 जनवरी 97*।

बी एच एम सुमेर सिंह (14326058 के अब जे० सी०-260476 ए)--25 जून 1997/07 फरवरी 97*।

हवलदार अशोक कुमार सिंह (1445773 एच अब जे० सी०-260477 एच)--25 जून 97/16 फरवरी 97*।

बी एच एम चन्द्र मनी खन्डूरी (14331167 ए अब जे० सी०-260478 एल)--25 अप्रैल 97/16 फरवरी 97*।

हवलदार क्षत्रधारी सिंह (14342195 एम अब जे० सी०-260479 एन)--09 जुलाई 97/01 मार्च 97*।

हवलदार कंवर पाल सिंह (14455734 एल अब जे० सी०-260480 एच)--19 जुलाई 97/21 मार्च 97*।

बी एच एम एस सिवा कुमार (14317587 पी अब जे० सी०-260481 एल)--25 जुलाई 97/30 मार्च 97*।

बी एच एम बीर बहादुर थापा (14462712 पी अब जे० सी०-260482 एन)--28 जून 97/30 मार्च 97*।

बी एच एम गुरबचन सिंह (14345358 ए अब जे० सी०-260483 डब्ल्यू)--28 जून 97/30 मार्च 97*।

हवलदार शेर सिंह (14338982 डब्ल्यू अब जे० सी०-260484 वाई)--12 जुलाई 97/30 मार्च 97*।

हवलदार बाबु राजन डी (14344540 एन अब जे० सी०-260485 एफ)--21 जून 97/30 मार्च 97*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता)।

बी एच एम सतीश तमन्ग (14455505 ए अब जे० सी०-260157 एन)--12 अप्रैल 97/30 नवम्बर 96*।

हवलदार शीश राम यादव (14460735 एक्स अब जे० सी०-260158 डब्ल्यू)--22 मार्च 97/31 नवम्बर 96*।

आर एच एम बलवीर चन्द (1262007 एम अब जे० सी०-260159 वाई)--05 अप्रैल 97/31 दिसम्बर 96*।

बी एच एम सिवन कुटी सी एन (14335268 एल अब जे० सी०-260160 एन)--19 मार्च 97/1 दिसम्बर 96*।

हवलदार गुरनाम सिंह (14534439 के अब जे० सी०-260161 डब्ल्यू)--19 अप्रैल 97/01 दिसम्बर 96*।

बी एच एम वितोद कुमार (1267795 एन अब जे० सी०-260162 वाई)--19 मार्च 97/19 जनवरी 97*।

आर एच एम पाटिल महादेव (14334277 ए अब जे० सी०-260163 एफ)--08 मार्च 97/24 जनवरी 97*।

हवलदार शुभ राम (14334552 पी अब जेसी 260-164 के)—10 अप्रैल 97 / 1 फरवरी 97* ।

वी एच एम कुट्टी कृष्णन थिरीकोटमोथल (14330745 एक्स अब जेसी 260165 एम)—17 अप्रैल 97 / 13 फरवरी 97* ।

आर एच एम हजारी लाल (1262245 वाई अब जेसी-260166 ए)—21 अप्रैल 97 / 1 मार्च 97* ।

हवलदार अनिल कुमार मिश्रा (14353934 एन अब जेसी 260167 एक्स)—01 अप्रैल 97 / 01 मार्च 97* ।

हवलदार सुखविन्दर सिंह (14453920 एच अब जेसी-260168 ए)—10 अप्रैल 97 / 01 मार्च 97* ।

हवलदार गुरुक्षेवक सिंह (1446105 ए अब जेसी-260169 एच)—01 मई 97 / 01 मार्च 97* ।

हवलदार एस राजनगम (14456701 एम अब जेसी-260179 एक्स)—02 अप्रैल 97 / 01 मार्च 97* ।

आर एच एम सुदेश कुमार मेहता (1268596 के अब जेसी 260191 ए)—04 अप्रैल 97 / 01 अप्रैल 97* ।

हवलदार लेख राम (14330841 एम अब जेसी-260172 एच)—03 अप्रैल 97 / 01 अप्रैल 97* ।

हवलदार राम आसरे पांडे (14332568 एफ अब जेसी 260173 एल)—07 अप्रैल 97 / 01 अप्रैल 97* ।

हवलदार बुद्धी सिंह (14452148 एक्स अब जेसी-260174 एन)—01 अप्रैल 97 / 01 अप्रैल 97* ।

हवलदार धनान्जय प्रसाद राणा (14459035 एक्स अब जेसी 260175 डब्ल्यू)—03 अप्रैल 97 / 01 अप्रैल 97* ।

वी एच एम प्रकाश चन्द (1262967 एल अब जेसी-260176 वाई)—01 मई 97* ।

आर एच एम भुल्ला सिंह (14340871 एक्स अब जेसी-260177 वाई)—24 मार्च 97 / 24 मई 96* ।

हवलदार इन्द्रामनी प्रसाद (14461748 एफ अब जेसी 260178के)—14 मई 97 / 01 अक्टूबर 97* ।

हवलदार राम दास सिंह (14334440 पी अब जेसी-260179 एम)—03 अप्रैल 97 / 01 नवम्बर 96* ।

* (ज्येष्ठता नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना) ।

हवलदार सरजीत सिंह (14461236 पी अब जेसी-260370 पी)—17 जून 97/30 मार्च 96* ।

हवलदार विजयपाल (14329720 वाई अब जेसी-260393 पी)—17 जून 97/30 मार्च 96 ।

हवलदार चिलगर किसन शम्भू (14464275 वाई अब जेसी-260394 एक्स)—16 मई 97/01 अप्रैल 96* ।

हवलदार हरी राम (14323229 ए अब जेसी-260395 ए)—23 सितम्बर 96/31 मई 96* ।

हवलदार के मथ्यू राज (14338348 एन अब जेसी-260396 एच)—15 दिसम्बर 96/30 जून 96* ।

हवलदार हरदीप सिंह (14327819 डब्ल्यू अब जेसी-260397 एल)—04 नवम्बर 96/20 जुलाई 96* ।

हवलदार चन्दर सिंह मेहरा (14317991 के अब जेसी-260398 एन)—01 जून 97/14 नवम्बर 96* ।

वी एच एम सौल सुमवूरी (14343445 पी अब जेसी-260399 डब्ल्यू)—12 अप्रैल 97/16 नवम्बर 96* ।

हवलदार देवेन्द्रा सिंह (14333007 वाई अब जेसी-260400 ए)—30 मई 97/25 नवम्बर 96* ।

वी एच एम बूद्दू बाबू राव (14345458 एल अब जेसी-260401 एच)—23 जून 97/30 नवम्बर 96* ।

हवलदार विसवानाधन एम पी (14344884 एम अब जेसी-260402 एल)—26 मार्च 97/30 नवम्बर 96* ।

हवलदार बांगनेकर पांडुरंग यसवन्त (14457742 एच अब जेसी-260403 एन)—31 मार्च 97/15 दिसम्बर 96* ।

हवलदार भुल्ला सिंह (14459228 एक्स अब जेसी-260404 डब्ल्यू)—23 मार्च 97/01 जनवरी 97* ।

वी एच एम नल्लना नागेश्वरा राव (14453849 ए अब जेसी-260405 वाई)—22 जून 97/01 फरवरी 97* ।

हवलदार राम गोपाल वर्मा (14334033 एम अब जेसी-260406 एफ)—12 जून 97/28 फरवरी 97* ।

हवलदार तैजेंद्रा बहादुर जी सी (1269025 एक्स अब जेसी-260407 के)—19 मार्च 97/01 मार्च 97* ।

हवलदार सन्तोष कुमार शर्मा (14334534 एम अब जेसी-260408 एम)—02 जून 97/29 मार्च 97* ।

हवलदार राजेन्द्रन सी (14324017 एफ अब जेसी-260409 पी)—03 अप्रैल 97/30 मार्च 97* ।

हवलदार इन्दरजीत अग्नीहोत्री (14451858 एच अब जेसी-260410 के)—03 अप्रैल 97/30 मार्च 97* ।

हवलदार मोहम्मद कुमार टी के (14344815 डब्ल्यू अब जेसी-260411 एम)—03 अप्रैल 97/30 मार्च 97* ।

हवलदार विनश सिंह (14330176 पी अब जेसी-260412 पी)—26 मई 97/30 मार्च 97* ।

हवलदार भोग राम वीरहा (14331997 डब्ल्यू अब जेसी-260413 एक्स)—11 जून 97 ।

हवलदार विजय शंकर सिंह (14345865 एन अब जेसी-260414 ए)—28 मई 97/01 अप्रैल 97* ।

हवलदार महेंदर दुब्बे (14469273 एक्स अब जेसी-260415 एच)—01 अप्रैल 97 ।

बी एच एम कौल्हे गौरखनाथ जगननाथ (14332664 डब्ल्यू अब जे सी-260416 एल)—02 अप्रैल 97/01 अप्रैल 97 ।*

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना) ।

हवलदार तरसेम सिंह (1269021 एफ अब जे सी-260074 एच)—01 मार्च 97/*26 नवम्बर 96 ।

हवलदार राम अवतार प्रसाद (14453162 डब्ल्यू अब जे सी-260075 एल)—05 मार्च 97/*30 नवम्बर 96 ।

हवलदार शाम लाल करमारकर (14330445 डब्ल्यू अब जे सी-260076 एन)—05 मार्च 97/*30 नवम्बर 96 ।

हवलदार जया सिंह (14335354 डब्ल्यू अब जे सी-260077 डब्ल्यू)—06 मार्च 97/*08 दिसम्बर 96 ।

हवलदार मुखतियार सिंह (14334583 पी अब जे सी-260079 एफ)—01 मार्च 97/*20 दिसम्बर 96 ।

हवलदार भवन सिंह (14331399 वाई अब जे सी-260080 डब्ल्यू)—21 मार्च 97/*01 मार्च 97 ।

बी एच एम शक्ति सिंह (14459243 एन अब जे सी-260081 वाई)—01 मार्च 97/*01 मार्च 97 ।

आर एच एम राम यादव (14336308 एन अब जे सी-260082 एफ)—01 मार्च 97/*01 मार्च 97 ।

हवलदार पदम बहादुर विष्ट (14470718 एल अब जे सी-260083 के)—07 अप्रैल 97/*01 अप्रैल 97 ।

हवलदार अशोक भोंसले (14451892 एच अब जे सी-260078 वाई) 25 जनवरी 97/*09 दिसम्बर 96 ।

हवलदार देवी सिंह (14329683 डब्ल्यू अब जे सी-260085 पी)—03 दिसम्बर 97/*01 जनवरी 96 ।

आर एच एम प्रधान सिंह (1265799 एच अब जे सी-260086 एक्स)—17 अगस्त 96/*01 मई 96 ।

हवलदार कुलदीप सिंह (14331132 के अब जे सी-260087 ए)—30 नवम्बर 96/*22 जून 96 ।

बी एच एम राजेन्द्रम एम (14331979 एम अब जे सी-260088 एच)—04 दिसम्बर 96/*01 अगस्त 96 ।

हवलदार बुध राम यादव (14330557 डब्ल्यू अब जे सी-260089 एल)—13 दिसम्बर 96/*01 सितम्बर 96 ।

हवलदार वासवन्तप्पा ईरय (14322688 एन अब जे सी-260090 ए)—20 फरवरी 97/*30 नवम्बर 96 ।

टी एच एम कृष्णा देव मिश्रा (14333520 ए अब जे सी-260091 एच)—13 जनवरी 97/*30 नवम्बर 96 ।

हवलदार गुरदियाल सिंह (14330365 वाई अब जे सी-260092 एल)—19 फरवरी 97/*01 दिसम्बर 96 ।

हवलदार लाल चन्द (14324133 के अब जे सी-260093 एन)—28 जनवरी 97/*01 दिसम्बर 96 ।

हवलदार राधाकृष्णन टी वी (14345350 एन अब जे सी-260094 डब्ल्यू)—10 मार्च 97/*01 दिसम्बर 96 ।

बी एच एम दया चन्द्र एस एम (14329158 ए अब जे सी-260095 वाई)—28 फरवरी 97/*06 फरवरी 97 ।

हवलदार वरगीस टी (14329237 पी अब जे सी-260096 एफ)—25 अप्रैल 97/*01 मार्च 97 ।

हवलदार कश्मीर सिंह (14323904 एफ अब जे सी-260097 के)—01 मार्च 97/*01 मार्च 97 ।

बी एच एम जालिम सिंह (14333968 ए अब जे सी-260098 एम)—01 अप्रैल 97/*01 अप्रैल 97 ।

हवलदार उन्नी कृष्णन सी (14346856 वाई अब जे सी-260099 पी)—17 जनवरी 97/*17 मई 96 ।

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना) ।

आर एच एम जगत नारायण (14326800 एल अब जे सी-260132 एफ)—26 अप्रैल 97/01 फरवरी 96*

हवलदार गोपान कृष्ण पिल्लै (14344722 एफ अब जे सी-260133 के)—21 मार्च 97/01 अगस्त 96 ।*

बी एच एम एम कृष्णा कुमार (14456888 के अब जे सी-260134 एम)—04 अप्रैल 97/01 अक्टूबर 96* ।

बी एच एम महेंद्र सिंह (14452546 वाई अब जे सी-260135 पी)—24 मार्च 97/01 अक्टूबर 96* ।

हवलदार विजय सिंह (14352133 ए अब जे सी-260136 एक्स)—29 मार्च 97/16 नवम्बर 96* ।

हवलदार पुष्पा राजन वैसी (14324927 पी अब जे सी-260137 ए)—30 मार्च 97/25 नवम्बर 96* ।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता) ।

बी एच एम मोहनम एम० वी० (सं० 14324933 एच अब जे० सी०-260138 एच०)—15 मार्च, 1997/30 नवम्बर, 1996* ।

बी० एच० एम० रसपाल सिंह (सं० 1268026 एन अब जे० सी०-260139 एल०)—08 मार्च, 1997/16 दिसम्बर, 1996* ।

हवलदार लेख सिंह (सं० 1263114 ए अब जे० सी० 260140 ए)—25 मार्च, 1997/01 जनवरी, 1997* ।

हवलदार इन्दरजीत सिंह (सं० 14454062 एक्स अब जे० सी०-260141 एच)—25 मार्च, 1997/1 फरवरी, 1997* ।

हवलदार नोरेम मन्जीजाओ सिंह (सं० 14337171 वाई अब जे० सी०-260142 एल)—22 मार्च, 1997/01 फरवरी, 1997* ।

हवलदार पूरम सिंह (सं० 14360638 एल अब जे० सी०-260143 एन)—20 मार्च, 1997/12 फरवरी, 1997* ।

आर० एच० एम० ग्यारसी लाल यादव (सं० 1261930 एक्स अब जे० सी०-260144 डब्ल्यू)—4 अप्रैल, 1997 1 मार्च, 1997* ।

हवलदार राजन सिंह (सं० 1269210 एल अब जे० सी०-260145 वाई)—20 मार्च 1997/ 1 मार्च, 1997* ।

हवलदार जागीर सिंह (सं० 1267841 पी अब जे० सी०-260147 के)—01 अप्रैल, 1997 ।

हवलदार पुरुषोत्तम वत्त (सं० 14330644 के अब जे० सी०-260146 एफ)—1 अप्रैल, 1997 ।

हवलदार जतिन चन्द्र बोरा (सं० 1445766 एफ अब जे० सी०-260148 एम)—11 अप्रैल, 1997/ 1 अप्रैल, 1996* ।

हवलदार कमलेश्वर प्रसाद (सं० 14332170 एम अब जे० सी० 260149 पी)—19 मार्च, 1997/31 जुलाई, 1996* ।

हवलदार नाबा कुमार मण्डल (सं० 13853003 डब्ल्यू अब जे० सी० 260150 के)—13 अप्रैल, 1997/01 अगस्त, 1996* ।

बी० एच० एम० अहम नन्द (सं० 14451882 वाई अब जे० सी०-260151 एम)—22 अप्रैल, 1997/ 01 अगस्त, 1996* ।

हवलदार भाग सिंह (सं० 1448068 एच अब जे० सी०-260152 पी)—19 अप्रैल, 1997/16 नवम्बर 1996* ।

बी० एच० एम० आनन्द नारायण पाण्डे (सं० 14453948 एच अब जे० सी०-260153 एक्स)—05 मई, 1997/ 20 नवम्बर, 1996* ।

हवलदार मदन मोहन राय (सं० 14333545 एम अब जे० सी०-260154 ए)—10 अप्रैल, 1997/ 28 नवम्बर, 1996* ।

हवलदार होसिला प्रसाद शर्मा (सं० 14324338 वाई अब जे० सी०-260155 एच)—23 अप्रैल, 1997/ 30 नवम्बर, 1996* ।

बी० एच० एम० रोहतास सिंह चौहान (सं० 14324431 ए अब जे० सी०-260156 एल)—11 अप्रैल, 1997/ 30 नवम्बर, 1996* ।

(नायब सूबेदार के पद में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता) ।

हवलदार चन्द्र बाबू श्री० (सं० 14335597 एफ अब सी०-260100 वाई)—23 अक्तूबर, 1996/25 जून, 1996* ।

बी० एच० एम० बेनु गोपालन नायर के० एन० (सं० 1267664 ए अब जे० सी०-260101 एफ)—10 मार्च, 1997/1 नवम्बर 1996* ।

हवलदार जगताप मारुति नामदेव (सं० 14332488 के अब जे० सी०-260102 के)—24 मार्च, 1997/ 01 नवम्बर, 1996* ।

आर० एच० एम० फतेह सिंह (सं० 14327780 पी अब जे० सी०-260103 एम)—13 मार्च, 1997/01 नवम्बर, 1996* ।

बी० एच० एम० सागर एस० सी० (सं० 1269734 एम अब जे० सी० 260104 पी)—10 मार्च, 1997/01 नवम्बर, 1996* ।

हवलदार फिलिप थामस (सं० 14341567 ए अब जे० सी०-260105 एक्स)—25 मार्च, 1997/01 नवम्बर 1996* ।

हवलदार रामाचन्द्रन पी० (सं० 14454796 वाई जे० सी०-260106 ए)—21 फरवरी, 1997/20 नवम्बर 1996* ।

हवलदार बलदेव सिंह (सं० 14479681 डब्ल्यू अब जे० सी०-260107 एच)—06 अप्रैल, 1997/22 नवम्बर, 1996* ।

हवलदार स्वपन कुमार विश्वास (सं० 14344780 एस अब जे० सी०-260108 एल)—25 फरवरी, 1997/ 22 नवम्बर, 1996* ।

हवलदार ओम प्रकाश (सं० 14334595 के० अब जे० सी०-260109 एन)—25 फरवरी, 1997/22 नवम्बर 1996* ।

हवलदार पूरम सिंह (सं० 14348303 एफ० अब जे० सी०-260110 एच)—19 अप्रैल, 1997/25 नवम्बर 1996* ।

* (नायब सूबेदार के पद में बेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता) ।

हवलदार राम मनोरथ (सं० 14459473 ए अब जे० सी०-260111 एल०)—24 मार्च 1997/27 नवम्बर, 1996* ।

बी० एच० एम० राम अवतार यादव सं० 1265603 के अब जे० सी०-260112 एन)—01 अप्रैल, 1997/ 28 नवम्बर, 1996* ।

बी० एच० एम० स्वान के० (सं० 14339605 एन०अब
जे० सी० 260113 डब्ल्यू०)—25 मार्च, 1997/07
दिसम्बर, 1996।*

आर० एच० एम० जगत बहादुर पुन (सं० 5445193
ए० अब जे० सी०—260114 वाई०)—14 अप्रैल, 1997/
12 जनवरी, 1997।*

हवलदार नैना राम (सं० 14327968 के० अब जे०
सी०—260115 एफ०)—13 मार्च, 1997/13 जनवरी,
1997।

आर० एच० एम० बाली राम प्रसाद (सं०—14322271
एम० अब जे० सी०—260116 के०)—09 मार्च, 1997/
01 जनवरी, 1997।*

हवलदार हम्बराज सिंह यादव (सं० 14318688 पी०)
अब जे० सी०—260117 एम०)—24 मार्च, 1997/ 01
फरवरी, 1997।*

हवलदार ए० अरुणाचलम (सं० 14476439 डब्ल्यू
अब जे० सी०—260118 पी०)—01 मार्च, 1997/01
फरवरी 1997।*

बी० एच० एम० महीपाल (सं० 14332745 डब्ल्यू०
अब जे० सी०—260119 एक्स०)—03 अप्रैल, 1997/
01 अप्रैल, 1997।*

हवलदार व्यास जी पाण्डे (सं० 14330825 पी० अब जे०
सी०—260120 एम०)—10 मई, 1997/01 अप्रैल, 1997।*

हवलदार दिम्पेश्वर नाथ (सं० 1269154 एक्स० अब
जे० सी०—260121 पी०)—01 अप्रैल, 1997।

*नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता)।

बी० एच० एम० दलीप सिंह (सं० 14452099 ए०
अब जे० सी०—260551 वाई०)—01 सितम्बर, 1997/
27 जून, 1997।*

बी० एच० एम० ए० बंसाबी (सं० 14326586 एम०
अब जे० सी०—260552 एफ०)—27 अगस्त, 1997/
01 जुलाई, 1997।*

हवलदार नरेन्वर पाल सिंह (सं० 14346827 के० अब
जे० सी०—260559 एल०)—24 जुलाई, 1997/25 जून,
1996।*

हवलदार राम प्रकाश (सं० 14330285 एफ० अब
जे० सी०—260560 ए०)—06 सितम्बर, 1997/01
सितम्बर, 1996।*

हवलदार एम० शंकर (सं० 14338895 एच० अब
जे० सी०—260561 एच०)—02 नवम्बर, 1997/20
नवम्बर 1996।*

बी० एच० एम० यशवंत सिंह (14326576 के अब
जे० सी०—260562 एल०)—05 सितम्बर, 1997/
01 दिसम्बर, 1997।*

आर० एच० एम० जयरामन एन० नाडुकान्डी (सं०
14326138 एफ० अब जे० सी०—260563 डब्ल्यू०)—
09 अक्टूबर, 1997/01 जनवरी, 1997।*

हवलदार बिलु सिंह (सं० 14331498 एफ० अब जे०
सी०—260564 डब्ल्यू०)—02 अक्टूबर, 1997/01 जनवरी
1997।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता)।

हवलदार जोस वैजे (सं० 14338901 एल अब जे०
सी० 260565 वाई०)—12 सितम्बर, 1997/01 जनवरी,
1997।*

हवलदार सत्य प्रकाश (सं० 14330747 एच० अब
जे० सी०—260566 एफ०)—31 जुलाई, 1997/11 जनवरी
1997।*

आर० एच० एम० शशी नाथ झा (सं० 14455256
एम० अब जे० सी०—260567 के०)—19 जुलाई, 1997/24
जनवरी, 1997।*

बी० एच० एम० गोविन्द सिंह (सं० 1268681 एम०
अब जे० सी०—260568 एम०)—12 अक्टूबर, 1997/01
फरवरी, 1997।*

हवलदार सदानन्दन पी० (सं० 14327731 एम० अब
जे० सी०—260569 पी०)—08 जून, 1997/01 फरवरी,
1997।*

आर० एच० एम० छत्तरधारी यादव (सं० 14318777
एम० अब जे० सी० 260570 के०)—28 मार्च, 1997/14
फरवरी, 1997।*

हवलदार मनजीत सिंह (सं० 1267273 पी अब जे०
सी०—260571 एम०)—30 अगस्त, 1997/01 मार्च,
1997।*

हवलदार सुमेर सिंह (सं० 14334264 एच० अब जे०
सी०—260572 पी०)—11 अगस्त, 1997/01 मार्च,
1997।*

हवलदार अनिरुध्न के (सं० 14465550 के अब जे०
सी०—260573 एक्स०)—09 अगस्त, 1997/30 मार्च,
1997।*

बी० एच० एम० भवानी सिंह (सं० 1266074 पी०
अब जे० सी०—260574 ए०)—25 अप्रैल, 1997/01
अप्रैल, 1997।*

हवलदार शिन्दर पाल (सं० 1268398 वाई० अब जे० सी०-260575 एच०)--26 जुलाई, 1997/01 अप्रैल, 1997।*

हवलदार जागीर सिंह (सं० 14338847 एच० अब जे० सी०-260576 एल०)--15 अगस्त, 1997/01 अप्रैल, 1997।*

हवलदार पी० बाबु (सं० 14334149 एच० अब जे० सी०-260577 एन०)--17 जुलाई, 1997/06 मई, 1997।*

बी० एच० एम० परमजीत सिंह (सं० 14327364 एल० अब जे० सी०-260578 डब्ल्यू०)--02 अगस्त, 1997/09 मई, 1997।*

बी० एच० एम० महेन्द्र सिंह (सं० 1267796 एन अब जे० सी०-260579 वाई०)--18 अगस्त, 1997/01 जून, 1997।*

आर० एच० एम० अमरपाल सिंह (सं० 14453434 एल० अब जे० सी०-260580 एन०) 26 अगस्त, 1997/11 जून, 1997।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता)।

हवलदार ज्ञान सिंह (सं० 14455489 एन अब जे० सी० 260581 डब्ल्यू०)--11 अगस्त, 1997/4 जून, 1997।*

हवलदार लाल सिंह सामन्त (सं० 14330170 एन० अब जे० सी०-260582 वाई०)--18 अगस्त, 1997/23 जून, 1997।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता)।

हवलदार मोहन सिंह (सं० 14312531 वाई० अब जे० सी०-259483 के)--27 जनवरी, 1994।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 नवम्बर, 1992 से दी जाएगी)।

हवलदार बलराम नायक एन० (सं० 14356057 डब्ल्यू अब जे० सी०--259484 एम)--16 नवम्बर, 1995।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1994 से दी जाएगी)।

आर० एच० एम० सुकुमार सिन्हा (सं० 14455521 एक्स अब जे० सी०--259485 पी)--5 फरवरी, 1995।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जनवरी, 1995 से दी जाएगी)।

हवलदार रामनाथ सिंह (सं० 14453616 वाई अब जे० सी०-259486 एक्स)--20 सितम्बर, 1995।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1995 से दी जाएगी)।

आर० एच० एम० उत्तम सिंह राठौड़ (सं० 1266463 पी अब जे० सी०-259487 ए०)--02 अगस्त, 1995।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जुलाई, 1995 से दी जाएगी)।

बी० एच० एम० लाला राम (सं० 14334069 एन अब जे० सी०-259488 एच)--27 जुलाई, 1996।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 नवम्बर, 1995 से दी जाएगी)।

बी० एच० एम० भिम सिंह (सं० 14479376 के अब जे० सी०-259489 एल)--12 अगस्त, 1996।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 नवम्बर, 1995 से दी जाएगी)।

हवलदार जर्नेल सिंह (सं० 14458680 ए अब जे० सी०-259490 ए)--5 अप्रैल, 1996।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 नवम्बर, 1995 से दी जाएगी)।

आर० एच० एम० शिवपाल सिंह यादव (सं० 1262385 एल अब जे० सी०-259491 एच)--01 सितम्बर, 1996।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 नवम्बर, 1995 से दी जाएगी)।

हवलदार महादेव कावाडु राऊत (सं० 13856449 डब्ल्यू अब जे० सी०-259492 एल)--9 सितम्बर, 1996।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 नवम्बर, 1995)।

बी० एच० एम० धरम पाल सिंह (सं० 14321632 एन अब जे० सी०-259493 एन)--6 जुलाई, 1996।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1995)।

हवलदार ठाकरे विलास गनपत (सं० 14451456 एल एल अब जे० सी०-259494 डब्ल्यू)--01 मई, 1996।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1996)।

हवलदार सजाक अलि (सं० 14454942 एन अब जे० सी०-259495 वाई)--18 जुलाई, 1996 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1996) ।

हवलदार साजन सिंह (सं० 14453286 एल अब जे० सी०-259496 एफ)--12 अगस्त, 1996 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1996 से दी जाएगी) ।

हवलदार जाधव विजय सिंह दैन्यादेव (सं० 14338445 एल अब जे० सी०-259497 के)--6 जुलाई, 1996 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 फरवरी, 1996 से दी जाएगी) ।

बी० एच० एम० रूप लाल (सं० 1264521 पी अब जे० सी०-259498 एम)--2 मार्च, 1996 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 फरवरी, 1996 से दी जाएगी) ।

हवलदार मलकीयत सिंह (सं० 14331329 ए अब जे० सी०-259499 पी)--6 अगस्त 1996/1 मार्च, 1996 ।*

हवलदार शेख अब्दुल रजक (सं० 14477643 एफ अब जे० सी०-259500 वाई)--16 अगस्त 1996/1 मार्च 1996 ।*

आर एच एम वरन सिंह (सं० 1262140 पी अब जे० सी०-259501 एफ)--3 सितम्बर 1996/25 मार्च, 1996 ।*

हवलदार हरचरण सिंह (14454497 ए अब जे० सी०-259502 के)--24 अप्रैल 1996/1 अप्रैल, 1996 ।*

आर एच एम राम लाल सिंह (सं० 14456691 एन अब जे० सी०-259503 एम)--22 अगस्त 1996/1 अप्रैल, 1996 ।*

हवलदार त्रिहरस प्रकाश (सं० 14330163 एक्स अब जे० सी०-259504 पी)--14 सितम्बर 1996/1 अप्रैल, 1996 ।*

वी एच एम दलीप सिंह (सं० 14457390 डब्ल्यू अब जे० सी०-259505 एक्स)--27 मई 1996/18 अप्रैल, 1996 ।*

आर एच एम छत्तर सिंह (सं० 14319788 एम अब जे० सी०-259506 ए)--25 मई 1996/1 मई, 1996 ।*

हवलदार शाम सिंह (14480103 एन अब जे० सी०-259507 एच)--27 सितम्बर 1996/1 मई, 1996 ।

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं० 14329253 एम अब जे० सी०-259508 एल)--22 जून 1996/1 जून, 1996* ।

आर एच एम हिम्मत राव पाटिल (सं० 1269002 डब्ल्यू अब जे० सी०-259509 एन)--31 अगस्त 1996/1 जून, 1996 ।*

वी एच एम वीरेंदर कुमार (सं० 14460894 पी अब जे० सी०-259510 एच)--1 सितम्बर 1996/1 जून, 1996 ।*

हवलदार सरोज सिंह (सं० 14340892 एन अब जे० सी०-259511 एल)--4 सितम्बर, 1996/1 जून, 1996 ।*

हवलदार रघुवीर सिंह धिमान (सं० 1432009 के अब जे० सी०-259512 एन)--11 सितम्बर, 1996/11 जून, 1996 ।*

हवलदार फूल सिंह (सं० 14330360 ए अब जे० सी०-259513 डब्ल्यू)--19 अगस्त, 1996/25 जून, 1996 ।*

हवलदार गोलपा चन्द्रा नायक (सं० 14343751 के अब जे० सी०-259514 वाई)--1 जुलाई, 1996 ।*

वी एच एम शिवराज सिंह (सं० 14482564 डब्ल्यू अब जे० सी०-259515 एफ)--6 अगस्त, 1996/1 जुलाई, 1996 ।*

हवलदार राज कुमार सिंह (सं० 14338391 पी अब जे० सी०-259516 के)--7 अगस्त, 1996/31 जुलाई, 1996 ।*

आर एच एम एस कनागा हवापथी (सं० 14454777 एन अब जे० सी०-259517 एम)--16 अगस्त, 1996/1 जुलाई, 1996 ।*

वी एच एम कुलदीप सिंह (सं० 14330234 एन अब जे० सी०-259518 पी)--1 अगस्त, 1996 ।*

वी एच एम मातवर सिंह (सं० 14453018 एफ अब जे० सी०-259519 एक्स)--2 अगस्त, 1996/1 अगस्त, 1996 ।*

आर एच एम अमीर सिंह (सं० 14328913 एम अब जे० सी०-259520 एम)--9 सितम्बर, 1996/1 अगस्त, 1996 ।*

वी एच एम अजुन सिंह (सं० 14350349 पी अब जे० सी०-259521 पी)--24 सितम्बर, 1996/1 अगस्त, 1996 ।*

वी एच एम राजेन्द्रा प्रसाद सिंह (सं० 14324060 एच अब जे० सी०-259522 एक्स)--1 अक्टूबर, 1996 ।*

वी एच एम राजेन्द्रा प्रसाद यादव (सं० 14355167 वाई अब जे० सी०-259523 ए)--15 अक्टूबर, 1996/1 अगस्त, 1996 ।*

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना) ।

वी एच एम शशी धरण पी०के० (सं० 14341931 एन अब जे० सी०-260000 एन)--1 मार्च, 1996/25 फरवरी, 1996 ।*

हवलदार सोन वीर सिंह (सं० 14339375 के अब जे० सी०-260001 डब्ल्यू)--16 दिसम्बर, 1996/26 जुलाई, 1996 ।*

हवलदार विजयन बयाल वीटिल (सं० 14323641 एक्स अब जे० सी०-260002 एक्स)--22 जनवरी, 1997/15 नवम्बर, 1996 ।*

वी एच एम बुआ दित्ता (सं० 14333117 एन अब जे० सी०-260003 एफ)--3 अप्रैल, 1997/30 नवम्बर, 1996 ।*

वी एच एम बलदेव सिंह (सं० 14319028 के अब जे० सी०-260004 के)--12 जनवरी, 1997/30 नवम्बर, 1996 ।*

आर एच एम निरेश चन्द्रा सरकार (14325874 एन अब जे० सी०-260005 एम) -18 फरवरी 1997/3 दिसम्बर 1996* ।

हवलदार कृष्णा बहादुर गुरुंग (1268581 एफ अब जे० सी०-260006 पी)-1 दिसम्बर 1996 ।

वी एच एम हरी किशन (14330025 ए अब जे० सी०-260007 एक्स)-18 फरवरी 1997/1 जनवरी 1997* ।

हवलदार देवेश कुमार दिक्षित (14358521 एन अब जे० सी०-260008 ए)-04 मार्च 1997/1 जनवरी 1997 ।*

हवलदार जीवन सिंह (1265388 के अब जे० सी०-260009 एच)-2 मार्च 1997/1 जनवरी 1997* ।

वी एच एम जयबन्त सिंह (14328241 एफ अब जे० सी०-260010 एक्स)-15 फरवरी 1997/1 फरवरी 1997 ।*

हवलदार चन्द्र शोखर सुदन (14347163 एन अब जे० सी०-260011 ए)-2 मार्च 1997/1 मार्च 1997 ।*

हवलदार रामेश चन्द (14324041 के अब जे० सी०-260012 एच)-2 मार्च 1997/1 मार्च 1997 ।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता) ।

बी०एच०एम० परविन्दर सिंह (सं० 14477545 एफ अब जे० सी०-260323 डब्ल्यू)-13 मार्च, 1997 /*28 नवम्बर, 1997 ।

हवलदार महावीर सिंह (सं० 14323978 डब्ल्यू अब जे० सी०-260324 वाई)-02 जलाई, 1997/*30 नवम्बर, 1997 ।

हवलदार अशोक सम्पत माने (सं० 14321681 डब्ल्यू अब जे० सी०-260325 एफ)-14 मई, 1997/*30 नवम्बर, 1997 ।

हवलदार करनी राम (सं० 14342212 एफ अब जे० सी०-260326 के)-28 अप्रैल, 1997/*01 दिसम्बर 1996 ।

आर०एच०एम० रमेश कुमार (सं० 14455863 एल अब जे० सी०-260327 एम)-11 फरवरी, 1997/*01 जनवरी, 1997 ।

हवलदार अभय सिंह (सं० 1267475 डब्ल्यू अब जे० सी०-260328 पी)-20 जून, 1997/*01 जनवरी, 1997 ।

हवलदार सुरेश कुमार (सं० 1266427 के अब जे० सी०-260329 एक्स)-29 अप्रैल, 1997/*01 जनवरी 1997 ।

हवलदार धनवीर चन्द कटोच (सं० 14327346 एच अब जे० सी०-260330 एम)-18 अप्रैल, 1997/*06 जनवरी, 1997 ।

5-234 GI/98

हवलदार श्याम चरन (सं० 14348872 पी अब जे० सी०-260331 पी)-11 फरवरी, 1997/*01 फरवरी 1997 ।

हवलदार गोविन्द बापू हीरूगडे (सं० 14475143 एल अब जे० सी०-260332 एक्स)-17 मई, 1997/*01 मार्च, 1997 ।

बी०एच०एम० बलविन्दर सिंह (सं० 14356406 पी अब जे० सी०-260333 ए)-09 अप्रैल, 1997/*01 मार्च, 1997 ।

हवलदार विजेन्द्र कुमार सिंह (सं० 14461156 एक्स अब जे० सी०-260334 एल)-14 मई, 1997/*01 मार्च, 1997 ।

हवलदार ओम प्रकाश (सं० 14348604 एल अब जे० सी०-260335 एल)-15 अप्रैल, 1997/*01 मार्च, 1997 ।

हवलदार करम सिंह (सं० 14452663 के अब जे० सी०-260336 एन)-08 मार्च, 1997/*30 मार्च, 1997 ।

हवलदार हयात सिंह मंजीला (सं० 14330713 पी अब जे० सी०-260337 डब्ल्यू)-08 मई, 1997/*30 मार्च 1997 ।

हवलदार रघुपति सहाय पान्डे (सं० 14458542 वाई अब जे० सी०-260338 वाई)-08 मई, 1997/*30 मार्च, 1997 ।

हवलदार बच्चू सिंह (सं० 14330250 एल अब जे० सी०-260339 एफ)-08 मई, 1997/*30 मार्च, 1997 ।

हवलदार इन्द्र कुमार (सं० 14354557 पी अब जे० सी०-260340 डब्ल्यू)-05 मई, 1997/*30 मार्च 1997 ।

हवलदार अनंत पाटिल (सं० 14361480 ए अब जे० सी०-260341 वाई)-05 मई, 1997/*30 मार्च, 1997 ।

हवलदार रमेश चन्द्र (सं० 14332726 एक्स अब जे० सी०-260342 एफ)-29 मई, 1997/*01 अप्रैल, 1997 ।

आर०एच०एम० मंगल सिंह (सं० 14457674 ए अब जे० सी०-260343 के)-29 मई, 1997/*01 अप्रैल, 1997 ।

बी०एच०एम० ओंकार सिंह राठौर (सं० 14461218 एम अब जे० सी०-260344 एम)-13 मई, 1997/*20 अप्रैल, 1997 ।

हवलदार देवाश्रीनासुब्बा राव (सं० 14341172 वाई अब जे० सी०-260345 पी)-20 मई, 1997/*01 मई, 1997 ।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता) ।

हवलदार गार्लिंगप्पा चनावीर (सं० 14451178 एच अब जे० सी०-260205 एच)—26 अप्रैल, 1997/*01 अप्रैल, 1997।

हवलदार सुखवन्त सिंह (सं० 14335223 एल अब जे० सी०-260206 एल)—01 जून, 1997।

हवलदार हरबन्स विठ्ठल रोजी (सं० 14347493 एम अब जे० सी०-260207 एम)—08 दिसम्बर, 1996/*30 नवम्बर, 1995।

बी०एच०एम० लवार्ना किसन लक्ष्मण (सं० 14455492 एक्स अब जे० सी०-260208 डब्ल्यू)—27 नवम्बर, 1996/*30 नवम्बर, 1995।

हवलदार गंगा राम (सं० 14466138 वाई अब जे० सी०-260209 वाई)—27 फरवरी, 1997/*04 फरवरी 1997।

हवलदार चावन दिलीप जसवन्त (सं० 14348782 एन अब जे० सी०-260210 एन)—27 नवम्बर, 1996/*01 अप्रैल, 1996।

बी०एच०एम० हरबन्स लाल (सं० 14319511 एन अब जे० सी०-260211 एन)—12 जून, 1996/*03 मई, 1996।

हवलदार रणबीर सिंह (सं० 14458209 ए अब जे० सी०-260212 वाई)—01 मार्च, 1997/*08 जुलाई, 1996।

हवलदार हीरा लाल दयानू सालुंखे (सं० 1268029 एफ अब जे० सी०-260213 एफ)—28 फरवरी, 1997/*19 जुलाई, 1996।

हवलदार जगदीश सिंह (सं० 14324832 पी अब जे० सी०-260214 के)—12 अक्टूबर, 1996/*01 सितम्बर, 1996।

हवलदार गिरीश चन्द्रा पाठक (सं० 14331232 पी अब जे० सी०-260215 एम)—10 मई, 1997/*01 नवम्बर 1996।

हवलदार डोन्कना जगन मोहन (सं० 14460141 एच अब जे० सी०-260216 पी)—17 अप्रैल, 1997/*01 नवम्बर, 1996।

हवलदार बखशीश सिंह (सं० 14322601 ए अब जे० सी०-260217 एक्स)—29 अप्रैल, 1997/*28 नवम्बर, 1996।

आर०एच०एम० प्रकाश सिंह (सं० 14336968 एल अब जे० सी०-260218 ए)—12 मार्च, 1997/*28 नवम्बर 1996।

हवलदार मातु सिंह (सं० 1265434 एन अब जे० सी०-260219 एच)—09 अप्रैल, 1997/*28 नवम्बर, 1996।

हवलदार हेम राज (सं० 14322089 एन अब जे० सी०-260220 एक्स)—27 फरवरी, 1997/*28 नवम्बर, 1996।

आर०एच०एम० इकबाल सिंह (सं० 14330437 एक्स अब जे० सी०-260221 ए)—02 मार्च, 1997/*30 नवम्बर, 1996।

हवलदार अशीकन एल, (14466776 एक्स अब जे० सी०-260222 एच)—22 अप्रैल, 97/*30 नवम्बर, 96।

हवलदार लोचन सिंह यादव (14451176 एक्स अब जे० सी०-260223 एल)—09 फरवरी, 97/*30 नवम्बर, 96।

बी०एच०एम० कन्वर पाल सिंह शिसोदिया (1265672 ए अब जे० सी०-260224 एन)—21 अप्रैल, 97/*01 जनवरी, 1997।

आर०एच०एम० जामबन्त सिंह (1263845 एन अब जे० सी०-260225 डब्ल्यू)—08 फरवरी, 97/*05 जनवरी, 97।

बी०एच०एम० त्रिलोक सिंह (14333284 के अब जे० सी०-260226 वाई)—27 फरवरी, 1997/*8 जनवरी 1997।

बी०एच०एम० पूर्ण चन्द (14328964 ए अब जे० सी० 260227 एफ)—21 अप्रैल, 97/*01 फरवरी, 97।

हवलदार प्रल्लाहद (14474821 एन अब जे० सी०-260228 के)—26 अप्रैल, 1997/*01 फरवरी, 1997।

बी०एच०एम० जेम्स एम० डी० (14460989 पी अब जे० सी० 260229 एम)—10 मई, 1997/*19 फरवरी, 1997।

* (ज्येष्ठता नाथव सुवेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)।

हवलदार कालप्पा बी०एम० (14461381 एम अब जे० सी० 260511 एक्स)—07 जुलाई, 1997/*08 जून, 1997।

हवलदार अनन्द प्रकाश (14466050 पी अब जे० सी०-260512 ए)—22 जुलाई, 1997/*15 जून, 1997।

हवलदार परभात सिंह (14344315 वाई अब जे० सी०-260513 एच)—07 जुलाई, 1997/*27 जून, 1997।

हवलदार अजीत सिंह (1268167 एच अब जे० सी०-260514 एल)—01 जुलाई, 1997।

बी०एच०एम० विजय कुमार एन (14456890 एफ अब जे० सी०-260515 एन०)—16 अगस्त 1997/*01 जुलाई, 1997।

हवलदार नागाभूषना वी (14457989 के अब जे० सी०—260516 डब्ल्यू)—11 अगस्त, 1997/*01 जुलाई, 1997

हवलदार धर्मा कान्ता वरदालोई (14334866 डब्ल्यू अब जे० सी०—260517 वाई)—23 जुलाई, 1997/*01 जुलाई, 1997 ।

हवलदार विरेन्द्रा प्रताप सिंह (14328578 एन अब जे० सी०—260518 एफ)—08 सितम्बर 97/01 जुलाई 97 ।*

आर एच एम राम किसन यादव (14453075 एच अर जे० सी०—260519 के)—29 जुलाई 97/14 जुलाई 97 ।*

आर एच एम रामवीर मिह (14452624 एल अब जे० सी०—260520 वाई)—03 सितम्बर 97/01 अगस्त 97 ।*

हवलदार धनपत सिंह (14330890 पी अब जे० सी०—260521 एफ)—01 सितम्बर 97 ।

हवलदार अश्विनी कुमार (1264473 ए अब जे० सी०—260522 के)—06 अक्टूबर 97/01 अक्टूबर 97 ।*

हवलदार पुरुषोत्तम राम (1265218 ए अब जे० सी०—260523 एम)—01 अक्टूबर 97/01 अक्टूबर 97 ।*

वी एच एम महेन्द्रन क (14330755 एफ अब जे० सी०—260539 एक्स)—16 अगस्त 97/28 नवम्बर 96 ।*

हवलदार घनश्याम प्रधान (14347450 एक्स अब जे० सी०—260540 एम)—02 अगस्त 97/01 जनवरी 97 ।*

हवलदार रोगन सिंह (13856292 एफ अब जे० सी०—260541 पी)—04 सितम्बर 97/30 जून 94 ।*

हवलदार पेम्मासानी राजेन्द्रा प्रसाद (14334195 एक्स अब जे० सी०—260542 एक्स)—04 अगस्त 97/01 जनवरी 97 ।*

हवलदार राम शंकर सिंह (1269939 एफ अब जे० सी०—260543 ए)—20 अगस्त 97/01 जनवरी 97 ।*

हवलदार यश पाल (1267312 एच अब जे० सी०—260544 एच)—12 अगस्त 97/01 जनवरी 97 ।*

हवलदार राम प्रसाद (14329254 पी अब जे० सी०—260545 एल)—19 अगस्त 97/30 मार्च 97 ।*

हवलदार रतन चन्द (14329904 एफ अब जे० सी०—260546 एन)—19 अगस्त 97/30 मार्च 97 ।*

आर एच एम सतनाम सिंह (14465875 एन अब जे० सी०—260547 डब्ल्यू)—11 सितम्बर 97/01 अप्रैल 97 ।*

वी एच एम महदेव मिह (14468716 एफ अब जे० सी०—260548 वाई)—20 अगस्त 97/13 अप्रैल 97 ।*

हवलदार लिला किसन (14464654 पी अब जे० सी०—260549 एफ)—08 अगस्त 97/03 मई 97 ।*

हवलदार सी प्रभाकरन (14327787 वाई अब जे० सी०—260550 डब्ल्यू)—18 अगस्त 97/01 जून 97 ।*

* (ज्येष्ठता नायब सूबेदार के पद में वेतन और भर्ती पर प्रभाव डाले बिना) ।

हवलदार भूपेन्द्र प्रसाद (सं० 14326922 पी अब जे० सी०—260230 एफ)—13 मार्च, 1997/01 मार्च 1997* ।

बी०एच०एम० मोहिन्दर सिंह (सं० 14328563 एल अब जे० सी०—260231 के)—21, अप्रैल, 1997/01 अप्रैल 1997* ।

बी०एच०एम० दलेल सिंह (सं० 1268202 ए अब जे० सी०—260232 एम)—21 अप्रैल, 1997/01 अप्रैल, 1997* ।

हवलदार महेन्द्र सिंह यादव (सं० 1267150 एच अब जे० सी०—260233 पी)—20 नवम्बर, 1996/01 जनवरी, 1996* ।

बी०क्यू०एम०एच० श्री भगवान (सं० 14455945 एन अब जे० सी०—260234 एक्स)—21 नवम्बर, 1996/01 अगस्त 1966 ।*

बी०एच०एम० श्री चन्तप्पा संगप्पा (14322786 एम अब जे० सी० 260233 ए) 03 जनवरी 1997/01 सितम्बर 1996* ।

हवलदार ठहरगाले नागनाथ तात्या राव (सं० 14350745 वाई अब जे० सी०—260236 एच)—08 फरवरी, 1997/21 नवम्बर, 1996* ।

हवलदार बी० पुरुषोथमा छेत्री (सं० 14340826 एल अब जे० सी०—260237 एल)—26 फरवरी, 1997/28 नवम्बर, 1996* ।

हवलदार अब्दुल अजीज एम० (सं० 14346189 डब्ल्यू अब जे० सी०—260238 एन)—08 अप्रैल, 1997/30 नवम्बर, 1996* ।

आरएचएम वाई धनवती सिंह (1269540 के अब जे० सी०—260239 डब्ल्यू) 1 मार्च 1997/1 फरवरी 1997 ।

हवलदार पूरन सिंह (14326275 ए अब जे० सी०—260240 एल)—1 फरवरी 1997 ।*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भर्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता)

हवलदार वेनु गोपाल एम०एन० (सं० 14451039 वाई अब जे० सी०—260241 एन)—20 मार्च, 1997/01 फरवरी, 1997* ।

बी०एच०एम० जोगिन्दर सिंह (सं० 14455358 एच अब जे० सी०—260242 डब्ल्यू)—16 अप्रैल, 1997/1 फरवरी, 1997* ।

हवलदार लाल सिंह (सं० 14325258 एन अब जे० सी०—260243 वाई)—01 मार्च, 1997 ।

हवलदार करन सिंह (1268283 एल अब जे० सी०—260244 एफ)—1 मार्च 1997

हवलदार कृष्णन ज्ञानी टी० आर० (1269770 एक्स) अब जे० सी०—260245 के)—16 जून, 1997/01 मार्च 1997।*

आर०एच०एम० दयानन्द के० (सं० 14325679 डब्ल्यू अब जे० सी०—260246 एम)—08 अप्रैल, 1997/06 मार्च, 1997*

हवलदार प्रकाश चन्द्रा (सं० 14466427 एन अब जे० सी०—260247 पी)—05 मई, 1997/30 मार्च, 1997*।

हवलदार नारायण मिश्रा (सं० 14334720 एच अब जे० सी०—260248 एक्स)—01 अप्रैल, 1997।

हवलदार देव राज शर्मा (सं० 14335012 एच अब जे० सी०—260263 एम)—29 अप्रैल, 1997/01 अक्टूबर 1996*।

हवलदार अनिल कुमार शर्मा (सं० 14346378 ए अब जे० सी०—260264 पी)—28 अप्रैल, 1997/01 नवम्बर, 1996*।

आर० एच० एम० वीरेन्द्र सिंह (सं० 14472301 के अब जे० सी०—260265 एक्स)—05 मई, 1997/01 नवम्बर, 1996*।

हवलदार कुलदीप सिंह (सं० 1265024 एक्स अब जे० सी०—260266 एम)—19 मई, 1997/01 नवम्बर, 1996*।

हवलदार जन्जुरलीमहादेव रघुनाथ (सं० 14453474 एम अब जे० सी०—260267 एच)—23 जून, 1997/10 नवम्बर, 1996*।

हवलदार बीयाटे पोपट बापू (सं० 14453534 डब्ल्यू अब जे० सी०—260268 एल)—26 मई, 1997/25 नवम्बर, 1996*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी०डी० एस०के०टी०) के पद में

हवलदार (क्लर्क) मदन पाल (सं० 14341948 एफ अब जे० सी०—260980 ए)—01 जून, 1998*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर, 1997 से दी जायेगी)।

हवलदार (क्लर्क) सतदेव सिंह (सं० 14327079 एम अब जे० सी०—260981 एच)—19 फरवरी, 1998*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1998 से दी जायेगी)।

हवलदार (क्लर्क) हरभजन सिंह (सं० 14338549 एम अब जे० सी०—260982 एल)—01 अप्रैल, 1998।

हवलदार (क्लर्क) सतीशचन्द्रा ठाकुर (सं० 14349524 ए अब जे० सी०—260983 एन)—01 अप्रैल, 1998।

वायु रक्षा तोपखाना कोर

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी०डी०) के पद में

नायब सूबेदार वरदेव सिंह (जे० सी०—256145 एफ)—01 जुलाई, 1997।

नायब सूबेदार नत्थी प्रसाद (जे० सी०—223353 डब्ल्यू)—01 अगस्त, 1997।

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जे० सी०—255191 के)—01 सितम्बर, 1997।

नायब सूबेदार रामलराटे (जे० सी०—296126 वाई)—01 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार पीथाम्बरन नायर आर० (जे० सी०—296111 डब्ल्यू)—01 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार एस० सुदलाईमती (जे० सी०—223115 के)—01 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार सीसीर कुमार गुह्य (जे० सी०—223921 डब्ल्यू)—01 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार प्रभाती लाल (जे० सी०—226506 ए)—01 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार हनुमान सिंह (जे० सी०—255663 पी)—01 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार तरदार सिंह यादव (जे० सी०—255608 वाई)—01 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार रोशन लाल (जे० सी०—256147 एम)—01 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार घनश्याम भगत (जे० सी०—296011 एल)—01 जनवरी, 1998।

नायब सूबेदार गर्गा कृष्ण मुथी (जे०सी-296064के)—01 जनवरी 1998।

नायब सूबेदार रूदर सिंह (जे०सी-255813ए)—01 फरवरी 1998।

नायब सूबेदार अमी लाल सिराहवता (जे०सी-256782एक्स)—01 फरवरी 1998।

नायब सूबेदार श्रवण कुमार राजपूत (जे०सी-296049पी)—01 फरवरी 1998।

नायब सूबेदार हाशियार सिंह (जे०सी-255472ए)—01 फरवरी 1998।

नायब सूबेदार रामाचंद्रन एम (जे०सी-226573एल)—01 फरवरी 1998।

नायब सूबेदार रमेश चंद्र (जंसी-226695पी)—01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार राम फल (जंसी-255170एन)—01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार शिव लाल (जंसी-255326ए)—01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार दिनेश कुमार पाल (जंसी-255855एम)—01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार ससीधरन पिप्लै टी के (जंसी-255534पी)—01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार बाबू लाल यादव (जंसी-256780एम)—01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार हंमंगा सिंघा (जंसी-296023ए)—01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार कर्न सिंह (जंसी-296066पी)—01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार लीलू राम तंवर (जंसी-224767पी)—01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार अर्जन प्रसाद त्रिपाठी (जंसी-255520पी)—01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार नजर सिंह चहल (जंसी-255540एच)—01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार जोगिंदर पाल (जंसी-255903एफ)—01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जंसी-255885के)—01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार भजन चंद (जंसी-256159एफ)—01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार चक्र दत्त शर्मा (जंसी-256365एल)—01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार राम सिंह (जंसी-256367डब्ल्यू)—01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार नानी मोहन नामासुद्धा (जंसी-256786एन)—01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार महाराज सिंह रावत (जंसी-296037ए)—01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार धनपत सिंह (जंसी-296042एल)—01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जंसी-296053एक्स)—01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार मारू राम (जंसी-296132एम)—01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार बीरेंद्र नाथ कोराह (जंसी-255661के)—01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार अधिम मृनाल सिंह (जंसी-255915डब्ल्यू)—01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार सरदार सिंह (जंसी-296052पी)—01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार महेंदर सिंह गौतम (जंसी-296055एच)—01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार तील बहादुर (जंसी-226825एम)—01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार ए पालानो (जंसी-226451एफ)—01 अप्रैल 1998 ।

नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह (जंसी-296059वाई)—01 अप्रैल 1998 ।

नायब सूबेदार बाबू राम यादव (जंसी-296038एच)—01 अप्रैल 1998 ।

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जंसी-296076वाई)—01 अप्रैल 1998 ।

नायब सूबेदार जी जंसू गनी (जंसी-255881एन)—01 अप्रैल 1998 ।

नायब सूबेदार दुध नाथ सिंह (जंसी-256788वाई)—01 अप्रैल 1998 ।

नायब सूबेदार (महाराज सिंह (जंसी-187616डब्ल्यू)—01 अप्रैल 1998 ।

नायब सूबेदार के मनीयन (जंसी-225893एन)—01 अप्रैल 1998 ।

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार सतपाल सिंह गिल (14461652वाई अब जंसी-297005के)—01 अप्रैल 98 ।

हवलदार राम निवास (14475075एच अब जंसी-297006एम)—01 अप्रैल 98 ।

बीएचएम कादिरि वेंकटा रामुडु (14331847ए अब जंसी-297007पी)—15 अक्टूबर 97/01 अगस्त 97 ।*

हवलदार राम सिंह सकलानी (14342762के अब जंसी-297008एक्स)—01 नवम्बर 97 ।

बीएचएम रामधारी सिंह (14333956एल अब जंसी-297009ए)—03 जनवरी 98/01 नवम्बर 97 ।*

बीएचएम अजया कुमार पी वी (14335340डब्ल्यू अब जंसी-297010पी)—21 फरवरी 98/01 नवम्बर 97 ।*

बी०एच०एम० राम भद्रक मिश्रा (14338762एम अब जे०सी-297011एच०)—13 फरवरी 98/20 नवम्बर 97 ।*

हवलदार बगत लाल (14336060पी अब जे०सी-297012ए)—16 अप्रैल 98/29 नवम्बर 97 ।*

हवलदार सिमांचल साहू (14337247एन अब जे०सी-297013एच०)—12 फरवरी 98/29 नवम्बर 97 ।*

हवलदार धरम भीर (14338170एच अब जे०सी-297014एल)—16 फरवरी 98/30 नवम्बर 97 ।*

हवलदार बी श्री कदम नाथर (14346808वाई अब जे०सी-297015एन)—28 फरवरी 98/30 नवम्बर 97 ।*

बी० एच० एम० आर० रामार (सं० 14344653 वाई अब जे० सी०—297016 डब्ल्यू)—28 फरवरी, 98/30 नवम्बर, 1997 ।*

हवलदार निवहूती (सं० 14332784 पी अ० जे० सी० 297017 वाई)—28 फरवरी, 1998/30 नवम्बर, 1997 ।*

हवलदार परमा नन्द (सं० 14355004 एल० अब जे० सी०—297018 एफ०)—07 अप्रैल, 1998 30 नवम्बर, 1997 ।*

बी० एच० एम० भूमी सिंह (सं० 14326544 एफ० अब जे० सी०—297019 के)—27 जनवरी, 1998/01 दिसम्बर, 1997 ।*

बी० एच० एम० दीप चन्द राय (सं० 14347480 पी अब जे० सी०—297020 वाई०)—09 मार्च, 1998/01 दिसम्बर, 1997 ।*

हवलदार कुलवन्त सिंह (सं० 14328657 एच० अब जे० सी०—297021 एफ०)—10 मार्च, 1998/01 दिसम्बर 1997 ।*

हवलदार असीकन एम (14338638 एल अब जे० सी०—297022 के०)—28 फरवरी 98/23 दिसम्बर, 1997 ।*

हवलदार राजपाल रावत (सं० 14344207 पी० अब जे० सी०—297023 एम०)—27 जनवरी, 1998/01 जनवरी, 1998 ।*

हवलदार कृशन कुमार (सं० 14325800 वाई० अब जे० सी० 297024 पी०)—4 फरवरी, 1998/01 जनवरी, 1998 ।*

हवलदार उत्तम सिंह (सं० 14360237 डब्ल्यू अब जे० सी०—297025 एक्स)—14 फरवरी, 1998/01 जनवरी, 1998 ।*

बी० एच० एम० रतन सिंह राठौर (सं० 14331931 ए० अब जे० सी०—297026 ए)—18 मार्च, 1998/01 जनवरी, 1998 ।*

बी० एच० एम० ससीधरन पिल्लै एम० (सं० 14342466 वाई अब जे० सी०—297027 एच०)—26 मार्च, 1998/01 जनवरी, 1998 ।*

बी० एच० एम० काशी राम (सं० 14317723ए अब जे० सी०—297028 एल०)—01 फरवरी, 1998 ।

हवलदार युधवीर सिंह (सं० 14320410 एम० अब जे० सी०—297029 एन०)—1 फरवरी, 1998 ।

हवलदार बनवारी लाल (सं० 14317382 ए अब जे० सी०—297030 एच०)—09 फरवरी, 1998/01 फरवरी, 1998 ।*

हवलदार दलबीर सिंह (सं० 14348839 एक्स अब जे० सी०—297031 एल०)—18 फरवरी, 1998/01 फरवरी, 1998 ।*

हवलदार मोहन सिंह (सं० 14346326 के० अब जे० सी०—297032 एन०)—23 फरवरी, 1998/01 फरवरी 1998 ।*

आर०एच०एम०उपिन्दर चन्द कटौच (सं० 14349419 के अब जे० सी०—297033 डब्ल्यू)—26 फरवरी 98/01 फरवरी, 1998 ।

बी० एच० एम० दुली चन्द (सं० 14341409 एल अब जे० सी०—297034 वाई०)—26 फरवरी, 1998/01 फरवरी, 1998 ।*

बी० एच० एम० लेखी राम बोरा (सं० 14332021 वाई० अब जे० सी०—297035 एफ०)—02 मार्च, 1998/01 फरवरी, 1998 ।*

हवलदार राधा कृशनन नायर बी० (सं० 14339302 एक्स अब जे० सी०—297036 के०)—07 मार्च, 1998/01 फरवरी, 1998 ।*

हवलदार दिनेश सिंह (सं० 14348403 एम जे० सी०—297037 एम०)—23 मार्च, 1998/01 फरवरी, 1998 ।*

बी० एच० एम० थम्पी बी० आर० (सं० 14339235 एक्स० अब जे० सी०—297038 पी०)—09 मार्च, 1998/01 मार्च, 1998 ।*

आर० एच० एम० रतन सिंह (सं० 14327037 ए अब जे० सी०—297039 एक्स)—12 मार्च, 1998/01 मार्च, 1998 ।*

आर०एच०एम० नारायनन पी०आर० (सं० 14354231 वाई अब जे० सी०—297040 एम०)—05 मार्च, 1998/28 जनवरी, 1998 ।*

ति के लिये ध्येष्टता

विशेष सूची

कोर आफ सिगनल्स

- स्थायी सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) (पंडित) के रैंक में
सूबेदार संकरशन प्रसाद त्रिपाठी (जे० सी०-63665 एल०)---01 अप्रैल, 1998।
- सूबेदार राम सखा मिश्रा (जे० सी०-66622 एफ०)---01 अप्रैल, 1998।
- सूबेदार सूर्य प्रसाद त्रिपाठी (जे० सी०-63667 डब्ल्यू०)---01 अप्रैल, 1998।
- सूबेदार राम लखन अवस्थी (जे० सी०-65775 वाई०)---01 अप्रैल, 1998।
- स्थायी सूबेदार (धर्म शिक्षक) (पंडित) के रैंक में
नायब सूबेदार राम अवतार पाण्डेय (जे० सी०-160633 एम०)---01 अप्रैल, 1998।
- नायब सूबेदार रोशन लाल मिश्रा (जे० सी०-151073 के०)---01 अप्रैल, 1998।
- नायब सूबेदार शम्भू दयाल गर्ग (जे० सी०-150085 एम०)---01 अप्रैल, 1998।
- नायब सूबेदार श्याम नारायण मिश्रा (जे० सी०-150087 एक्स०)---01 अप्रैल, 1998।
- नायब सूबेदार गोरेख नाथ राय (जे० सी०-150088 ए०)---01 अप्रैल, 1988।
- स्थायी सूबेदार मेजर (एफ० आफ एस०) के रैंक में
सूबेदार कुलदीप चन्द (जे० सी०-133185 एफ०)---01 अप्रैल, 1998।
- सूबेदार प्रभात सिंह (जे० सी०-137236 एफ०)---01 जुलाई, 1998।
- स्थायी सूबेदार मेजर (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में
सूबेदार वीरपाल सिंह (जे० सी०-212113 वाई०)---01 जुलाई, 1998।
- स्थायी सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में
सूबेदार परमा नन्द (जे० सी०-186117 पी०)---01 मई, 1998।
- सूबेदार मंशी राम (जे० सी०-187967 एल०)---01 जुलाई, 1998।
- स्थायी सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में
नायब सूबेदार ए० एन्टोनी (जे० सी०-368279 एफ०)---01 दिसम्बर, 1997।
- नायब सूबेदार हृदेश कुमार (जे० सी०-368280 डब्ल्यू०)---01 दिसम्बर, 1997।
- नायब सूबेदार देवेन्द्र नायक (जे० सी०-368285 पी०)---01 दिसम्बर, 1997।

- नायब सूबेदार मेघ सिंह (जे० सी०-368357 एन०)---01 दिसम्बर, 1997।
- नायब सूबेदार शंकर लाल चौयल (जे० सी०-368358 डब्ल्यू०)---01 दिसम्बर, 1997।
- नायब सूबेदार जोर्ज कुट्टी यू वाई (जे० सी०-368381 के०)---01 दिसम्बर, 1997।
- नायब सूबेदार अमरीक मिह (जे० सी०-36838 एक्स०)---01 दिसम्बर, 1997।
- नायब सूबेदार बल्कर मिह (जे० सी०-368385 ए)---01 दिसम्बर, 1997।
- नायब सूबेदार मनोहर (जे० सी०-368398 एक्स०)---01 जनवरी, 1998।
- नायब सूबेदार राम सुदर्शन पाण्डेय (जे० सी०-368409 वाई०)---01 जनवरी, 1998।
- नायब सूबेदार राज कुमार (जे० सी०-368411 डब्ल्यू०)---01 जनवरी, 1998।
- नायब सूबेदार शेल्लो विठ्ठल राव लिम्बजी राव (जे० सी०-368507 वाई०)---01 जनवरी, 1998।
- नायब सूबेदार सरजू प्रसाद मिह (जे० सी०-368471 एल०)---01 जनवरी, 1998।
- नायब सूबेदार ब्रिजय कुमार सिंह (जे० सी०-368483 ए०)---01 जनवरी, 1998।
- नायब सूबेदार कृष्णन सी० एच० (जे० सी०-368486 एन०)---01 जनवरी, 1998।
- नायब सूबेदार प्रसन्न कुमार नानू (जे० सी०-368495 पी०)---01 फरवरी, 1998।
- नायब सूबेदार राम फेर यादव (जे० सी०-368500 पी०)---01 फरवरी, 1998।
- नायब सूबेदार जाधव नामदेव क्षिण्ट (जे० सी०-368621 डब्ल्यू०)---01 फरवरी, 1998।
- नायब सूबेदार गनपत राम (जे० सी०-368623 एफ०)---01 फरवरी, 1998।
- नायब सूबेदार राधा कृष्ण राम (जे० सी०-368624 के०)---01 फरवरी, 1998।
- नायब सूबेदार राम फल मिह (जे० सी०-368639 एम०)---01 फरवरी, 1998।
- नायब सूबेदार सरदार सिंह (जे० सी०-368641 के०)---01 फरवरी, 1998।
- नायब सूबेदार राजपाल सिंह मलिक (जे० सी०-368693 ए०)---01 फरवरी, 1998।
- नायब सूबेदार प्रताप मिह (जे० सी०-368695 एल०)---01 फरवरी, 1998।

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जे० सी०-368698 एन)--
01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जे० सी०-368700 एल)--
01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार के श्रीधरन राजन (जे० सी०-368729
एन)--01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार सुवास चन्द्र बिन्धानी (जे० सी०-
368768 एम)--01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार नारायण सिंह (जे० सी०-368772 पी)--
01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार राम बरन (जे० सी०-368773 एक्स)--
01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार राम धनी (जे० सी०-368775 एच)--
01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार जयनाथ पांडेय (जे० सी०-368779
वाई)--01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह चौहान (जे० सी०-368784
के)--01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार हरदयाल सिंह (जे० सी०-368786 पी)--
01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार धर्म नाथ प्रसाद (जे० सी०-368803
के)--1 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार डी० के० थापा (जे० सी०-368804
एम)--1 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार किशोर बहादुर थापा (जे० सी०-
368805 पी)--01 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार जितेन्द्र जेना (जे० सी०-368808 एच)
--01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार फणीधर डेका (जे० सी०-368809 एल)--
1 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार छेदी साहू (जे० सी०-368868 एक्स)--
01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार सुधड़ सिंह (जे० सी०-368869)--
01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार कवलजीत सिंह ब्रार (जे० सी०-368823
एक्स)--01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार बली लाल (जे० सी०-368801 वाई)--
01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार नन्द किशोर (जे० सी०-368911 एन)--
01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार सालुखे विश्वास सदाशिव (जे० सी०-
368952 एक्स)--1 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार राम शंकर झा (जे० सी०-369140
डब्ल्यू)--01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार विजय सिंह प्रभात (जे० सी०-368231
एन)--01 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार मदन मोहन सिंह (जे० सी०-369150
ए)--01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार विश्वा नाथ प्रसाद यादव (जे० सी०
369152 एल०)--01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार भीम मेन (जे० सी०-369170 एन)--
01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार कमल सिंह (जे० सी०-369171 डब्ल्यू)--
01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार विजयन पी० (जे० सी०-369182 एच)
--01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार गदाधर भट्टाचार्य (जे० सी०-369197
एल)--01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी०-369199 डब्ल्यू)
--01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे० सी०-369208 एम)--
01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार स्वपन दास (जे० सी०-369209 पी)--
01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार रन सिंह (जे० सी०-369216 एल)--
01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार किशोर सिंह (जे० सी०-369218 डब्ल्यू)
--01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार इन्द्र बहादुर थापा (जे० सी०-369225
एम)--01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार मकवाना अमर सिंह जुह सिंह (जे० सी०-
369227 एक्स)--01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार रामेश्वर (जे० सी०-369231 ए)--
01 मार्च 1998 ।

नायब सूबेदार राम किसन (जे० सी०-369232 एच)--
01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार हर बंश यादव (जे० सी०-369284 वाई)
--01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार बिन्देश्वरी सिंह यादव (जे० सी०-369285
एफ) 01--मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार आदित्य नारायण चौबे (जे० सी०
369287 एम)--01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-369300 एल)--
01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार सुल्तान मोहम्मद (जे० सी०-369304 एफ)—01 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार सत पाल (जे० सी०-369309 ए)—01 मार्च, 1998 ।

सूबेदार मेजर निजी सहायक

सूबेदार पाण्डेय एस० के० (जे०सी०-166211 एक्स)—1 मार्च 1998 ।

सूबेदार बैद्यनाथ सिंह (जे० सी०-175697 पी)—1 अप्रैल, 1998 ।

सूबेदार निजी सहायक

नायब सूबेदार वासुदेवन कनकाथिदथिल (जे० सी०-640265 के)—1 मार्च, 1998 ।

नायब सूबेदार यशवंत सिंह जामवाल (जे० सी०-640266 एम)—1 अप्रैल, 1998 ।

नायब सूबेदार वैकिटाचेलम पी० (जे० सी०-640267 पी)—1 अप्रैल, 1998 ।

नायब सूबेदार चन्द्रशेखरन नायर एन० (जे० सी०-640268 एक्स)—1 अप्रैल, 1998 ।

नायब सूबेदार सुरजीत कुमार मैत्रा (जे० सी०-640270 पी)—1 मई, 1998 ।

सूबेदार मेजर (स्टोरकीपर टैक्निकल)

सूबेदार विजय बहादुर नायक वशिष्ठ (जे० सी०-193241 वाई)—1 मई, 98 ।

सूबेदार जागीर सिंह (जे० सी०-193243 के)—1 मई, 1998 ।

सूबेदार ओंकार सिंह राना (जे० सी० 193257 के)—1 मई, 1998 ।

सूबेदार (स्टोरकीपर टैक्नीकल)

नायब सूबेदार विजयपाल सिंह (जे०सी० 213842 एन)—1 अगस्त, 1997 ।

नायब सूबेदार विजया कुमार नायर एम० (जे० सी०-217837 ए)—1 दिसम्बर 1997 ।

नायब सूबेदार अनिरुधा कुमार (जे० सी०-217867 एक्स)—1 फरवरी 1998 ।

नायब सूबेदार शशि भुषन सिंह (जे० सी०-640063 एच)—1 फरवरी, 1998 ।

6-234 GI/98

नायब सूबेदार मिहिर कुमार घोष (जे० सी०-215509 एन)—1 फरवरी, 1998 ।

नायब सूबेदार श्याम बिहारी प्रसाद (जे० सी०-640009 पी)—1 अप्रैल 1998 ।

नायब सूबेदार पौलुस वर्गिस (जे०सी०-640010 के)—1 अप्रैल, 1998 ।

नायब सूबेदार सिद्धाप्पा चोली (जे० सी०-640066 डब्ल्यू)—1 मई, 1998 ।

नायब सूबेदार राजेश्वर प्रसाद यादव (जे०सी०-640074 पी)—1 मई 1998 ।

नायब सूबेदार (सामान्य ड्यूटी/स्टाफ ड्यूटी)

के रैंक में

हवलदार अशोक कुमार चटर्जी (सं० 6649539 डब्ल्यू अब जे० सी०-641828 एल)—7 मार्च 1998* ।

हवलदार श्रीनिवास के० (सं० 6649115 ए अब जे० सी०-641829 एन)—23 फरवरी 1998* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1997 से दी जायेगी) ।

हवलदार शिव शंकर यादव (सं० 6649856 एक्स अब जे० सी०-641830 एच)—24 जनवरी 1998** ।

हवलदार नर बहादुर थापा (सं० 6649857 ए अब जे० सी०-641831 एल)—12 दिसम्बर 1997** ।

हवलदार श्याम किशोर पाण्डेय (सं० 6649860 ए अब जे० सी०-641832 एन)—1 दिसम्बर 1997 ।

हवलदार वेनु गोपालन वाई (सं० 6649828 एल अब जे० सी०-641833 डब्ल्यू)—1 दिसम्बर 1997 ।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1997 से दी जायेगी) ।

हवलदार सब्बीर अली (सं० 6649528 के अब जे० सी०-641834 वाई)—19 जनवरी 1998 ।***

हवलदार रतन सिंह (सं० 6649364 डब्ल्यू अब जे० सी०-641835 एफ)—1 जनवरी 1998 ।

हवलदार भुवनेश कुमार शारंगी (सं० 6649868 ए अब जे० सी०-641836 के)—6 जनवरी 1998*** ।

हवलदार अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी (सं० 6373628 पी अब जे० सी०-641837 एन)—4 फरवरी, 1998*** ।

हवलदार प्रभाकर चन्द्र मोहनो (सं० 6649831 एल अब जे० सी०-641838 पी)—5 फरवरी, 1998*** ।

हवलदार आर० मयू स्वामी (सं० 13861122 एफ अब जे० सी०—641839 एक्स)—7 मार्च, 1998**** ।

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 1 जनवरी, 1998 से दी जायेगी) ।

हवलदार योगेन्द्र सिंह (सं० 6649869 पी अब जे० सी०—641840 एम)—1 फरवरी, 1998 ।

हवलदार लाल बाबू तिवारी (सं० 6649877 एन अब जे० सी०—641841 पी)—9 मार्च, 1998**** ।

हवलदार नवल चन्द्र संगमा (सं० 6649879 वाई अब जे० सी०—641842 एक्स)—9 मार्च, 1998**** ।

हवलदार श्रीपाल सिंह (सं० 6649882 वाई अब जे० सी०—641843 ए)—2 फरवरी, 1998**** ।

हवलदार बबन चौबे (सं० 6649881 डब्ल्यू अब जे० सी०—641844 एच)—1 फरवरी, 1998 ।

हवलदार आनन्दन ए० (सं० 6649883 एफ अब जे० सी०—641845 एल)—5 मार्च, 1998**** ।

हवलदार राम निवास (सं० 6649885 एम अब जे० सी०—641846 एन)—1 फरवरी 1998 ।

हवलदार सत्य पाल (सं० 6649892 एच अब जे० सी०—641847 डब्ल्यू)—5 मार्च, 1998**** ।

हवलदार गोपाल मसाजी पुस्तोले (सं० 6649886 पी अब जे० सी०—641848 वाई)—6 मार्च, 1998**** ।

हवलदार बिरन्ची नारायण दास (सं० 6649894 एल अब जे० सी०—641849 एफ)—1 फरवरी, 1998 ।

हवलदार बिजया कुमार साहू (सं० 6649895 डब्ल्यू अब जे० सी०—641850 डब्ल्यू)—1 फरवरी, 1998 ।

हवलदार कीटपल्ली यदुकोन्डलू (सं० 6649902 एफ अब जे० सी०—641851 वाई)—2 फरवरी, 1998**** ।

हवलदार उदय कुमारन पी० (सं० 6649904 एन अब जे० सी०—641852 एफ)—10 फरवरी, 1998**** ।

हवलदार जगजीत सिंह (सं० 6649906 एक्स अब जे० सी०—641853 के)—1 फरवरी, 1998 ।

हवलदार होशियार सिंह (सं० 6649907 ए अब जे० सी०—641854 ए)—01 फरवरी, 1998 ।

हवलदार अजाद बान (सं० 6649908 एच अब जे० सी०—641855 पी)—01 फरवरी, 1998 ।

हवलदार कन्हैया राम (सं० 6649909 एल अब जे० सी०—641856 एक्स)—01 फरवरी, 1998) ।

हवलदार योगेन्द्र सिंह (सं० 6649911 ए अब जे० सी०—641857 ए)—14 फरवरी, 1998) ****

हवलदार प्रेम पाल मिश्र (सं० 6649913 एन अब जे० सी०—641858 एच)—09 फरवरी, 1998) ****

हवलदार सुरेन्द्र सिंह बिष्ट (सं० 6649918 एम अब जे० सी०—641859 एल)—04 मई, 1998) ****

हवलदार तिलक राज रतन (सं० 6649850 डब्ल्यू अब जे० सी०—641860 ए)—01 फरवरी, 1998 ।

हवलदार प्रतीप कुमार शारंगी (सं० 6649903 के अब जे० सी०—641861 एच)—11 अप्रैल, 1998 ।

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1998 से दी जायेगी) ।

हवलदार विजय कुमार भाटिया (सं० 6649922 पी अब जे० सी०—641862 एल)—01 मार्च, 1998 ।

हवलदार परिमल मित्रा (सं० 13863365 के अब जे० सी०—641863 एन)—07 मार्च, 1998) *

हवलदार राम कृपाल सिंह (सं० 13864835 एक्स अब जे० सी०—641864 डब्ल्यू)—26 मार्च, 1998) *

हवलदार सनत कुमार चटोपाध्याय (सं० 13861398 एन अब जे० सी०—641865 वाई)—09 मार्च, 1998) *

हवलदार वी जया दास (सं० 13868936 एच अब जे० सी०—641866 ए)—03 अप्रैल, 1998) *

हवलदार झूमर लाल (सं० 13873190 एल अब जे० सी०—641867 के)—02 मार्च, 1998) *

हवलदार प्रभु प्रसाद सिंह (सं० 6372047 एल अब जे० सी०—641868 एम)—01 मार्च, 1998 ।

हवलदार गिरजा शंकर (सं० 6374677 के अब जे० सी०—641869 पी)—06 मार्च, 1998) *

हवलदार पर्वे नारायण आनन्द (सं० 13863530 एल अब जे० सी०—641870 के)—01 मार्च, 1998 ।

हवलदार तरसीम लाल (सं० 6373839 एक्स अब जे० सी०—641871 एम)—01 मार्च, 1998 ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मार्च, 1998 से दी जायेगी) ।

हवलदार कमलेश राम (सं० 6373133 एच अब जे० सी०—641872 पी)—19 जून, 1998) × ×

हवलदार श्री चन्द्रकान्त प्रसाद (सं० 13870774 ए अब जे० सी०—641873 एक्स)—01 अप्रैल, 1998 ।

हवलदार ससी कुमार एम (सं० 6649926 एल अब जे० सी०—641874 ए)—01 अप्रैल, 1998 ।

हवलदार नरेन्द्र कुमार (सं० 6649931 डब्ल्यू अब जे० सी०—641875 ए)—01 अप्रैल, 1998 ।

× × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल, 1998 से दी जायेगी) ।

(यांत्रिक परिवहन)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बर्फीराम (13855139 वाई अब जे० सी०—661301 एक्स)—11 सितम्बर 1997* ।

हवलदार शीष चन्द्रा सिंह (13855485 पी अब जे० सी०—661302 ए)—22 दिसम्बर, 1997* ।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 नवम्बर 1996 से दी जायेगी) ।

हवलदार धर्म नाथ साह (13855591 एन अब जे० सी०—661303 ए)—10 नवम्बर, 1997* ।

हवलदार नेमी चन्द खाती (13859489 डब्ल्यू अब जे० सी०—661304 एल)—22 नवम्बर, 1997* ।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1997 से दी जायेगी) ।

हवलदार रामेश्वर प्रसाद (13857463 पी अब जे० सी०—661305 एन)—22 मार्च, 1997 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1997 से दी जायेगी) ।

हवलदार नरसा राम जाट (13859802 एच अब जे० सी०—661306 डब्ल्यू)—11 सितम्बर, 1997।x x

हवलदार सच्चीदानन्द सिंह (13860486 एफ अब जे० सी०—661307 वाई)—18 सितम्बर, 1997।x x

हवलदार बिरेश्वर सिंह (13832065 एच अब जे० सी०—661308 एफ)—12 नवम्बर, 1997।x x

x x (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1997 से दी जायेगी) ।

हवलदार बरानदावन हलदार (13853427 एच अब जे० सी०—661309 के)—01 अगस्त, 1997 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जून 1997 से दी जायेगी) ।

हवलदार नागर मल (13859582 के अब जे० सी०—661310 वाई)—24 दिसम्बर 1998 ।@

हवलदार रामा नन्द सिंह (13860329 पी अब जे० सी०—661311 एफ)—14 जनवरी 1998 ।@

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त 1997 से दी जायेगी) ।

हवलदार अर्जुन सिंह (13856883 एच अब जे० सी०—661312 के)—01 अक्टूबर 1997 ।

हवलदार देवेन्द्रा प्रसाद यादव (13856530 एच अब जे० सी०—661313 एम)—01 अक्टूबर 1997 ।

हवलदार करिश बिल संगमा (13853607 पी अब जे० सी०—661314 पी)—16 जनवरी 1998 ।**

हवलदार राम नाथ (13857765 एफ अब जे० सी०—661315 एक्स)—27 जनवरी 1998 ।**

हवलदार राज बिलोवन सिंह (13857885 ए अब जे० सी०—661316 ए)—13 जनवरी 1998 ।**

हवलदार धनेश्वर राहेंग (13854156 एम अब जे० सी०—661317 एच)—21 जनवरी 1998 ।**

हवलदार नितिश चन्द्रा बिस्वास (13854540 एम अब जे० सी०—661318 एल)—24 जनवरी 1998 ।**

हवलदार बदरी नारायण कटारिया (13855150 एक्स अब जे० सी०—661319 एन)—17 जनवरी 1998 ।**

हवलदार गुरबचन लाल (13855226 एम अब जे० सी०—661320 एम)—01 अक्टूबर 1998 ।

हवलदार यद राम सिंह (13859049 पी अब जे० सी०—661321 एल)—13 जनवरी 1998 ।**

हवलदार परमजीत सिंह (13859206 डब्ल्यू अब जे० सी०—661322 एन)—13 जनवरी 1998 ।**

हवलदार गुना नन्द सिंह (13855433 वाई अब जे० सी०—661323 डब्ल्यू)—21 जनवरी 1998 ।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1997 से दी जायेगी) ।

हवलदार छोटू सिंह भाटो (13858826 ए अब जे० सी०—661324 वाई)—08 जनवरी 1998 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 1997 से दी जायेगी) ।

हवलदार धर्म नाथ झा (13855555 एव अब जे० सी०—661325 एफ)—16 जनवरी 1998 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1998 से दी जायेगी) ।

हवलदार कृष्णा कुमार सिंह (13855404 एन अब जे० सी०—661326 के)—01 जनवरी 1998 ।

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सुबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मुय कुमार सामोतिव कुमार (जे० सी०—106598 एफ)—1 जनवरी 1996 ।

नायब सूबेदार सुबदेव सिंह (जे० सी०—157249 ए)—1 अक्टूबर 1996 ।

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०—163141 वाई 1 नवम्बर 1996 ।

नायब सूबेदार भवानो कान्त शर्मा (जे० सी०—154624 पी) 01 दिसम्बर 1996 ।

नायब सुबेदार कामेश्वर प्रसाद सिंह (जे० सी०—103897 ए)—01 जनवरी 1997 ।

नायब सूबेदार परबन्तुश कुमार (जे० सी०—154125 ए)—01 जनवरी 1997।

नायब सूबेदार दया शंकर पाण्डे (जे० सी०—192026 एफ) — 1 जनवरी 1997।

नायब सूबेदार पुष्पांगदन आलतनकंडी (जे० सी०—139949 एल)—1 जनवरी 1997।

नायब सूबेदार शक्ती चन्द (जे० सी०—143661 एच)—1 जनवरी 1997।

नायब सूबेदार राम नाथ (जे० सी०—90100 के)—1 जनवरी 1997।

नायब सूबेदार खेम राज शर्मा (जे० सी०—148226 एक्स)—1 जनवरी 1997।

नायब सूबेदार जग राम (जे० सी०—168074 एच)—1 जनवरी 1997।

नायब सूबेदार रमेश सिंह पठानिया (टी० जे० 2244-एम)—1 जनवरी 1997।

नायब सूबेदार दशरथ सिंह (जे० सी०—194249 एक्स)—1 जनवरी 1997।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धन बहादुर थापा (5037033 एक्स अब जे० सी०—840769 एफ)—24 नवम्बर 1997।*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1997)।

हवलदार विनायक पाटिल (10148703 एल अब जे० सी०—840770 डब्ल्यू)—9 मार्च 1998।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1998)।

हवलदार सुभास चन्दर (7959448 एच अब जे० सी०—840771 वाई)—04 मई 1998।***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1998)।

हवलदार कृष्ण कुमार (4157364 वाई अब जे० सी०—840772 एफ)—14 मई 1998।****

हवलदार जय राम सिंह (2849890 एच अब जे० सी०—840773 के)—15 मई 1998।*****

हवलदार भुवन चन्द्र राजबंसी (10242971 एन अब जे० सी०—840774 एम)—6 मई 1998।*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 1998)।

हवलदार रामेश्वर राम (10180534 एच अब जे० सी०—840775 पी)—18 मई 1998।*****

हवलदार विजय बरन (10404218 पी अब जे० सी०—840776 एक्स)—2 जून 1998।*****

हवलदार चन्द्र भान (10196924 पी अब जे० सी०—840777 ए)—11 मई 1998।*****

हवलदार चन्द्रपाल सिंह (9210655 एक्स अब जे० सी०—840778 एच)—26 मई 1998।*****

हवलदार भूरी सिंह (10403957 पी अब जे० सी०—840778 एल)—22 मई 1998।*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 1998)।

हवलदार गया प्रसाद (10180673 एम अब जे० सी०—840780 ए)—16 जून 1998।*****

हवलदार करतार सिंह (3155549 एच अब जे० सी०—840781 एच)—8 जून 1998।*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1998)।

तारापद मण्डल,
अवर सचिव

वायु सेना

सं० 689, दिनांक 23 जुलाई, 1998—राष्ट्रपति,
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

प्रशासन शाखा

पताईग अफसर को फ्लाईट टेक्निकल के नूज रैंक में

एस० एस० अमृतपाल (22202), पी० एस० बैशा (22203), एस० बी० राकी (22204), पी० जोला (22207), एस० अप्रवाल (22208), बी० शर्मा (22209) बी० सिंह (22210), एस० सावो (22211), बी० महता (22212), ऐ० के० मिश्रा (22213), बी० भट्टनागर (22214), आर० ऐ० राघवन (22215), विनोद कुमार (22216), आर० मनोज (22217), ऐ० आनन्द (22218), ऐ० के० शर्मा (22219), बी० कुमार (22220), ऐ० मचिरयन (22221), के० सिंह (22222), एम० के० चौपरा (22223), बी० एफ० एन्टोनी (22224), डी० के० शर्मा (22225), ए० के० सिंह (22227), एच० पी० नायर (22228), के० त्यागी (22229)—19 दिसम्बर, 1997।

पारभारिकी शाखा

फ्लाइंग अफसर को फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के रैंक में

एस० वेंकटसुब्रह्मनियम (22230), वा० एस० शिवाराज (22232), ए० सिंह (22233), ड० जाट (22234), आर० बंसल (22235), क० दास (22236), आर० कुमार (22237), आर० क० नरनरानना (22238), वाई० के० सिंह (22239), पी० क० सिंहा (22240), एस० आर० सहासराज (22241), एन० क० रे० (22242), के० क० हरिज (22244), ए० वी० श्री पटनायक (22245), ए० क० सिंह (22246), एस० राज (22247), आर० क० सिंह (22248)—19 दिसम्बर, 1997।

लेखा शाखा

फ्लाइंग अफसर को फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के रैंक में

डी० सिंह (22249), आर० पाण्डे (22250), जी० कुमार (22251), एन० भारगवा (22252), ऐ० पी० खिरायल (22253), एम० पाखारयाल (22253), एम० सिवानया (22254), ए० कुमार (22255), ए० के० सिंघा (22256), आर० के० जोशी (22257), आर० भाटिया (22258), जी० डी० डबराल (22259), एस० कुमार (22260)—19 दिसम्बर, 1997।

एम० एच० सिद्धिकी,
स्क्वाड्रन लीडर, ए० डी० पी० ओ० 3डो.

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 12th September 1998

No. 675, dated 4th Aug 98.—The President is pleased to appoint Shri Bhagat Singh, an officer of Central Secretariat Service who has been working in this Division as Deputy Financial Adviser as Director in this Division wef 24-7-98 until further orders.

The President is pleased to appoint Shri B. K. Dubey, Stenographer Grade 'C' borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Private Secretary on ad-noc basis with effect from the forenoon of 30-7-98 to 30-9-98 or till regular officer become available or till further orders, which ever is earlier.

RAJINDER MOHAN
Asstt. Financial Adviser(E).

(ARMY BRANCH)

No. 676, dated 6th August 1998.—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lieut (On Probation)

H. Ravikumar, MDS (Kuvempu) (LS-11910-N) (AF-24473)—17-3-97 (F/N) with sanction for pay and promotion from 17-3-95 (includes 24 months ante date for doing MDS Degree which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 7-3-98 inu so far as it pertain to the officer is hereby cancelled.

J. L. SHARMA
Brig Dy. DGDS

(MILITARY ENGINEER SERVICES)

No. 677, dated 6th Aug 1998.—The President is pleased to appoint the following individuals as Assistant Engineer Buildings and Roads with effect from the dates as indicated against their names.

MES-108245 Shri KT Chakkappan, 17 Feb. 98 (F/N).
MES-137438 Shri K Aravindakshan, 19 Feb 98 (F/N).
MES-307210 Shri Charanjit Singh, 05 Jan 98 (F/N).
MES-303903 Shri Gian Chand Theraja, 15 Dec 97 (F/N).

MES-187038 Shri Abraham TT, 05 Feb 96 (F/N).

MES-309497 Shri Sumesh Kumar Chopra, 11 Mar 97 (F/N).

MES-155524 Shri SV Ranganathan, 11 Aug 97 (F/N).

MES-304388 Shri Narain Singh Oberoi 11 Aug 97 (F/N).

MES-306906 Shri Ramesh Chand Sharma, 16 Feb 95 (F/N).

MES-303901 Shri Som Dutt, 11 Dec 97 (F/N).

MES-306229 Shri Bhola Nath Handa, 05 Jan 98 (F/N).

MES-430600 Shri Pramod Kumar Rastogi, 04 Mar 98 (F/N).

MES-308195 Shri Sudesh Kumar, 15 May 98 (F/N).

MES-455071 Shri Dinesh Kumar Sharma, 27 Apr 98 (F/N).

MES-466137 Shri Vinod Baboo Sharma—12 May 98 (F/N).

MES-415164 Shri Pritpal Singh Bhatia, 29 Apr 98 (F/N).

MES-148956 Shri Babu Kurian, 06 Apr 98 (F/N).

MES-304735 Shri Chuni Lal Kotwal, 02 Mar 98 (F/N).

MES-135733 Shri CP Rajan, 29 Apr 98 (F/N).

MES-460526 Shri Shri Ram G, 26 Feb 98 (F/N).

MES-308249 Shri Harbans Singh, 13 Feb 95 (F/N).

MES-304789 Shri Devendra Nath Virmani, 24 Mar 98 (F/N).

RITA CHATTERJEE, Under Secy.

(NAVY BRANCH)

No. 678, dated 07th August 1998.—The President is pleased to appoint the following individuals as Deputy Armament Supply Officer Grade-II w.e.f. the dates mentioned against their names :—

Sl. No., Name & Date

S/Shri

(a) Aqbal Ali—06 Jul 98 (F/N).

(b) Arbind Kumar Mandal—14 Jul 98 (F/N).

2. They will be on probation or a period of two years.

BK AHLUWALIA
Commodore
Director of Civilian Personnel

CANTEEN STORES DEPARTMENT

No. 679, dated the 10th August 1998.—The President is pleased to appoint Shri VK Rajan, EE as Assistant General Manager (Estate & Works) Canteen Stores Department, on deputation; or a period of two years extendable to three years from 09 July 1998 or till the age of superannuation prescribed for civil post, whichever is earlier.

T P MONDAL
Under Secy.

AIR HEAD QUARTERS

No. 680, dated the 29th July 1998.—The President is pleased to appoint the following individuals as Assistant Civilian Staff Officer (DR) in the AFHQ Civil Service with effect from the date mentioned against each until further orders :—

Sr. No., Name & Dt of appointment as ACSO

- (a) Shri A K Singh—30-12-97
- (b) Shri Arvind—02-01-98
- (c) Shri M R Kadole—20-01-98
- (d) Shri G K Singh—03-02-98.

RENU K RAJU
Dy Chief Administrative Officer

ARMY BRANCH

MILITARY NURSING SERVICE
(PERMANENT COMMISSION)

No. 681, dated the 03rd August 1998.—The President is pleased to grant permanent commission to undermentioned Nursing Officers in Military Nursing Service (Regular) under the provision of AI 61/77 with effect from 03 Jun 86 (with seniority from 03 Jun 85 for promotion and pay fixation) :—

(To be Lt)

- Miss P Antibika Devi—NR-18614L
Miss Amita Devrani—NR-18615N
Miss Jecy Martine—NR-18616W
Miss Poonam Sachdev—NR-18617Y
Miss Rani George—NR-18618F
Miss Marv Thomas K—NR-18619K
Miss Harinder Pal—NR-18620Y
Miss Stelna C Joseph—NR-18621F
Miss Salikutty Sebastian—NR-18622K
Miss Vibha Sharma—NR-18623M
Miss Jeyalakshmi S—NR-18624P
Miss Jolly Soosan Thomas—NR-18625X
Miss Mariamma Varghese—NR-18626A
Miss P R Gerlin—NR-18627H
Miss Savithri V K—NR-18628L
Miss Annie K C—NR-18629N
Miss M Mary Vasanthi—NR-18630H
Miss Jessy Mahew—NR-18631L
Miss Lata Naidu—NR-18632N
Miss Regina P F—NR-18633W
Miss Anandavally M G—NR-18634Y
Miss Hemalatha V V—NR-18635F

Miss Geetha Moni G—NR-18636K

Miss C D Prasanthi—NR-18637M

Miss Gracy P Varghese—NR-18638P

Miss Syamala M G—NR-18639M

The President is pleased to grant permanent commission to undermentioned Nursing Officers in Military Nursing Service (Regular) under the provision of AI 61/77 with effect from 26th November 1986 (with seniority from 26th November 85 for promotion and pay fixation) :—

(To be Lt)

Miss Meena Banerjee—NR-18714W.

S PADMINIAMMA
Maj Gen
Addl DG MNS

AIR BRANCH

No. 682, dated the 23rd July 1998.—The President is pleased to confirm the undermentioned Fg Offrs who were granted permanent commission (on probation) wef 27 May 96. They are granted ante date wef the date stated against their names .

INDIAN AIR FORCE

AE(M) BRANCH

Fg Offr Srikanth Chenchugari (23671), Rohit Bhargava (23664), Deepak Takkar (23670), Kommidi Harish Reddy (23669), Nimmakayala Venkata Kishore Naidu (23662), Mundancheri Puvvayil Sudhir Kumar (23668), Sanjay Coorg Sudarshan (23672), Rajesh Kumar Gupta (23667), Om Prakash Bohrey (23666), Shaik Ahmar Basha (23665), Sanjay Roy (23661), Venkata Girish S (23663), Ante date wef 27 May 94.

AE(L)

Fg Offr Sushil Agarwal (23684), Raman Kewal Bhatla (23686), Jamasandekar Manoj Ashok (23679), Anand Jayant Karve (23676), Rajesh Ranjan (23674), Surpreet Singh Suri (23680), Sanjay Bhattacharjee (23673), Rajiv Kakkar (23687), Mishra Anand (23678), Cherkady Radhakrishna Chetan (23683), Manish Kumar (23334), Ayilliath Deepak (23681) Sameer Duseja (23685), Ardhi Kumar Verma (23675), John Antony Kattakayam (23677), Shuktij Singh Rao (23682), Suraj Prakash (23688), J J Jacob (23406).... Ante date..... wef 27 May 94.

The President is pleased to confirm the undermentioned officers in the rank of Plt Offrs wef the dates stated against their names who were granted permanent commission (on probation).

INDIAN AIR FORCE

F(P) BRANCH

Plt Offr Paramjit Singh (23719), Sandeep Choudhary (23720), Ramanvir Singh (23721), Vikram Govind (23722), Naveen Prabhakaran (23723), Prashant Singh (23729), Samir Joshi (23730), Ball Reddy CH (23732), Punit Vig (23733), Sukhminder Singh Balling (23736), Avinash Kumar Kaushal (23740), Amit Kumar Gupta (23742), Shallen Khullar (23744), Saurabh (23745), Kuldeep Singh (23747), Prashant Shrivastav (23748), V. S. Rao Rama Krishna (23750), Vikas Arora (23751), Amit Bansal (23753), Gaurav Saluja (23755), Sangran Kumar Naik (23758), Gursimrat Singh D (23760), J Mahendra (23762), Anmol Arvind Saswkar (23768), Pankaj Dalal (23769), Sushil Vijay Sansare (23770), Supandeep Singh (23774), Ranjish Sisodia (23775), Baljit Singh (23778) Thakur Narsing Bhagath Singh (23790) Confirmation wef 16 Dec 95.

The President is pleased to confirm the undermentioned officers wef the dates stated against their names who were granted permanent Commission (on probation) wef the date stated against their names :—

INDIAN AIR FORCE

Plt Offr Bhavanjeet Singh (23544), Vinay Prakash (23557), Deepesh Francis Gracia (23575)..... confirmation....wef17 Jun 95.

MH SIDDIQUI
Sqn Ldr
ADPO 3(D)

ARMY BRANCH

No. 683, dated 06 Aug 98.—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and dates specified :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the Rank of Subedar Major (GD)

Subedar Major Ramswarth Sah Sudhansu (JC-133227-H), Formerly Corps of Signals, 07 Jul 97.

In the Rank of Subedar (GD)

Subedar Joginder Singh (JC-164357-M), Formerly Regiment of Artillery, 05 Nov 96.

Subedar Laxman Singh Thapa (JC-173098-W), Formerly 14 Gorkha Rifles, 03 Jul 97.

Subedar Malkiat Singh (JC-100626-M), Formerly The Sikh LI, 03 Jul 97.

Subedar Yashpal Singh (JC-152896-W), Formerly Garhwal Rifles, 05 Jul 97.

Subedar Dharm Singh (JC-120390-K), Formerly Regiment of Artillery, 06 Jul 97.

In the Rank of Naib Subedar (GD)

Naib Subedar Rohtash Kawar (JC-747085-Y), Formerly EME, 04 Jul 97.

T. P. MONDAL
Under Secy.

No. 684, dated 06 Aug 98.—The President is pleased to make the promotions of the undermentioned AMC officers with effect from the dates mentioned against each :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

S K Maurya (MR-06370W) AMC, 09 Dec 1997.

P Mukherjee (MR-06367W), AMC, 09 Dec 1997.

Tarun Verma (MR-06336W) AMC, 21 Dec 1997.

Subhabrata Ghosh (MR-07046L), AMC, 30 Dec 97.

Sukumar Naskar (MR-07044A), AMC, 29 Apr 1997.

S K Sukumar (MR-06363A), AMC, 09 Dec 1997.

L. K. VERMA
Air Vice Marshal
Addl DGAFMS

No. 685, dated 6th August 1998.—The President is pleased to make the following promotion under AI, 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Surg S/Lt (D) To be Surg Lt (D)

Mrs Harsh Kiran Bubber (DS-11920-X)/(79049-F), 07-10-97.

J. L. SHARMA
Brig.
Dy DG DS

MILITARY NURSING SERVICE

(Permanent Commission)

No. 686, dated 03 Aug 98.—The President is pleased to make the following promotion with effect from 14 Aug 97 :—

(Lt Col to be Col)

Mrs Shashi Bala, NR-14615W.

The President is pleased to make the following promotion with effect from 02 Apr 97 :—

(Lt Col to be Col)

Mrs Shantha Samuel, NR-14560X.

S PADMINIAMMA
Maj Gen
Addl DG MNS

No 687 dated 10 Aug 98.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MARATHA LI

To be Sub Maj.

Sub Anant Babajirao Shinde (JC-151225A), 1st Dec 1997.

Sub Ramrao Jaywant Patil (JC-135604M), 1st Jan 1998.

Sub Kharade Dada Akoba (JC-151226H), 1st Jan 1998.

Sub Babu Basappa Juttannavar (JC-179315X), 1st Jan 1998.

Sub Hanumant Godse (JC-139590P), 1st Feb 1998.

Sub Patil Luxhman Shankar (JC-141491L), 1st Feb 1998.

To be Sub

Nb Sub Naresh Baburao Kadam (JC-218449P), 3rd Jan 1998.

Nb Sub Bhosle Arun Dhondbarao (JC-210988W), 3rd Jan 1998.

Nb Sub Allappa Mallappa Belagali (JC-188459F), 3rd Jan 1998.

Nb Sub Abbas Ali (JC-196201H), 3rd Jan 1998.

Nb Sub Krishna Ramji Patil (JC-218450K), 10th Jan 1998.

Nb Sub Bhargude Mohan Gulabrao (JC-218452P), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Appaso Dhondiba Sawant (JC-205523M), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Kadam Namdeo Narayan (JC-224522Y), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Jaisingh Sopana Padwal (JC-205513H), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Suryawanshi Vilas Sopanrao (JC-201832X), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Gaikwad Shrimant Angadh (JC-224524K), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Pawar Balasaheb Sayappa (JC-196195A), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Choudhary Damodar Rajdhar (JC-211000K), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Babu Dagadu Jadhav (JC-212545N), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Atigre Maruti Vishnu (JC-201828P), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Kumar Ayeree Manaji Atmara (JC-212863X), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Bhau Tibile (JC-220163Y), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Bhagwan Vishwanath Shinde (JC-211001M), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Tambe Narayan Tukaram (JC-226182A), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Varal Vithal Ananda (JC-458019X), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Savant Sadashiv Nana (JC-211002P), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Fakirappa Managutti (JC-212869Y), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Ghagirath (JC-222664X), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Ghorpade Vishnu Bhagwan (JC-205524P), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Parlte Anandrao Sadu (JC-216496N), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Shankar Jadhav (JC-220920H), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Dashrath Pardhi (JC-216772L), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Kambar Arjun Siddappa (JC-199213H), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Shahaji Ramchandra Nalavade (JC-205499F), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Malasane Anil Wasudeorao (JC-216775Y), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Balu Parshuram Nikam (JC-196440X), 2nd Feb 1998.

Nb Sub Patil Suryakant Balaram (JC-212557H), 2nd Feb 1998.

JAK LI

To be Subedars (GD) Category

Nb Sub Balbir Singh Chib (JC-592081L), 01 Jul 97.

Nb sub Madan Lal (JC-592004M), 01 Oct 97.

Nb Sub Sansar Chand (JC-592008M), 31 Mar 98.

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Jat Ram (JC-166122Y), 01 Jan 98.

5 GR (FF)

To be Sub (RT)

Nb Sub (RT) Hum Nath Goverdhan Sharma (JC-143091 X), 01 Apr 1998.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Babu Lal Thapa (JC-617111L), 01st May 1998.

To be Sub

Nb Sub Dhan Bahadur Gurung (JC-212811F), 01st Dec 1997.

Nb Sub Chet Bahadur Gurung (JC-222843X), 01st Jan 1998.

Nb Sub Chitra Bahadur Gurung (JC-212813M), 01st Feb 1998.

Nb Sub Anand Bahadur Chand (JC-212814P), 01st Feb 1998.

Nb Sub Sher Bahadur Gurung (JC-224501N), 01st Mar 1998.

Nb Sub Em Bahadur Thapa (JC-205805L), 01st Mar 1998.

Nb Sub Shyam Prasad Gurung (JC-617006P), 01st Mar 1998.

8 GR

To be Sub Maj

Sub Kes Bahadur Gurung (JC-163730Y), 1st Feb 1998.

To be Sub

Nb Sub Bal Bahadur Thapa (JC-623027F), 1st Mar 1998.

Nb Sub Kharka Chandra Gurung (JC-623031K), 1st Apr 1998.

Nb Sub Hom Bahadur Thapa (JC-623039Y), 1st Apr 1998.

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Gajendra Singh Ale (JC-623024W), 1st May 1998.

Nb Sub (Clk) Vijay Kumar Gurung (JC-623032M), 1st May 1998.

Nb Sub (Clk) Deba Brata Goswami (JC-623067H), 1st May 1998.

1 GR

To be Sub Maj

Nb Sub Narain Singh Thapa (JC-173090K), 1st Jun 1998.

To be Sub

Nb Sub Narain Singh Thapa (JC-173090K), 1st Jun 1998.

Nb Sub Gam Bahadur Rana (JC-602006X), 1st Jun 1998.

Nb Sub Paira Bahadur Pun (JC-224318A), 1st Sep 1997.

Nb Sub Purna Bahadur Thapa (JC-216949N), 1st Feb 1998.

4GR

To be Subedar Major (Clerk)

Sub (Clk) Harnam Singh Katoch (JC-612011W), 1st Jan 1998.

To be Subedar Major

Sub Bhagwan Singh Thapa (JC-157949N), 1st Jun 1998.

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Chandra Dhan Tamang (JC-612095P), 1st Dec 1997.

Nb Sub (Clk) Ram Kumar (JC-612096X), 1st Dec 1997.

Nb Sub (Clk) Pawan Kumar Gurung (JC-612097A), 1st Dec 1997.

Nb Sub (Clk) Krishan Chander (JC-612106W), 1st Dec 1997.

Nb Sub (Clk) Durga Bahadur Gurung (JC-612107Y), 1st Dec 1997.

To be Subedar

Nb Sub Chakra Bahadur Gurung (JC-222830A), 1st Oct 1997.

Nb Sub Bhim Kumar Pradhan (JC-612021A), 1st Nov 1997.

Nb Sub Tul Bahadur Pun (JC-218108K), 1st Dec 1997.

Nb Sub Bal Chandra Thapa (JC-612048X), 1st Dec 1997.

Nb Sub Deependra Gurung (JC-612003X), 1st Jan 1998.

Nb Sub Narinder Kumar Gurung (JC-612049A), 1st Feb 1998.

Nb Sub Narain Kumar Thapa (JC-612008W), 1st Apr 1998.

Nb Sub Tirtha Bahadur Pun (JC-612012Y), 1st May 1998.

Nb Sub Tika Ram Thapa (JC-612017X), 1st May 1998.

Nb Sub Prem Bahadur Thapa (JC-205367L), 1st Jun 1998.

Nb Sub Tek Bahadur Gurung (JC-612018A), 1st Jun 1998.

The Raj Rif

To be Subs Sub Maj

Sub Surender Kumar (JC-168840N), 1st Feb 1998.

Sub Kumbh Singh (JC-164957P), 1st Feb 1998.

Sub Ran Singh (JC-173001A), 1st Mar 1998.

Sub Ranjit Singh (JC-151664L), 1st Apr 1998.

To be Subs Sub

Nb Sub Sumer Singh (JC-188468H), 1st Apr 1997.

Nb Sub Ram Kishan (JC-192399P), 1st Apr 1997.

Nb Sub Naru Singh (JC-216790N), 1st Jun 1997.

Nb Sub Bhanwar Singh Shekhawat (JC-220724H), 1st Jul 1997.

Nb Sub Rotan Singh (JC-216791W), 1st Aug 1997.

Nb Sub Dhan Singh (JC-224387W), 1st Nov 1997.

Nb Sub Lila Ram (JC-468334F), 1st Dec 1997.

Nb Sub Chhote Lal Jat (JC-468365F), 2nd Mar 1998.

To be Subs Sub Clk

Nb Sub Clk Agni Dhar (JC-468279W), 1st Apr 1998.

THE BIHAR REGIMENT

To be Subedar

Naib Subedar Ghura Oraon (JC-212740L), 1st September 1997.

Naib Subedar Chandeshwar Prasad Singh (JC-558021K), 1st October 1997.

Naib Subedar Pratap Chandra Pradhan (JC-218038W), 1st October 1997.

Naib Subedar Adya Nand Mishra (JC-558042A), 1st March 1998.

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Krishan Jaswal (JC-203728H), 1st Feb 1998.

Sub Mohinder Singh (JC-167107W), 1st Mar 1998.

To be Sub

Nb Sub Balak Ram Sharma (JC-518090X), 1st Nov 1997.

Nb Sub Nafe Singh (JC-518099M), 1st Nov 1997.

Nb Sub Kanshi Ram (JC-518092H), 1st Feb 1998.

Nb Sub Mohinder Singh (JC-518109L), 1st Feb 1998.

Nb Sub Kushal Singh Rana (JC-518217P), 1st Feb 1998.

Nb Sub Prem Lal Sharma (JC-518222A), 1st Feb 1998.

Nb Sub Surjit Singh (JC-518481H), 1st Feb 1998.

Nb Sub Harbans Lal (JC-518482L), 1st Feb 1998.

Nb Sub Suram Singh (JC-518483N), 1st Feb 1998.

Nb Sub Diliş Singh (JC-194620F), 2nd Mar 1998.

Nb Sub Sumer Singh (JC-204317W), 2nd Mar 1998.

Nb Sub Multan Singh (JC-518079Y), 1st May 1998.

Nb Sub Daleep Singh (JC-518223H), 1st May 1998.

Nb Sub Ashok Kumar (JC-518224L), 1st May 1998.

Nb Sub Parkash Chand Suman (JC-518289Y), 1st May 1998.

To be Sub Maj

Sub Kuldip Thakur (JC-203743X), 1st Feb 1998.

To be Sub

Nb Sub Rajinder Singh (JC-518291W), 1st Nov 1997.

Nb Sub Kapur Chand (JC-518085M), 1st Feb 1998.

Nb Sub Darshan Kumar (JC-518086P), 1st Feb 1998.

Nb Sub Raj Karan (JC-518153P), 1st Feb 1998.

Nb Sub Ramesh Chander (JC-518155A), 1st Feb 1998.

Nb Sub Terlok Singh (JC-518296P), 1st Mar 1998.

Nb Sub Chet Ram Rana (JC-518242N), 2nd Mar 1998.

Nb Sub Nikkoo Ram Koundal (JC-518294K), 1st Mar 1998.

Nb Sub Halko Ram SC (JC-518407H), 1st June 1998.

Nb Sub Udhom Singh (JC-518307W), 1st June 1998.

THE JAT REGT

To be Sub Maj

Sub Vinay Singh (JC-173174X), 1st Jul 1997.

Sub Hawaii Singh (JC-173177L), 1st Jul 1997.

Sub Hawa Singh (JC-159201L), 1st Jul 1997.

Sub Kanwar Pal Nehra (JC-171926X), 1st Aug 1997.

Sub Mahabir Singh (JC-175369F), 1st Aug 1997.

Sub Ram Chander Singh (JC-173192A), 1st Aug 1997.

Sub Ram Lal Singh (JC-173169M), 1st Sep 1997.

Sub Vijay Singh (JC-171723N), 1st Feb 1998.

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Anoop Singh (JC-220966L), 1st Dec 1997.

Nb Sub Clk Sukh Ram Choudhary (JC-216541P), 1st Dec 1997.

Nb Sub Clk Hari Singh (JC-220968W), 1st Dec 1997.

Nb Sub Clk Dhan Singh (JC-220969Y), 1st Dec 1997.

Nb Sub Clk Jai Narain Sharma (JC-222682A), 1st Dec 1997.

Nb Sub Clk Purushotam Kumar (JC-488008A), 1st Dec 1997.

THE MADRAS REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Albin S (JC-224179F), 1st Apr 1997.

Nb Sub Raveendran Asary V (JC-224180W), 1st Jun 1997.

Nb Sub Sekar N (JC-210951P), 8th Aug 1997.

Nb Sub Subash V (JC-224181Y), 1st Sep 1997.

Nb Sub Raveendran P V (JC-212495N), 1st Oct 1997.

Nb Sub Krishnan M V (JC-222638W), 1st Nov 1997.

Nb Sub Ammanoor Rajan (JC-218417M), 1st Feb 1998.

Nb Sub Pavithran N (JC-212518K), 1st Feb 1998.

THE GRENADIERS

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Sub (RT) Hanuman Prasad Sharma (JC-61794F), 1st Apr 1998.

Sub (RT) Mahabir Prashad Sharma (JC-66923K), 1st Apr 1998.

JAK RIF

To be Subedar Major (GD)

Sub Sher Singh, S M (JC-185866Y), JAK RIF 01 Jan 98.

(To be Subedar (GD))

Nb Sub Chaudhari Hanuman Janardhan (JC-578309L), JAK RIF 01 Sep 97.

Nb Sub Madan Singh (JC-578050A), JAK RIF 01 Nov 97.

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-578185F), JAK RIF 01 Nov 97.

Nb Sub Dalbir Chand (JC-578187M), JAK RIF 01 Nov 97.

Nb Sub Santosh Kumar (JC-578024Y), JAK RIF 01 Nov 97.

Nb Sub Sardar Singh (JC-578025F), JAK RIF 01 Nov 97.

Nb Sub Onkar Singh (JC-578116L), JAK RIF 01 Nov 97.

Nb Sub Kulbir Singh Rana (JC-578119Y), JAK RIF 01 Nov 97.

Nb Sub Madan Gopal Singh (JC-578197W), JAK RIF 01 Nov 97.

Nb Sub Prem Chand (JC-578125M), JAK RIF 01 Nov 97.

Nb Sub Hans Raj (JC-578355A), JAK RIF 01 Nov 97.

Nb Sub Chok Bahadur (JC-578162A), JAK RIF 01 Dec 97.

Nb Sub Dhan Bahadur Bhujel (JC-578252F), JAK RIF 01 Dec 97.

Nb Sub Kishore Chand (JC-578233W), JAK RIF 01 Dec 97.

Nb Sub Balak Ram (JC-578234Y), JAK RIF 01 Dec 97.

Nb Sub Durga Dass (JC-219794P), JAK RIF 01 Dec 97.

Nb Sub Tarsaim Singh (JC-578196N), JAK RIF 01 Dec 97.

Nb Sub Rattan Lal (JC-578180H), JAK RIF 01 Dec 97.

Nb Sub Ranjit Singh (JC-578075M), JAK RIF 01 Dec 97.

Nb Sub Ram Paul (JC-578076P) JAK RIF, 01 Dec 97.

Nb Sub Rashpal Singh (JC-224302F) JAK RIF, 01 Dec 97.

Nb Sub Karan Singh (JC-578053N) JAK RIF, 01 Dec 97.

Nb Sub Kedar Singh Thapa (JC-220803X) JAK RIF, 01 Dec 97.

Nb Sub Darshan Chand (JC-578120M) JAK RIF, 14 Dec 97.

Nb Sub Girdhari Lal (JC-578186K) JAK RIF, 01 Jan 98.

Nb Sub Ramesh Chand (JC-578275H) JAK RIF, 01 Jan 98.

Nb Sub Karam Singh (JC-578282Y) JAK RIF, 01 Jan 98.

Nb Sub Darshan Kumar (JC-578070N) JAK RIF, 01 Jan 98.

Nb Sub Amar Singh (JC-578071W) JAK RIF, 01 Jan 98.

Nb Sub Wazir Singh Jasrotia (JC-578111M) JAK RIF, 01 Jan 98.

Nb Sub Mohinder Singh (JC-578164L) JAK RIF, 01 Jan 98.

Nb Sub Romesh Chander (JC-578165N) JAK RIF, 01 Jan 98.

Nb Sub Paramjit Singh (JC-578077X) JAK RIF, 01 Jan 98.

The Sikh Regiment

To be Subedar Majors

Sub Sukhdev Singh (JC-167210F), 01 May 98.

Sub Mangal Singh (JC-144050F), 01 Jun 98.

Sub Jaspal Singh (JC-169177N), 01 May 98.

To be Subedar

Nb Sub Dharam Singh (JC-208095K), 01 May 98.

THE SIKH LI

To be Sub (Clks) (GD)

- Nb Sub (Clk) Karnail Singh (JC-508114H), 01 Jul 1997.
 Nb Sub (Clk) Subhash Chandra Targotra (JC-508023Y), 01 Aug 1997.
 Nb Sub (Clk) Sarmukh Singh (JC-508115L), 01 Nov 1997.
 Nb Sub (Clk) Mohinder Singh Sagwan (JC-508147N), 01 Jan 1998.
 Nb Sub (Clk) Gurpal Singh (JC-508145N), 01 Jan 1998.
 Nb Sub (Clk) Piara Singh (JC-508186W), 01 Mar 1998.
 Nb Sub (Clk) Amarjit Ram (JC-508192Y), 01 May 1998.

To be Sub (GD)

- Nb Sub Ram Singh (JC-208128K), 03 Dec 1997.
 Nb Sub Kashmir Singh (JC-220994X), 01 Apr 1998.

5 GR (FF)

To be Nb Sub

- Hav Karna Bahadur Gurung (No. 5446743K now JC-617290W), 05th Jun 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 1998 without effect on pay and allowances).

- Hav Rajendra Singh Thapa (No. 5446463W now JC-617291Y), 15th May 1998.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 1998 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

- Hav (Clk) Dik Bahadur Chhetri (No. 5448383X now JC-617292F), 01st May 1998.

- Hav (Clk) Manoj Gurung (No. 5447574A now JC-617293K), 01st Jun 1998.

To be Nb Sub

- Hav Indra Bahadur Gurung (No. 5447024X now JC-617285L), 14th Mar 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 1998 without effect on pay and allowances).

- Hav Toya Bahadur Rana (No. 5446804W now JC-617286N), 14th Mar 1998.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 1998 without effect on pay and allowances).

- Hav Kesh Bahadur Thapa (No. 5446824K now JC-617287W), 05th May 1998.

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 1998 without effect on pay and allowances).

- Hav Mani Lal Thapa (No. 5446848N now JC-617288Y), 15th May 1998.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 1998 without effect on pay and allowances).

- Hav Phani Raj Thapa (No. 5447173L now JC-617289F), 17th May 1998.&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 1998 without effect on pay and allowances).

8 GR

To be Nb Sub (Clk)

- Hav (Clk) Naresh Kumar Chhetri (No. 5748548K now JC-623228A), 30th Dec. 1997.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 97 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

- Hav Kum Bahadur Gurung (No. 5749315P now JC-623229H), 20th Dec 1997.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 97 without effect on pay and allowances).

- Hav Lal Bahadur Gurung (No. 5746780W now JC-623230X), 9th Jan 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 98 without effect on pay and allowances).

- Hav Dil Bahadur Thapa Magar (No. 5747610Y now JC-623231A), 1st Jan 1998.

- Hav Chinta Bahadur Pun (No. 5747162X now JC-623232H), 1st Jan 1998.

- Hav Guman Singh Uchai (No. 5747117L now JC-623233L), 1st Jan 1998.

- Hav Ajit Kumar Thapa (No. 5747686Y now JC-623234N), 30th Mar 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jan 98 without effect on pay and allowances).

- Hav Yam Bahadur Gurung (No. 5747048A now JC-623235W), 12th Feb 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 98 without effect on pay and allowances).

- Hav Dhan Kumar Thapa (No. 5747306P now JC-623236Y), 13th Mar 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 98 without effect on pay and allowances).

- Hav Bishan Bahadur Thapa (No. 5748035P now JC-623242M), 15th Feb 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 98 without effect on pay and allowances).

- Hav Suk Bahadur Gurung (No. 5747896Y now JC-623243P), 14th Mar 1998.

- Hav Man Bahadur Gurung (No. 5747101A now JC-623244X), 20th Apr 1998.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 98 without effect on pay and allowances).

- Hav Chij Bahadur Gurung (No. 5748075W now JC-623245A), 5th May 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 98 without effect on pay and allowances).

- Hav Rajan Pradhan (No. 5748414L now JC-623237F), 15th Feb 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 98 without effect on pay and allowances).

- Hav Birtman Pun (No. 5747403M now JC-623238K), 5th Apr 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 98 without effect on pay and allowances).

- Hav Shiv Bahadur Rana (No. 5749018F now JC-623239M), 15th Feb 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 98 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

- Hav (Clk) Thanga Raj Thapa (No. 5748540Y now JC-623240F), 1st May 1998.

- Hav (Clk) Mahendra Chhetri (No. 5749983L now JC-623241K), 1st May 1998.

5 GR (FF)

To be Nb Sub

Hav Min Bahadur Gurung (No. 5445863W now JC-617280 M), 14th Mar 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 1997 without effect on pay and allowances).

Hav Yam Bahadur Gurung (No. 5445324A now JC-617281 P), 25th Mar 1998.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02nd Nov 1997 without effect on pay and allowances).

Hav Bom Bahadur Gurung (No. 5446319M now JC-617282 X), 25th Mar 1998.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02nd Nov 1997 without effect on pay and allowances).

Hav Tobi Prasad Gurung (No. 5446706W now JC-617283 A), 26th Apr 1998.£

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 1997 without effect on pay and allowances).

Hav Rudra Bahadur Ale Magar (No. 5446791K now JC-617284H), 14th Mar 1998.&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14th Jan 1998 without effect on pay and allowances).

Hav Duan Bahadur Thapa (5040014W now JC-602230L), 20th Mar 1998.

Hav Hark Bahadur Gurung (5041229H now JC-602234A), 4th Jun 1998.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allowances with effect from 01 April 1998).

Hav Tol Bahadur Gurung (5041356X now JC-602235H), 8th Jun 1998.@

@(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allowances with effect from 01 May 98).

4 GR

To be Naib Subedar

Hav Lum Bahadur Thapa (No. 5343000X now JC-612240 F), 26th Dec 1997.

Hav Gyan Bahadur Thapa (No. 5342584L now JC-612241 K), 01st Feb 1998.

Hav Vishal Gurung (No. 5342793H now JC-612242M), 08th Mar 1998.

Hav Janga Bahadur Thapa (No. 5342801W now JC-612243 P), 01st Apr 1998.

Hav Resham Bahadur Thapa (No. 5342832W now JC-612244X), 01st May 1998.

(THE MAHAR REGIMENT)

To be Naib Subedar

Hav Sahebrao Motiram Sardar (4552939M now JC-568599A), 01 Aug 97.

Hav Gurmukh Singh (4545002Y now JC-568600K), 27 Apr 98.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Nov 97 without effect on pay and allowances).

Hav Ashruba Kachruba Wagh (4552243F now JC-568601 M), 01 Dec 97.

CHM Mahipal (2978903M now JC-568602P), 01 Jan. 98.

Hav Rantej Singh (4549755H now JC-568603X), 01 Jan 98.

Hav Dalbir Singh (4550129L now JC-568604A), 14 Jan 98.

Hav Rang Rao (4549301P now JC-568605H), 01 Feb 98.

Hav Ram Singh (4549879X now JC-568606L), 01 Feb 98.

Hav Haval Tanaji Shivaji (4551422P now JC-568607N), 12 Apr 98.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Feb 98 without effect on pay and allowances).

Hav Vayadande Sudam Uttam (4551112K now JC-568608 W), 01 Mar 98.

Hav Sukhdev Raj (4547092K now JC-568609Y), 01 May 98.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 98 without effect on pay and allowances).

Hav Kamble Ashok Sayaba (4552751X now JC-568610N), 10 Mar 98.

Hav Kambie Prabhakar Hindurao (4552975X now JC-568611 W), 10 Mar 98.

Hav Kurane Vijay Shivaji (4554469L now JC-568612Y), 16 May 98.

Hav Ramesh Arjun Tribhuvan (4551041N now JC-568613 F), 16 May 98.

CHM Narawade Vithal Yeshvanta (4551626F now JC-568614K), 16 May 98.

Hav Sajanandan PK (4545700F now JC-568615M), 06 Jun 98.

Hav Mahavir Prasad (4546018W now JC-568616P), 13 Jun 98.

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Pyar Chand Chouhan (3974094W now JC-518854L), 25th May 1998.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Lal Man Verma (3976215L now JC-518855N), 1st Aug 1997.

Hav Clk Biri Singh (3976552A now JC-518856W), 1st Jan 1998.

THE JAT REGT

To be Nb Sub

Hav Om Prakash (No. 3166542F now JC-488620K), 2nd Mar 1998.

Hav Partap Singh (No. 3167713P now JC-488621M), 1st May 1998.

Hav Kripal Singh (No. 3168173N now JC-488622P), 1st Jun 1998.

Hav Ram Pat (No. 3169035Y now JC-488623X), 14th Jun 1998.

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Bhim Singh (No. 2667843K now JC-448730W), 3rd May 1998.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 98 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Phool Singh Rana (No. 2669142M now JC-448731Y), 5th May 1998.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Jan 98 without effect on pay and allowances).

Hav Kamal Kumar Singh (No. 2667229P now JC-448732 F), 13th Feb 1998.

Hav Lal Singh (No. 2675498W now JC-448733K), 12th Mar 1998.

Hav Hema Ram (No. 2670998K now JC-448734M), 30th May 1998.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 98 without effect on pay and allowances).

Hav Roopa Ram (No. 2671155H now JC-448735P), 10th Apr 1998.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 98 without effect on pay and allowances).

Hav Dharam Pal (No. 2668411F now JC-448736X), 18th May 1998.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 98 without effect on pay and allowances).

THE RAJ RIF

To be Naib Subedar (Musician)

Hav Dik Bahadur Pun (No. 5344046W now JC-468658 M), 1st Jan 1998.

To be Nb Sub

Hav Mangu Singh Shekhawat (No. 2886157P now JC-468639F), 3rd Apr 1997.

Hav Girdhar Singh (No. 2875401K now JC-468640W), 26th Jul 1997.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jun 1997 without effect on pay and allowances).

Hav Sunayak Singh (No. 2872255K now JC-468641Y), 27th Sep 1997.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jul 1997 without effect on pay and allowances).

Hav Bhanwar Singh Chouhan (No. 2872129X now JC-468642F), 19th Jul 1997.

Hav Mahipal Singh (No. 2872345L now JC-468643K), 4th Aug 1997.

Hav Chain Singh Bhati (No. 2872360A now JC-468644 M), 1st Oct 1997.

Hav Mahipal Singh (No. 2872818Y now JC-468645P), 1st Nov 1997.

Hav Hoshiyar Singh (No. 2874257N now JC-468646X), 1st Nov 1997.

Hav Subhash Chandar Panaghal (No. 2877096F now JC-468647A), 16th Jan 1998.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23rd Dec 1997 without effect on pay and allowances).

Hav Sumer Singh (No. 2873662Y now JC-468648H), 1st Jan 1998.

Hav Dharamvir (No. 2871959F now JC-468649L), 21st Jan 1998.&

& (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14th Jan 1998 without effect on pay allowances).

Hav Girdhari Singh (No. 2870892F now JC-468650A), 23rd Jan 1998.

Hav Shivpal Singh (No. 2870518Y now JC-468651H), 15th Feb 1998.

Hav Suresh Kumar (No. 2877159Y now JC-468652L), 1st Mar 1998.

Hav Hakim Singh Rajput (No. 2870593H now JC-468653 N), 1st Apr 1998.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Rajendra Singh (No. 2873081F now JC-468654W), 1st Feb 1998.

Hav Clk Rumphal (No. 2873326M now JC-468655Y), 1st Feb 1998.

Hav Clk Shamsher Singh (No. 2873354Y now JC-468656 F), 1st Feb 1998.

Hav Clk Rajender Singh (No. 2873482W now JC-468657 K), 1st Apr 1998.

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Mani Ram (No. 13613265A now JC-412372L), 06 Mar 98.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jul 97 without effect on pay and allces).

Hav Ram Swaroop (No. 13613292K now JC-412358Y), 18 Aug 97.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 97 without effect on pay and allces).

Hav Sheesh Ram (No. 13613306Y now JC-412359F), 01 Sep 97.

Hav Aytar Singh (No. 4457328H now JC-412354H), 19 Feb 98.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 97 without effect on pay and allces).

Hav Jawahar Singh (No. 13612015M now JC-412356N), 19 Feb 98.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 97 without effect on pay and allces).

Hav Chandra Pal Singh (No. 13613333A now JC-412360 W), 10 Oct 97.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Sep 97 without effect on pay and allces).

Hav Pritam Singh (No. 13611517H now JC-412365P), 01 Oct 97.

Hav Balbir Singh Jhumat (No. 4457356Y now JC-412355 L), 19 Feb 98.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Oct 97 without effect on pay and allces).

Hav Mahabir Singh Solankhi (No. 13612491L now JC-412357W), 19 Feb 98.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 98 without effect on pay and allces).

Hav Jagtar Singh (No. 13612549X now JC-412369L), 27 Apr 98.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 98 without effect on pay and allces).

Hav Balkar Singh (No. 13614080L now JC-412362F), 20 Jan 98.

Hav Daljit Kumar (No. 13613409X now JC-412361Y), 28 Jan 98.

Hav Suresh Singh Ahlawat (No. 13614457K now JC-412363K), 28 Jan 98.

Hav Mahabir Singh (No. 13611801Y now JC-412366X), 01 Feb 98.

Hav Jeewa Nand (No. 13613049M now JC-412371H), 01 Feb 98.

Hav Mangoo Singh Rajawat (No. 13611883M now JC-412367A), 05 Feb 98.

Hav Joginder Singh (No. 13611330W now JC-412364M), 15 Mar 98.

Hav Hira Singh Rana (No. 13612041N now JC-412368H), 15 Mar 98.

Hav Vijay Singh (No. 13612846L now JC-412370A), 15 Mar 98.

THE BIHAR REGIMENT

To be Naib Subedars

CHM Gregori Bara Putrungi (No. 4257774K now JC-558551Y), 1st March 1998.

CHM Nawal Kishore Rai (No. 4253364W now JC-558552F), 1st April 1998.

CHM Suresh Prasad (No. 4257605H now JC-558553K), 12th April 1998.

Hav Rama Kant Singh (No. 4256283F now JC-558554M), 26th April 1998.

JAK LI

To be Naib Subedars (GD)

Hav Charan Dass Sharma (9081831K now JC-592557M), 26 Apr 98.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 98).

Hav Madan Lal (9082655K now JC-592558P), 31 Mar 98."

''(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 98).

CHM Rashpal Chand (9083043Y now JC-592559X), 07 Mar 98.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 98).

Hav Jagdev Singh (9082982P now JC-592560M), 08 Apr 98.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 98).

Hav Raghubir Singh (9084538X now JC-592561P), 09 May 98.£

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 98).

Hav Ram Paul (9082032A now JC-592562X), 01 May 98.&

& (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Mar 98).

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

CHM Parmanand Yadav (No. 4168931W now JC-538708M), 5th June 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 97 without effect on pay and allowances).

CHM Vijaivir Singh (No. 4167202F now JC-538709P), 5th June 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 97 without effect on pay and allowances).

Hav Trilok Singh (No. 4173380A now JC-538710K), 10th June 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 98 without effect on pay and allowances).

Hav Pushkar Singh Bathyal (No. 4169415N now JC-538711M), 6th Apr 1998.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 98 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Singh (No. 4168117L now JC-538712P), 27th Apr 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 98 without effect on pay and allowances).

Hav Kalyan Singh (No. 4169359A now JC-538713X), 1st May 1998.

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Kunwar Singh (No. 4061185F now JC-528669L), 21st Apr 1998.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 1997 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Chandra (No. 4055797H now JC-528671H), 02nd Jan 1998.

Hav Mahipal Singh (No. 4055770L now JC-528672L), 08th Mar 1998.

Hav Dhan Singh (No. 4054789X now JC-528673N), 01st May 1998.

Hav Hukam Singh (No. 4060423W now JC-528675Y), 01st May 1998.

Hav Prakash Chandra (No. 4057586A now JC-528676K), 01st June 1998.

Hav Shyam Singh (No. 4058360A now JC-528677M), 01st June 1998.

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) Jhabar Singh (No. 4058704N now JC-528670A), 25th May 1998.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 1998 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Hira Lal (No. 4058748L now JC-528674W), 01st May 1998.

The Sikh Regiment

To be Nb Sub

Hav Manjit Singh (No. 3377290K now JC-498578K), 02nd March 1998.

Hav Gurbachan Singh (No. 3377603X now JC-498579M), 02nd March 1998.

Hav Darshan Singh (No. 3376653W now JC-498580F), 12th May 1998.

Hav Baljit Singh (No. 3377626Y now JC-498581K), 19th May 1998.

V. P. VARGHESE
Under Secy.

No. 688, dated 10th Aug 98.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major

(Religious Teacher)

Subedar Durga Dutt Joshi (JC-62920F), 01 Apr 98.

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (CLERKS GD/SKsT)

Nb Sub Kuldip Singh Ahlawat (JC-255934F), 01 Apr 98.

Nb Sub Bidhi Chand Rana (JC-255937P), 01 Apr 98.

Nb Sub Uthappa MC (JC-255947Y), 01 Apr 98.

Nb Sub Hari Prasad (JC-255932W), 01 Apr 98.

Nb Sub Jit Singh (JC-258619W), 01 Apr 98.

Nb Sub Vijay Kumar (JC-258620L), 01 Apr 98.

Nb Sub Ramendra Singh (JC-258622W), 01 Apr 98.

Nb Sub Faggan Singh Jat (JC-258623Y), 01 Apr 98.

Nb Sub Surjit Singh (JC-258624F), 01 Apr 98.

Nb Sub Har Lal (JC-258625K), 07 Apr 98.

*Granted seniority with effect from 01 Apr 98.

Nb Sub Pritam Chand (JC-258673K), 01 Apr 98.

Nb Sub Tasbir Singh (JC-258674M), 01 Apr 98.

To be Naib Subedar

Hav Dilip Borkotoky (No. 14334602P now JC-260803A), 11 Nov 97/01 Jan 97.*

BHM Dhanapal T (No. 14455121L now JC-260804H), 03 Nov 97/01 Feb 97.*

Hav Gire Vitthal Ganapati (No. 14478712Y now JC-260805L), 07 Jan 98/05 May 97.*

Hav Suresh Bahadur Singh (No. 14346686A now JC-260806N), 20 Feb 98/01 Jul 97.*

BHM Ishwar Singh (No. 14335790N now JC-260807W), 11 Oct 97/01 Sep 97.

*(Gtd seniority wef without effect on pay and allces).

Hav Lakshmanan G (No. 14335024Y now JC-260808Y), 25 Sep 97/01 Sep 97.*

RHM Sarvan Singh (No. 14457958K now JC-260809F), 12 Dec 97/01 Sep 97.*

Hav Valsalan V (No. 14352089F now JC-260810W), 14 Nov 97/01 Sep 97.*

Hav Vithal Waluba Aere (No. 14318891L now JC-260811Y), 01 Jan 98/03 Nov 97.*

BHM Raghbir Singh (No. 14452125W now JC-260812F), 22 Jan 98/28 Nov 97.*

BHM Nanak Chand (No. 14469033A now JC-260813K), 22 Jan 98/28 Nov 97.*

RHM A Gandhi Rajan (No. 14457908Y now JC-260814M), 24 Jan 98/01 Dec 97.*

BHM Om Prakash Yadav (No. 14459448F now JC-260815P), 22 Jan 98/01 Dec 97.*

BHM Jaemal Singh (No. 14451082A now JC-260816X), 25 Jan 98/01 Dec 98.*

Hav Baldev Singh (No. 14334511L now JC-260817A), 23 Jan 98/01 Dec 97.*

Hav Gade Sitaram Santu (No. 1265163F now JC-260818H), 29 Sep 97/01 Jan 97.*

Hav Darshan Singh (No. 14455561Y now JC-260819L), 02 Jun 97/29 Mar 97.*

Hav Joginder Pal Barwal (No. 14357445A now JC-260820A), 22nd Sep 97/01 Sep 97.*

Hav Hardip Singh (1265181K now JC-260821H), 18 Dec 97/01 Sep 97.*

Hav Mohanan M (No. 14334295H now JC-260822L), 20 Oct 97/01 Sep 97.*

Hav Romesh Chand (No. 14338237W now JC-260823N), 05 Nov 97/01 Oct 97.*

Hav Raja Ram Singh Yadav (No. 14452519P now JC-260824W), 10 Oct 97/01 Oct 97.*

Hav Krishan Dass (No. 1269507M now JC-260825Y), 08 Oct 97/01 Oct 97.*

Hav Joginder Singh (No. 14326065A now JC-260826F), 01 Nov 97/01 Nov 97.*

Hav Kokitakar Narayan Narasu (No. 14325355L now JC-260827K), 22 Feb 98/29 Nov 97.*

RHM Subhash Chander (No. 14330302W now JC-260828M), 22 Feb 98/29 Nov 97.*

BHM Gaiwad Madhav Prem Nath (No. 14340874L now JC-260829P), 22 Feb 98/29 Nov 97.*

Hav Lashram Sanakhomba Singh (No. 14327786W now JC-260830K), 14 Feb 98/30 Nov 97.*

Hav Lovely Joseph (No. 14460340W now JC-260831M), 14 Feb 98/30 Nov 97.*

Hav Shankar Singh (No. 14329474Y now JC-260832P), 14 Feb 98/01 Dec 97.*

*(Gtd seniortiy wef)

RHM Attar Singh (No. 14329554W now JC-260868N), 07 Nov 97/01 Oct 97.*

Hav Bijay Kumar Das (No. 1268760F now JC-260869W), 27 Dec 97/01 Nov 97.*

Hav Chain Singh (No. 14327319Y now JC-260870L), 01 Nov 97/01 Nov 97.*

Hav Kamleshwar Singh (No. 14452461H now JC-260871N), 10 Nov 97/01 Nov 97.*

Hav Pala Singh (No. 14331503F now JC-260872W), 04 Nov 97/01 Nov 97.*

Hav Churiya Ram (No. 14330200A now JC-260873Y), 22 Dec 97/23 Nov 97.*

Hav Kadam Dalip Saheb Rao (No. 14327412A now JC-260874F), 15 Jan 98/29 Nov 97.*

Hav Utekar Vijay Tukaram (No. 1268193K now JC-260875K), 15 Jan 98/29 Nov 97.*

BHM Satwinder Singh (No. 14326534X now JC-260876M), 13 Jan 98/01 Dec 97.*

Hav Ram Niwas (No. 14348199Y now JC-260877F), 22 Feb 98/01 Dec 97.*

Hav Amar Chand (No. 14326541N now JC-260878X), 18 Dec 97/10 Dec 97.*

Hav Vijay Kumar (No. 14452112Y now JC-260879A), 07 Apr 98/19 Jan 98.*

Hav Jagtar Ram (No. 14454399A now JC-260880P), 25 May 98/22 Jan 98.*

Hav Mahendra Singh Poonia (No. 14353574H now JC-260881X), 25 May 98/01 Apr 98.*

Hav Bijender Singh (No. 1268486P now JC-260882A), 04 Oct 97/01 Jan 97.*

Hav Sambasiva Rao Allam (No. 14334938P now JC-260883H), 04 Oct 97/04 Mar 97.*

Hav Girwar Singh (No. 14476508F now JC-260884L), 11 Oct 97/31 Mar 97.*

Hav Darwan Singh (14472878K now JC-260885N), 07 Oct 97/01 Apr 97.*

BHM Radhe Shyam Singh (No. 14321081N now JC-260886W), 30 Jan 98/12 May 97.*

Hav Indra Prasad (No. 14336740P now JC-260887Y), 21 Sep 97/01 Jul 97.*

BHM Swinder Singh (No. 14357476A now JC-260888F), 05 Nov 97/01 Jul 97.*

Hav Raj Singh (No. 14324323W now JC-260889K), 21 Oct 97/25 Jul 97.*

BHM Jagdish Prasad (No. 14319581M now JC-260890Y), 14 Oct 97/30 Aug 97.*

Hav Jagdish Prasad (No. 14329844N now JC-260891F), 04 Dec 97/01 Oct 97.*

Hav Lalan Dev Pandey (No. 14327274K now JC-260892K), 08 Nov 97/16 Oct 97.*

RHM Arvind Kumar Singh (No. 14460211W now JC-260893M), 28 Dec 97/01 Nov 97.*

Hav Padam Raj Bhatt (No. 14324115F now JC-260894P), 05 Nov 97/01 Nov 97.*

- Hav Labh Singh (No. 14330994W now JC-260895X), 27 Jan 98/28 Nov 97.*
- Hav Virendra Singh (No. 14459352Y now JC-260896A), 22 Feb 98/28 Nov 97.*
- BHM Satpal Singh (No. 14323509N now JC-260897H), 29 Jan 98/01 Dec 97.*
- Hav Tajinder Singh (No. 14453725L now JC-260898L), 17 Feb 98/01 Dec 97.*
- RHM Anand Pal (No. 14328916A now JC-260899N), 21 Jan 98/01 Dec 97.*
- Hav Valsalan M. (No. 14454910L now JC-259979Y), 05 Feb 97/20 Nov 92.*
- Hav Chandrika Yadav (No. 14452937L now JC-259980N), 06 Jun 96/30 Nov 95.*
- Hav Jarnail Singh (No. 14455981Y now JC-259981W), 28 Jan 97/01 Jun 96.*
- Hav Uméd Singh (No. 14457874W now JC-259982Y), 02 Nov 96/01 Aug 96.*
- Hav Narinder Singh Gill (No. 14480094X now JC-259983F), 22 Feb 97/01 Sep 96.*
- BHM Rama Shankar Prasad (No. 1260929W now JC-259984K), 10 Mar 97/01 Oct 96.*
- BHM Mohender Singh (No. 14326699W now JC-259985M), 01 Mar 97/15 Nov 96.*
- Hav Kunwar Bahadur Singh (No. 14323102X now JC-259986P), 24 Feb 97/20 Nov 96.*
- Hav Dharambir (No. 14455216L now JC-259987X), 27 Feb 97/25 Nov 96.*
- Hav Karna Bahadur Mall (No. 14327014Y now JC-259988A), 01 Dec 96.
- Hav Rajender Singh (No. 14335282X now JC-259989H), 04 Feb 97/01 Dec 96.*
- Hav Vijay Kumar Khajuria (No. 14329537W now JC-259990X), 24 Feb 97/04 Jan 97.
- BHM Narayanan KK (No. 14343212N now JC-259991A), 01 Mar 97/01 Feb 97.
- Hav Uttam Singh (14333296Y now JC-260721X), 02 Feb 98/28 Nov 97.*
- Hav Ombir Singh (14327750X now JC-260722A), 03 Apr 98/30 Nov 97.*
- Hav Jai Prakash Rathi (14331857K now JC-260723H), 03 Apr 98/30 Nov 97.*
- Hav Gianendra Kumar Rai (14332080L now JC-260724L), 18 Feb 98/30 Nov 97.*
- Hav Dashrath Singh (14326374H now JC-260725N), 31 Dec 97/30 Nov 97.*
- Hav Raj Pal Singh (14334328H now JC-260726W), 03 Apr 98/08 Dec 97.*
- Hav Swapan Kumar Das (14467373K now JC-260727Y), 21 Apr 98/01 Jan 98.*
- Hav Krishan Singh (14329553N now JC-260728F), 21 Apr 98/01 Jan 98.*
- Hav Mothu Ram (14323818W now JC-260729K), 21 Apr 98/01 Feb 98.*
- Hav Shri Chand (1269488M now JC-260730Y), 28 Mar 98/20 Feb 98.*
- Hav Lila Ram Yadav (1264541H now JC-260732K), 13 Oct 97/01 Feb 97.*
- Hav Patil Sharad Vasudev (14350801M now JC-260733M), 19 Dec 97/16 Apr 97.*
- Hav Sham Rao Nana Patil (14465604W now JC-260734P), 20 Dec 97/16 Apr 97.*
- Hav Raghunath Pandey (14338461H now JC-260735X), 05 Nov 97/22 Aug 97.*
- Hav Paresch Chandra Roy (14333367P now JC-260736A), 01 Nov 97/01 Sep 97.*
- BHM Muraleedharan M (14471687H now JC-260737H), 10 Nov 97/01 Sep 97.*
- Hav Satyavir Singh Yadav (14451904M now JC-260738L), 05 Nov 97/01 Sep 97.*
- Hav Madhu Sudanan Nair B (14377842L now JC-260739N), 10 Nov 97/03 Sep 97.*
- BHM Balwant Singh (14453413P now JC-260740H), 20 Oct 97/15 Sep 97.*
- Hav Ramachandran Nair T (14453078W now JC-260741L), 02 Dec 97/01 Oct 97.*
- BHM Malkit Singh (14460494H now JC-260742N), 23 Oct 97/01 Oct 97.*
- Hav S Seetha Raman (14461712H now JC-260743W), 15 Dec 97/01 Oct 97.*
- Hav Ananthan K (14342403W now JC-260744A), 16 Dec 97/01 Nov 97.*
- RHM Avtar Singh (14327895H now JC-260745H), 29 Mar 98/01 Mar 98.*
- Hav Shiv Kumar (14324485F now JC-260746L), 28 Mar 98/01 Mar 98.*
- Hav Surender Kumar (14330315N now JC-260747N), 01 Apr 98.
- Hav Harphool Singh (14333381F now JC-260748W), 01 Apr 98.
- Hav Dharamvir Singh (14321036F now JC-260784A), 09 Oct 97/01 Jan 97.*
- Hav Virender Kumar Gupta (14460214K now JC-260785H), 30 Oct 97/05 Apr 97.*
- BHM Karan Singh (14454512K now JC-260786L), 08 Nov 97/09 May 97.*
- BHM Rajender Prasad (14453419W now JC-260787N), 24 Oct 97/14 Jun 97.*
- Hav Hari Om (14363000K now JC-260788W), 30 Jan 98/30 Jun 97.*
- Hav Dalip Chand (14328064W now JC-260789Y), 29 Sep 97/25 Jul 97.*
- Hav Lalit Singh (14456496W now JC-260790N), 08 Dec 97/31 Jul 97.*
- Hav Mehar Singh Bist (14344347F now JC-260791W), 13 Sep 97/31 Jul 97.*
- Hav Sasidharan Nair K (14456915H now JC-260792Y), 08 Oct 97/31 Jul 97.*
- Hav Patil Vijay Babuso (14457408F now JC-260793F), 06 Dec 97/01 Sep 97.*
- Hav Jagdish Chand (1266645H now JC-260794K), 13 Sep 97/01 Sep 97.*
- Hav Brojen Chandra Gogoi (14456486M now JC-260795M), 08 Jan 98/01 Sep 97.*
- Hav Har Prasad Naye (14342909P now JC-260796P), 05 Nov 97/19 Sep 97.*
- Hav Raj Kumar (14325163N now JC-260797X), 16 Dec 97/01 Oct 97.*

- Hav K Subbaiah (14463692Y now JC-260798A), 13 Oct 97/01 Oct 97.*
- Hav Joginder Singh (14451774P now JC-260799H), 24 Nov 97/01 Nov 97.*
- Hav Kamal Chandra Bhuyan (14340602L now JC-260800M), 31 Jan 98/01 Nov 97.*
- Hav Sanaton Nath (14333435X now JC-260801P), 11 Jan 98/01 Nov 97.*
- Hav Banwari Lal (14353547Y now JC-260802X), 26 Jan 98/01 Nov 97.*
- Hav Inderjit (14356446W now JC-260749Y), 23 Jan 98/01 Aug 96.*
- Hav Satya Narain Yadav (14340664L now JC-260750M), 11 Aug 97/16 Nov 96.*
- RHM Ranidan Singh Rathore (14321950X now JC-260751P), 07 Oct 97/30 Nov 96.*
- Hav Hande Dilip Vithal Rao (1268803L now JC-260752X), 02 Mar 98/30 Nov 96.*
- Hav Dinesh Singh (14455826X now JC-260753A), 12 Dec 97/01 Dec 96.*
- BHM Tarsem Singh (14324534Y now JC-260754H), 09 Jan 98/31 Dec 96.*
- Hav Surinder Singh (14336394K now JC-260755L), 24 Sep 97/30 Mar 97.*
- BHM Raj Kumar Singh Sengar (1267144P now JC-260756N), 13 May 97/01 Apr 97.*
- BHM Narendra Singh Bhaduria (1267123Y now JC-260757W), 30 Nov 97/19 Apr 97.*
- Hav Munshi Vishwakarma (14332942Y now JC-260758Y), 07 Oct 97/30 Jun 97.*
- Hav Chandra Has Sinha (14477181A now JC-260759F), 01 Oct 97/01 Aug 97.*
- Hav Puran Singh (14327973P now JC-260760W), 12 Nov 97/01 Aug 97.*
- Hav Tara Chand Jat (1268044W now JC-260761Y), 01 Oct 97/01 Sep 97.*
- Hav Karpe Praveen Vishwanath (14338278A now JC-260762F), 04 Dec 97/14 Nov 97.*
- Hav K Deva Raj (14460684P now JC-260763K), 02 Mar 98/19 Nov 97.*
- Hav Kashi Nath Singh (14343066Y now JC-260764M), 22 Jan 98/30 Nov 97.*
- BHM Dalel Singh (14327832A now JC-260765P), 22 Jan 98/30 Nov 97.*
- BHM S Mariya Kulandai (14339465L now JC-260766X), 01 Nov 97/01 Jan 97.*
- Hav Hajari Singh (1267887X now JC-260767A), 04 Dec 97/01 Jan 97.*
- Hav Ranjeet Singh Rathore (14340649W now JC-260768H), 17 Oct 97/23 Mar 97.*
- BHM Karuna Shankar (1267068N now JC-260769L), 12 Dec 97/01 Apr 97.*
- Hav Gurcharan Singh (14487174X now JC-260770A), 03 Dec 97/01 Apr 97.*
- Hav G Venugopal (14321792N now JC-260771H), 04 Nov 97/07 May 97.*
- Hav Nahar Singh (14451374H now JC-260772L), 08 Nov 97/01 Jul 97.*
- BHM Sube Singh (14452094F now JC-260773N), 01 Jan 98/06 Jul 97.*
- Hav Dil Bahadur Gurung (5445255P now JC-260774W), 19 Dec 97/06 Jul 97.*
- Hav Shesh Nath Singh Yadav (14453952L now JC-260775Y), 19 Nov 97/31 Jul 97.*
- BHM Om Parkash (14349787Y now JC-260776F), 13 Dec 97/01 Aug 97.*
- RHM Kartar Singh (14337513F now JC-260777K), 04 Dec 97/16 Aug 97.*
- BHM Radhakrishnan KV (14454780N now JC-260778M), 07 Oct 97/22 Aug 97.*
- Hav Janak Singh (14452756Y now JC-260779P), 22 Oct 97/01 Sep 97.*
- Hav Dharam Raj (14327568X now JC-260780K), 24 Sep 97/01 Sep 97.*
- Hav Ram Parkash (14456174W now JC-260781M), 08 Nov 97/01 Sep 97.*
- BHM Ramesh Babu P (14454829Y now JC-260782P), 14 Oct 97/02 Sep 97.*
- Hav Surinder Singh (14457405N now JC-260783X), 29 Dec 97/05 Sep 97.*
- Hav Gopalji Upadhyaya (14351965P now JC-260694X), 02 Aug 97/11 Oct 96.*
- BHM Sita Ram (14324495L now JC-260695F), 30 Jun 97/28 Nov 96.*
- Hav K. Meyyolagan (14344064A now JC-260696K), 25 Apr 97/30 Nov 96.*
- Hav Nistar Minz (14360188Y now JC-260697M), 04 Feb 97/30 Nov 96.*
- Hav Baldev Raj Sharma (14326028M now JC-260698P), 20 Jul 97/01 Dec 96.*
- Hav Suresh Kumar (10478729N now JC-260699R), 17 Sep 97/01 Jan 97.*
- BHM Man Chand (1268325M now JC-260700F), 12 Jul 97/26 Jan 97.*
- Hav Fakirappa S Koni (14462699W now JC-260701K), 10 Jun 97/25 Apr 97.*
- Hav Rajinder Prasad (14463329H now JC-260702M), 07 Jun 97/01 Jun 97.*
- Hav Shiv Singh Chahar (14327980L now JC-260703P), 14 Sep 97/01 Jul 97.*
- BHM Rathod Ram Ambaji (14345184L now JC-260704X), 16 Sep 97/07 Jul 97.*
- Hav Balarajan ST (14466337M now JC-260705A), 31 Dec 97/10 Jul 97.*
- Hav Kirpal Singh (14340395K now JC-260706B), 08 Oct 97/01 Aug 97.*
- BHM Ravi K (1269957K now JC-260707L), 31 Dec 97/20 Sep 97.*
- Hav Kunan Singh (14338137L now JC-260708N), 01 Oct 97/01 Oct 97.*
- BHM Bindeshwari Mahto (14336572F now JC-260709W), 28 Dec 97/01 Nov 97.*
- Hav Uday Raj Ram (14332352A now JC-260710L), 15 Jan 98/23 Nov 97.*
- Hav Mohar Singh (14326457N now JC-260711N), 17 Jan 98/28 Nov 97.*
- BHM Baljit Singh (14337978F now JC-260712W), 07 Oct 96/07 Apr 96.*

Hav Naresh Singh Tomar (14456524X now JC-260713Y), 08 Jul 97/30 Nov 96.*

Hav Hakim Singh (14464285H now JC-260714F), 31 Aug 97/01 Apr 97.*

Hav Rajan G (14456900A now JC-260715K), 28 Aug 97/01 May 97.*

Hav Gurmej Singh (14326142K now JC-260716M), 08 Sep 97/26 Jul 97.*

BHM Amarjit Singh (14333061M now JC-260717P), 01 Sep 97/29 Jul 97.*

BHM Jagdish Chander (14353582F now JC-260718X), 15 Sep 97/01 Sep 97.*

Hav Sahadevan M (14460280M now JC-260719A), 01 Apr 98/10 Nov 97.*

Hav Jog Raj (14465364K now JC-260720P), 27 Apr 97/28 Nov 97.*

Hav Jai Shanker Mishra (14331892M now JC-260613N), 11 Aug 97/01 Jan 97.*

Hav Bansi Lal (14455141Y now JC-260614W), 08 Sep 97/01 Jan 97.*

Hav Inder Singh Inda (14339405W now JC-260615Y), 26 Aug 97/01 Mar 97.*

Hav Dharam Nath Ray (14457927K now JC-260616F), 10 Aug 97/30 Mar 97.*

BHM Patil Abulal Daulat (14323099 Hnow JC-260617K), 30 May 97/01 May 97.*

Hav Ram Karan (14458514M now JC-260618M), 15 Aug 97/26 Jun 97.*

Hav Bhagwat Singh Taragi (14327918Y now JC-260619P), 18 Aug 97/07 Jul 97.*

Hav Dharamvir Singh (14336457F now JC-260620K), 07 Jan 98/10 Jul 97.*

Hav Radhakrishnan VB (14466175M now JC-260621M), 31 Dec 97/10 Jul 97.*

Hav Gour Gopal Sinha (14453519F now JC-260622P), 01 Sep 97.

*(Gtd seniority wef).

BHM George KK (14334310M now JC-260623X), 01 Sep 97.

RHM Gernail Singh (14325475K now JC-260624A), 02 Sep 97/01 Sep 97.*

RHM Budhpal Singh (14456956M now JC-260625H), 01 Sep 97.

RHM Dharam Vir (14454715N now JC-260626L), 01 Sep 97.

Hav R Venkatesan (14327541A now JC-260627N), 08 Jan 98/14 Dec 97.*

Hav Shinde Bali Ram Govind (14332246F now JC-260628W), 05 Jan 98/30 Nov 96.*

Hav Satyabir Singh (14330715A now JC-260629Y), 16 Sep 97/01 Jan 97.*

Hav Baljit Singh (14454209H now JC-260630N), 15 Sep 97/01 Jan 97.*

BHM Karan Singh (14479675H now JC-260631W), 15 Aug 97/01 Jan 97.*

Hav Hem Raj (14455460L now JC-260632Y), 20 Aug 97/01 Jan 97.*

Hav Ram Naresh (14456334L now JC-260633F), 05 Aug 97/01 Mar 97.*

Hav Phugte Prabhakar Vishwanath (14332420H now JC-260634K), 11 Aug 97/30 Mar 97.*

Hav Narpal Singh Bhati (14327487X now JC-260635M), 07 Oct 97/30 Mar 97.*

Hav Rajesh Kumar (14358885A now JC-260636P), 30 Dec 97/30 Mar 97.*

Hav Ram Niwash (14350472F now JC-260637X), 01 Jan 98/05 Apr 97.*

Hav Surjit Singh (1269035F now JC-260638A), 04 Jun 97/01 May 97.*

BHM Dharamvir Singh Hudday (14349191Y now JC-260639H), 03 Sep 97/01 Jul 97.*

Hav Chhail Singh (14331970Y now JC-260640X), 12 Aug 97/01 Jul 97.*

Hav J Govindaraj (14457852X now JC-260641A), 01 Sep 97/01 Jul 97.*

Hav Bishambar Dayal (14324164K now JC-260642H), 15 Sep 97/27 Jul 97.*

BHM Mahipal (1269454Y now JC-260643L), 05 Sep 97/01 Sep 97.*

RHM Valsam M George (14326128X now JC-260644N), 01 Sep 97.

Hav Rudal Kumar Singh (14463755W now JC-260645W), 12 Sep 97/01 Sep 97.*

Hav Dilip Duarah (14345763X now JC-260834A), 24 Nov 97/01 Jan 97.*

BHM Vinayak Ram Rao Aher (14339433H now JC-260835H), 26 Nov 97/01 Mar 97.*

Hav Rajendra Prasad (14479322H now JC-260836L), 06 Sep 97/01 Apr 97.*

Hav C Perumal (1268293P now JC-260837N), 17 May 97/01 May 97.*

Hav Umed Singh (14332231Y now JC-260838W), 04 Nov 97/03 May 97.*

Hav Harikesh Bahadur Singh (14330829L now JC-260839Y), 09 Jun 97.

Hav Siri Bahadur Gurung (5445196N now JC-260840N), 29 Oct 97/01 Jul 97.*

Hav Naresh Kumar (14330180X now JC-260841W), 17 Nov 97/03 Jul 97.*

Hav Rajendra Singh (1264054H now JC-260842Y), 19 Sep 97/15 Jul 97.*

Hav Perusomula Pullanna (14343177W now JC-260843F), 22 Sep 97/01 Aug 97.*

BHM Amar Singh Rawat (14452684A now JC-260844K), 19 Dec 97/14 Sep 97.*

BHM Ramesh Pal (14460812F now JC-260845M), 09 Oct 97/01 Oct 97.*

Hav Harjinder Singh (3379858W now JC-260846P), 30 Dec 97/01 Oct 97.*

Hav Dinesh Kumar Sharma (14346376P now JC-260847X), 97/01 Oct 97.*

Hav Sultan Singh Rathore (14334347N now JC-260848A), 13 Nov 97/01 Nov 97.*

Hav Ved Parkash Bhabar (14453125H now JC-260849H), 17 Nov 97/01 Nov 97.*

Hav Daya Chand (14466313H now JC-260850X), 01 Nov 97.

*(Granted seniority wef).

Hav Subal Chandra Mandal (11244303M now JC-260851A), 19 Sep 97/19 Feb 96.*

Hav Harbhajan Singh (14456213K now JC-260852H), 08 Dec 97/01 Jan 97.*

Hav Durlav Chandra Das (14329265F now JC-260853L), 03 Oct 97/08 Feb 97.*

Hav Surya Dev Sah (14457847M now JC-260854N), 16 Jun 97/30 Mar 97.*

Hav Abhi Ram Jha (14456233X now JC-260855W), 18 Aug 97/24 May 97.*

Hav Suraj Nath Pandey (14334013Y now JC-260856Y), 25 Sep 97/29 Jun 97.*

BHM Desh Raj (14340610K now JC-260857F), 15 Oct 97/15 Jul 97.*

Hav Jagdish Chand Dhiman (14330777A now JC-260858K), 19 Oct 97/20 Jul 97.*

BHM Shankara Subbu A (14457911Y now JC-260859M), 06 Jan 98/31 Jul 97.*

BHM Gurucharan Singh (14452070X now JC-260860F), 10 Dec 97/31 Jul 97.*

BHM Bajrang Singh Shekhawat (14324265X now JC-260861K), 20 Sep 97/01 Aug 97.*

BHM Sham Lal (1268007H now JC-260862M), 19 Oct 97/27 Aug 97.*

Hav Bhim Bahadur Pun (14328253A now JC-260863P), 05 Dec 97/01 Sep 97.*

BHM Mohan Singh (14452490X now JC-260864X), 22 Dec 97/01 Sep 97.*

Hav Ajit Singh (14336026P now JC-260865A), 31 Oct 97/01 Sep 97.*

Hav Nand Kishore Yadav (14324032W now JC-260866H), 08 Oct 97/21 Sep 97.*

Hav Harbhajan Singh (14451584H now JC-260867L), 12 Nov 97/22 Sep 97.*

*(Granted seniority wef).

Hav Raghubir Singh (No. 14458479P now JC-260583F), 08 Aug 97/01 Jul 97.*

RHM Darshan Singh (No. 1269608A now JC-260584K), 02 Aug 97/01 Jul 97.*

Hav Jaganpal Singh (No. 1263355A now JC-260585M), 03 Sep 97/01 Jul 97.*

Hav Balakrishnan P (No. 14340580X now JC-260586P), 07 Aug 97/02 Jul 97.*

Hav Tejpal Singh (No. 14454304P now JC-260587X), 02 Aug 97/04 Jul 97.*

Hav Balkar Singh (No. 14326112M now JC-260588A), 01 Aug 97/08 Jul 97.*

Hav Kirshan Kumar (No. 1269346P JC-260589H), 08 Aug 97/08 Jul 97.*

Hav Karnail Singh (No. 14454177L now JC-260590X), 15 Aug 97/11 Jul 97.*

BHM Daulat Singh (No. 14330283W now JC-260591A), 01 Sep 97/01 Sep 97.*

*(Gtd seniority wef).

Hav Harbhej Singh (No. 14459127K, now JC-260597F), 19 Apr 97/01 Oct 96.*

Hav Chandi Charan Khan (No. 14455791M now JC-260598K), 26 Jul 97/26 Nov 96.*

Hav Kedar Nath Jha (No. 14335885N now JC-260599M), 15 Jul 97/28 Nov 96.*

BHM Harish Chand Sharma (No. 14451879Y now JC-260600W), 16 Sep 97/01 Jan 97.*

Hav Mohar Singh (No. 14331530L now JC-260601Y), 23 Aug 97/01 Jan 97.*

Hav Dungar Singh (No. 14466717L now JC-260602F), 21 Aug 97/01 Jan 97.*

Hav Paramjit Singh (No. 14326047X now JC-260603K), 17 Jun 97/05 Mar 97.*

Hav Rajinder Prasad (No. 14457103F now JC-260604M), 30 Apr 97/09 Mar 97.*

Hav Narendra Singh (No. 14329249K now JC-260605P), 14 Sep 97/01 Apr 97.*

RHM Resham Singh (No. 14460705A now JC-260606X), 16 Aug 97/01 May 97.*

BHM Om Prakash Jat (No. 14487380F now JC-260607A), 15 Sep 97/12 May 97.*

Hav Ram Kumar (No. 14333982M now JC-260608H), 15 Jul 97/01 Jun 97.*

Hav S Navaneetha Bala Krishna (No. 14343931M now JC-260609L), 12 Aug 97/08 Jun 97.*

Hav Chandra Sekharan Nair T (No. 143566970K now JC-260610A), 27 Aug 97/01 Jul 97.*

Hav Surendra Prasad (No. 14348228H now JC-260611H), 20 Jul 97/01 Jul 97.*

BHM Sulkhan Singh (No. 1262867A now JC-260612L), 13 Jul 97/06 Jul 97.*

*(Gtd seniority wef).

Hav Jagbir Singh (14356640L now JC-260441K), 11 Jun 1997/01 Apr 1997.*

BHM Ananda Kuttan Nair MK (14460675N now JC-260442M), 30 Jun 1997/20 Apr 1997.*

Hav Aam Singh (1268835N now JC-260443P), 03 Jun 1997/01 May 1997.*

Hav Limbadia Ismail Bhai Gaji Bhai (14464700Y now JC-260444X), 29 May 1997/01 May 1997.*

Hav Krishan Dial (1268788F now JC-260445A), 12 Jun 1997/05 May 1997.*

RHM Gulab Singh (14451810P now JC-260446H), 07 Jun 1997/01 Jun 1997.*

Hav P Dhandapani (14456150M now JC-260447L), 01 Jun 1997/01 Jun 1997.*

RHM P. Ramachandran (14335396H now JC-260467Y), 06 Sep 1997/20 Nov 1996.*

BHM Satyanarayan (14356808M now JC-260468F), 03 May 1997/20 Nov 1996.*

Hav Balwan (14453315P now JC-260469K), 18 Aug 1997/20 Nov 1996.*

BHM Sompal Sing (14324454F now JC-260470Y), 17 Jul 1997/28 Nov 1996.*

Hav Shri Kant Mishra (14344759H now JC-260471F), 20 Jun 1997/30 Nov 1996.*

*(Gtd seniority wef)

Hav Surendran S (14241758A now JC-260472K), 20 Apr 1997/30 Nov 1996.*

RHM Chander Bhan Zandu (14451970P now JC-260473M), 11 Jun 1997/01 Dec 1996.*

BHM Lal Singh Rawat (14456532W now JC-260474P), 19 Jul 1997/11 Dec 1996.*

BHM Sunder Lal (1268813P now JC-260475X),
19 Jul 1997/05 Jan 1997.*

BHM Sumer Singh (14326058K now JC-260476
A), 25 Jun 1997/07 Feb 1997.*

Hav Ashok Kumar Singh (14457773H now
JC-260477H), 25 Jun 1997/16 Feb 1997.*

BHM Chandra Mani Khanduri (14331167A
now JC-260478L), 26 Apr 1997/16 Feb 1997.*

Hav Kshatrdhari Singh (14342195M now JC-
260479N), 09 Jul 1997/01 Mar 1997.*

Hav Kanwar Pal Singh (14455734L now JC-
260480H), 19 Jul 1997/21 Mar 1997.*

BHM S. Siva Kumar (14317587P now JC-
260481L), 25 Jul 1997/30 Mar 1997.*

BHM Bir Bahadur Thapa (14462712P now JC-
260482N), 28 Jun 1997/30 Mar 1997.*

BHM Gurbachan Singh (14345358A now JC-
260483W), 28 Jun 1997/30 Mar 1997.*

Hav Sher Singh (14338982W now JC-260484Y),
12 Jul 1997/30 Mar 1997.*

Hav Babu Rajan D (14344540N now JC-260485
F), 21 Jun 1997/30 Mar 1997.*

BHM Satish Tamang (14455505A now JC-
260157N), 12 Apr 1997/30 Nov 1996.*

Hav Shish Ram Yadav (14460735X now JC-
260158W), 22 Mar 1997/30 Nov 1996.*

RHM Balbir Chand Bhandari (1262007M now
JC-260159Y), 05 Apr 1997/01 Dec 1996.*

BHM Sivan Kutty CN (14335268L now JC-
260160N), 19 Mar 1997/01 Dec 1996.*

Hav Gurnam Singh (14453439K now JC-
260161W), 19 Apr 1997/01 Dec 1996.*

RHM Vinod Kumar (1267795L now JC-
260162Y), 19 Mar 1997/19 Jan 1997.*

RHM Patil Mahadev Dattai Raya (14334277A
now JC-260163F), 08 Mar 1997/24 Jan 1997.*

Hav Subh Ram (14334552P now JC-260164K),
10 Apr 1997/01 Feb 1997.*

RHM Kutty Krishnan Thirikkottmeethal
(14330745X now JC-260165M), 17 Apr 1997/13
Feb 1997.*

RHM Hazari Lal (1262245 Y now JC-260166A),
21 Apr 1997/01 Mar 1997.*

Hav Anil Kumar Mishra (14353934N now JC-
260167K), 10 Apr 1997/01 Mar 1997.*

Hav Sukhwinder Singh (14453920H now JC-
260168A), 10 Apr 1997/01 Mar 1997.*

Hav Gurnawal Singh (14456105A now JC-
260169H), 10 May 1997/01 Mar 1997.*

Hav S Rajangam (14456701M now JC-260170
X), 02 Apr 1997/01 Mar 1997.*

RHM Sudesh Kumar Mehta (1268596K now
JC-260171A), 04 Apr 1997/01 Apr 1997.*

Hav Laiq Ram (14330841M now JC-260172H),
03 Apr 1997/01 Apr 1997.*

Hav Ramasrey Pandey (14332568F now JC-
260173L), 07 Apr 1997/01 Apr 1997.*

Hav Budhi Singh (14452148X now JC-260174N),
01 Apr 1997/01 Apr 1997.*

Hav Dhananjay Prasad Rana (14459035X now
JC-260175W), 03 Apr 1997/01 Apr 1997.*

BHM Prakash Chand (1262967L now JC-
260176Y), 01 May 1997/01 May 1997.*

RHM Bhula Singh (14340871X now JC-
260177F), 24 Mar 1997/24 May 1996.*

Hav Indramani Prasad (14461748F now JC-
260178K), 14 May 1997/01 Oct 1996.*

Hav Ramdas Singh (14334440P now JC-260179
M), 03 Apr 1997/01 Nov 1996.*

Hav Sarjeet Singh (14461236P now JC-260370N),
03 Jun 1997/01 Aug 1996.*

Hav Vijaypal (14329720Y now JC-260393P),
17 Jun 1997/30 Mar 1996.*

Hav Chilgar Kisan Sambhu (14464275Y now
JC-260394X), 16 May 1997/01 Apr 1996.*

Hav Hari Ram (14323229A now JC-260395A),
23 Sep 1996/31 May 1996.*

Hav K Muthuraj (14338348N now JC-260396H),
18 Dec 1996/30 Jun 1996.*

Hav Hardeep Singh (14327819W now JC-
260397L), 04 Nov 1996/20 Jul 1996.*

Hav Chandar Singh Mahra (14317991K now
JC-260398N), 01 Jun 1997/14 Nov 1996.*

BHM Selae Sumbrui (14343445P now JC-
260399W), 12 Apr 1997/16 Nov 1996.*

Hav Devendra Singh (14333007Y now JC-
260400A), 30 May 1997/25 Nov 1996.*

BHM Duddu Babu Rao (14345458L now JC-
260401H), 23 Jun 1997/30 Nov 1996.*

Hav Vishwanandhan MP (14344884M now JC-
260402L), 26 Mar 1997/30 Nov 1996.*

Hav Wanganekar Pandurang Yashavant
(14457742H now JC-260403N), 31 Mar 1997/15
Dec 1996.*

Hav Bhulla Singh (14459228X now JC-260404
W), 23 Mar 1997/01 Jan 1997.*

BHM Nailana Nagaswara Rao (14453849A now JC-260405Y), 22 Jun 1997/01 Feb 1997*.

BQMH Ram Gopal Verma (14334033M now JC-260406F), 12 Jun 1997/28 Feb 1997*.

Hav Tejendra Bahadur GC (1269025X now JC-260407K), 19 Mar 1997/01 Mar 1997*.

Hav Santosh Kumar Sharma (14334534M now JC-260408M), 02 Jun 1997/29 Mar 1997*.

Hav Rajendra C (14324017F now JC-260409P), 03 Apr 1997/30 Mar 1997*.

Hav Inderjit Agnihotri (14451858H now JC-260410K), 03 Apr 1997/30 Mar 1997*.

Hav Mohana Kumar TK (14344815W now JC-260411M), 03 Apr 1997/30 Mar 1997*.

Hav Dinesh Singh (14330176P now JC-260412P), 26 May 1997/30 Mar 1997*.

Hav Bhog Ram Borah (14331997W now JC-260413X), 11 Jun 1997/01 Apr 1997*.

Hav Vijay Shankar Singh (14345865N now JC-260414A), 28 May 1997/01 Apr 1997*.

Hav Mahendra Dubey (14469273X now JC-260415H), 01 Apr 1997.

BHM Kolhe Gorakhnath Jagannath (14332664 W now JC-260416L), 02 Apr 1997/01 Apr 1997*.

Hav Tarsem Singh (1269021F now JC-260074H), 01 May 1997/26 Nov 1996*.

Hav Ram Avtar Prasad (14453162W now JC-260075L), 05 Mar 1997/30 Nov 1996*.

Hav Sham Lal Karanmarkar (14330445W now JC-260076N), 05 Mar 1997/30 Nov 1996*.

Hav Jay Singh (14335354W now JC-260077W), 06 Mar 1997/08 Dec 1996*.

Hav Mukhtar Singh (14334583P now JC-260079 F), 01 Mar 1997/20 Dec 1996*.

Hav Bhawan Singh (14331399Y now JC-260080 W), 21 Mar 1997/01 Mar 1997*.

BHM Shakti Singh (14459243M now JC-260081Y), 01 Mar 1997/01 Mar 1997*.

RHM Chhaju Ram Yadav (14336308 N now JC-260082F), 01 Mar 1997/01 Mar 1997*.

Hav Padam Bahadur Bist (14470718L now JC-260083K), 07 Apr 1997/01 Apr 1997*.

Hav Ashok Bhosale (14451892H now JC-260078Y), 25 Jan 1997/09 Dec 1996*.

Hav Devi Singh (14329683W now JC-260085P), 03 Dec 1996/01 Jan 1996*.

RHM Pardhan Singh (1265799H now JC-260086X), 17 Aug 1996/01 May 1996*.

Hav Kuldip Singh (14331132K now JC-260087 A), 30 Nov 1996/22 Jun 1996*.

BHM Rajendran M (14331979M now JC-260088H), 04 Dec 1996/01 Aug 1996*.

Hav Budh Ram Yadav (14330557W now JC-260089L), 13 Dec 1996/01 Sep 1996*.

Hav Basavantappa Herakal (14322688N now JC-260090A), 20 Feb 1997/30 Nov 1996*.

THM Krishana Dev Mishra (14333520A now JC-260091H), 13 Jan 1997/30 Nov 1996*.

Hav Gurdial Singh (14330365Y now JC-260092 L), 19 Feb 1997/01 Dec 1996*.

Hav Lal Chand (14324133K now JC-260093N), 28 Jan 1997/01 Dec 1996*.

Hav Radhakrishnan TV (14345350N now JC-260094W), 10 Mar 1997/01 Dec 1996*.

BHM Daya Nand, SM (14329158A now JC-260095Y), 28 Feb 1997/06 Feb 1997*.

Hav Varghese T (14329237P now JC-260096F), 25 Apr 1997/01 Mar 1997*.

Hav Kashmir Singh (14323904F now JC-260097 K), 01 Mar 1997/01 Mar 1997*.

BHM Jalim Singh (14333968A now JC-260098 M), 01 Apr 1997/01 Apr 1997*.

Hav Unni Krishnan C (14346856Y now JC-260099P), 17 Jan 1997/17 May 1996*.

RHM Jagat Narayan (14326800L now JC-260132F)—26 Apr. 97/01 Feb. 96*

Hav Gopala Krishna Pillai (14344722 F now JC-260133K)—21 Mar. 97/01 Aug. 96*

BHM M Krishna Kumar (14456888K now JC-260134 M)—04 Apr. 97/0. Oct 96*

BHM Mahender Singh (14452546 Y now JC-260135P)—24 Mar. 97/01 Oct 96*

Hav Vijai Singh (14352133A now JC-260136 X)—29 Mar. 97/16 Nov. 96*

Hav Pushppa Rajan KC (14324927P now JC-260137A)—30 Mar. 97/25 Nov. 96*

BHM Mohanan MV (14324933 H now JC-260138H)—15 Mar. 97/30 Nov. 96*

BHM Raspal Singh (1268026 N now JC-260139 L)—08 Mar. 97/16 Dec. 96*

Hav Lakh Singh (1263114 A now JC-260140A) 25 Mar. 97/01 Jan. 97*

Hav Inderjit Singh (14454062 X) now JC-260141 H)—25 Mar. 97/01 Feb. 97*

Hav Naorem Manjijao Singh (14337171 Y now JC-260142 L)—22 Mar. 97/01 Feb. 97*

Hav Puran Singh (14360638L now JC-260143 N)—20 Mar. 97/12 Feb. 97*

RHM Gyarsi Lal' Yadav (1261930 X now JC-260144W)—04 Apl. 97/01 Mar. 97*

Hav Rajan Singh (1269210L now JC-260145-Y)—30 Mar. 97/01 Mar. 97*

Hav Purshottam Datt (14330644 K now JC-260146 F)—01 Apr. 97

Hav Jagir Singh (1267841P now JC-260147K)-01 Apr. 97

Hav Jatin Chandra Borah (14457666 F now JC-260148M)—11 Apr. 97/01 Apr. 96*

Hav Kamaleshwar Prasad (14332170 M now JC-260149P)—19 Mar. 97/31 Jul. 96*

Hav Naba Kumar Mondal (13853003W now JC-260150K)—13 Apr. 97/01 Aug. 96*

BHM Brahma Nand (14451082Y now JC-260151M)—22 Apr. 97/01 Aug. 96*

Hav Bhag Singh (14481068H now JC-260152P)-19 Apr. 97/16 Nov. 96*

BHM Anant Narayan Pandey (14453948 H now JC-260153 X)—05 May 97/20 Nov. 96*

Hav Madanmohan Ray (14333545M now JC-260154A)—10 Apr. 97/28 Nov. 96*

Hav Hausila Prasad Sharma (14324338 Y now JC-260155H)—23 Apl. 97/30 Nov. 96*

BHM Rohatas Singh Chauhan (14324431A now JC-260156L)—11 Apl. 97/30 Nov. 96*

Hav Chandra Babu B. (14335597F now JC-260100Y)—23 Oct. 96/25 Jun. 96*

BHM Venu Copalan Nair KN (1267664 A now JC-260101F)—10 Mar. 97/01 Nov. 96*

Hav Jagatap Maruti Namadev (14332488K now J-C230102K)—24 Mar 97/01 Nov. 96*

RHM Fateh Singh (14327780 P now JC-260103 M)—13 Mar. 97/01 Nov. 96*

BHM Segal MC (1269734M now JC-260104P)—10 Mar. 97/01 Nov. 96*

Hav Phillip Thomas (14341567A now JC-260105X 28 Mar. 97/01 Nov. 96*

Hav Rama Chandran P (14454796Y now JC-260106A)—21 Feb. 97/20 Nov. 96*

Hav Baldev Singh (14479681 W now JC-260107 H)—06 Apr. 97/22 Nov. 96*

Hav Swapan Kumar Biswas (14344780L now JC-260108L)—25 Feb. 97/22 Nov. 96*

Hav Om Prakash (14334595K now JC-260109-N)—25 Feb. 97/22 Nov. 96*

Hav Pooran Singh (14348303 F now JC-260110-H)—19 Apr. 97/25 Nov. 96*

Hav Ram Manorath (14459473A now JC-260111L)—24 Mar. 97/27 Nov. 96*

BHM Ram Avtar Yadav (1265603K now JC-260112N)—10 Apr. 97/28 Nov. 96*

BHM Swan K (14339605M now JC-260113 W)-25Mar 97/07 Dec. 96*

RHM Jagat Bahadur Pun (5445193A now JC-260114Y)—04 Apr. 97/12 Jan. 97*

Hav Nena Ram (14327968 K now JC-260115F)-13 Mar. 97/13 Jan. 97*

RHM Bali Ram Prasad (14322271 M now JC-260116K)—09 Mar. 97/01 Feb. 97*

Hav Indraj Singh Yadav (14318633 P now JC-260117M)—24 Mar. 97/01 Feb. 97*

Hav A Arunachalam (14476439W now JC-260118P)—01 Mar. 97/01 Feb. 97*

BHM Mahipal (14332745W now JC-260119X)-03 Apr. 97/01 Apr. 97*

Hav Byasjee Pandey (14330325P n w JC-260120M)—10 May 97/01 Apr. 97*

Hav Dimbeswar Nath (1269154X now JC-260121P)—01 Apr. 97*

BHM Dalip Singh (14452099A now JC-260551-Y)—01 Sep. 97/27 Jun. 97*

BHM A Battabi (14326586 N now JC-260552F)—27 Aug. 97/01 July 97*

Hav Narender Pal Singh (14346827K now JC-260559L)—24 Jul 97/25 Jun. 96*

Hav Ram Parkash (14330285 F now JC-260560-A)—06 Sep. 97/01 Sep. 96*

Hav M. Sekar (14338895 H now JC-260561H)—02 Nov. 97/20 Nov. 96*

BHM Yeshwant Singh (14326576 K now JC-260562L)—05 Sep. 97/01 Dec. 96*

RHM Jayaraman N. Nadukkandy (14326138-F now JC-260563N)—09 Oct. 97/01 Jan. 97*

Hav Billo Singh (14331498 F now JC-260564-W)—02 Oct. 97/01 Jan. 97*

Hav Jose KJ (14338901L now JC-260565 Y)—12 Sep. 97/01 Jan. 97*

Hav Satya Prakash (14330747H now JC-260566-F)—31 Jul. 97/11 Jan. 97*

RHM Shashinath Jha (14455256 M now JC-260567K)—19 Jul. 97/24 Jan. 97*

BHM Govind. Singh (1268681M now JC-260568M)—12 Oct. 97/01 Feb. 97*

Hav Sadanandan P. (14327731M now JC-260569P)—08 Jun. 97/01 Feb. 97*

RHM Chhatterdhari Yadav (14318777N now JC-260570K)—28 Mar. 97/14 Feb. 97*

Hav Manjit Singh (1267273P now JC-260571-M)—30 Aug. 97/01 Mar. 97*

Hav Sumer Yadav (14334264H now JC-260572-P)—11 Aug. 97/01 Mar. 97*

Hav Anirudhan K (14465560K now JC-260573-X)—09 Aug. 97/30 Mar. 97*

BHM Bhawani Singh (1266074P now JC-260574A)—25 Apr. 97/01 Apr. 97*

Hav Shinder Pal (1268398Y now JC-260575 H)—26 Jul. 97/01 Apr. 97*

Hav Jagir Singh (14338847H now JC-260576 L)—15 Aug. 97/01 Apr. 97*

Hav P. Babu (14334149H now JC-260577N)—17 Jul. 97/06 May 97*

BHM Paramjit Singh (14327364L now JC-260578W)—02 Aug. 97/09 May 97*

BHM Mahander Singh (1267796N now JC-260579Y)—18 Aug. 97/01 Jun. 97*

RHM Amarpal Singh (14453434L now JC-260580N)—26 Aug. 97/01 Jun. 97*

Hav Gian Singh (14455489N now JC-260581-W)—11 Aug. 97/04 Jun. 97*

Hav Lal Singh Samant (14330170N now JC-260582Y)—18 Aug. 97/23 Jun. 97*

Hav Mohan Singh (14312531Y now JC-259483-K)—27 Jan. 94/16 Nov. 92*

Hav Balarama Naik N. (14356057W now JC-259484M)—16 Nov. 95/01 Aug. 94*

RHM Sukumar Singh (14455521X now JC-259485P)—05 Feb. 95/31 Jan. 95*

Hav Ram Nath Singh (14453616Y now JC-259486X)—20 Sep. 95/01 Mar. 95*

RHM Uttam Singh Rathore (1266463P now JC-259487A)—02 Aug. 95/20 Jul. 95*

BHM Lala Ram (14334069I. now JC-259488-H)—27 Jul. 96/10 Nov. 95*

BHM Bhim Singh (14479376K now JC-259489-L) 12 Aug. 96/24 Nov. 95*

Hav Jarnail Singh (14458680A now JC-259490-A)—05 Apr. 96/25 Nov. 95*

RHM Shiv Pal Singh Yadav (1262385 L now JC-259491H)—01 Sep. 96/25 Nov. 95*

Hav Mahadeo Kawadu Raut (13856449W) now JC-259492L)—09 Sep. 96/30 Nov. 95*

BHM Dharam Pal Singh (14321632N now JC-259493N)—06 Jul. 96/01 Dec. 95*

Hav Thakare Vilas Ganpat (14451456L now JC-259494W)—01 May 96/01 Feb. 96*

Hav Sajak Ali (14454942N now JC-259495Y)—18 Jul. 96/01 Feb. 96*

Hav Sajjan Singh (14453286L now JC-259496-F)—12 Aug. 96/01 Feb. 96*

Hav Jadhav Vijay Sinh Dnyadeo (14338445-L now JC-259497K)—06 Jul. 96/13 Feb. 96*

BHM Roop Lal (1264521P now JC-259498)—02 Mar. 96/24 Feb. 96*

Hav Malkiat Singh (14331329A now JC-259499P)—06 Aug. 96/01 Mar. 96*

Hav Shaik Abdul Razak (14477643F now JC-259500Y)—16 Aug. 96/01 Mar. 96*

RHM Baran Singh (1262140P now JC-259501-F)—03 Sep. 96/25 Mar. 96*

Hav Harcharan Singh (14454497A now JC-259502K)—24 Apr. 96/01 Apr. 96*

RHM Ram Lal Singh (14456691N now JC-259503M)—22 Aug. 96/01 Apr. 96*

Hav Birham Parkash (14330163X now JC-259504P)—14 Sep. 96/01 Apr. 96*

BHM Dalip Singh (14457390W now JC-259505-X)—27 May 96/18 Apr. 96*

RHM Chhatter Singh (14319788M now JC-259506A)—25 May 96/01 May 96*

Hav Sham Singh (14480103N now JC-259507-H)—27 Sep. 96/01 May 96*

Hav Ashok Kumar Singh (14329253M now JC-259508L)—22 Jun. 96/01 Jun. 96*

RHM Himmat Rao Patil (1269002W now JC-259509N)—31 Aug. 1996/01 Jun., 1996*

BHM Virender Kumar (14460894 P now JC-259510H)—01 Sep. 1996/01 Jun. 1996*

BQM H Saroj Singh (14340892N now JC-259511L)—04 Sep. 1996/01 Jun. 1996*

Hav Raghubir Singh Dhiman (14320096K now JC-259512N)—11 Sep 1996/11 June 1996*

Hav. Phul Singh (14330360A now JC-259513W)—19 Aug 1996/25 Jun 1996*.

Hav. Goiapa Chandra Naik (14343751 K now now JC-259514Y)—01 Jul 1996/01 Jul 1996*.

BHM Shivraj Singh (14482564W now JC-259515F)—06 Aug 1996/01 Jul 1996*

Hav. Rajkumar Singh (14338391P now JC-259516 K)—07 Aug 1996/01 Jul 1996*.

RHM S. Kanaga Sabapathy (14454777N now JC-259517 M)—16 Aug 1996/01 Jul 1996*

BHM Kuldip Singh (14330234N now JC-259518 P)—01 Aug 1996/01 Aug 1996*.

BHM Matwar Singh (14453018 F now JC-259519 X)—02 Aug. 1996/01 Aug 1996*.

RHM Amir Singh (14328913M now JC-259520 M)—09 Sep 1996/01 Aug 1996*.

BHM Arjun Singh (14350394P now JC-259521 P)—24 Sep 1996/01 Aug. 1996*.

BHM Rajendra Prasad Singh (14324060 H now JC-259522, X)—01 October 1996/01 Oct 1996*.

BHM Rajendra Prasad Yadav (14355167Y now JC-259523 A)—15 Oct. 1996/01 Aug 1996*.

*(Gtd. seniority w.e.f.)

BHM Shashi Dharan PK (14341931N now JC-260000N)—01 Mar. 97/25 Feb. 96*

Hav Sohanvir Singh (14339375K now JC-260001W)—16, Dec. 96/26 Jul. 96*

Hav Vijayanvayal Veettil (14328641X now JC-260002X)—22 Jan 97/1 Nov 96*

BHM Bua Ditta (1433317N now JC-260003-F)—03 Apr. 97/30 Nov 96

BHM Baldev Singh (14319028K now JC-260004K)—12 Jan 97/30 Nov 96*

RHM Nirsh Chandra Sarkar (14325874N now JC-260005M)—18 Feb 97/03 Dec 96*

Hav Krishna Bahadur Gurung (1268581F now JC-260006P)—01 Dec 96.

BHM Hari Kishan (14330925A now JC-260007 X)—18 Feb. 97/01 Jan 97*

Hav Devesh Kumar Dixit (14358521N now JC-260008A)—04 Mar 97/01 Jan 97*

Hav Jiwan Singh (1265388K now JC-260009-H)—02 Mar 97/01 Jan 97*

BHM Jaswant Singh (14328241F now JC-260010X)—15 Feb 97/01 Feb 97*

*(Gtd. seniority w.e.f without effect on pay and allces)

Hav Chander Shekhar Gordan (14347163N now JC-260011A)—02 Mar 97/01 Mar 97*

Hav Ramesh Chand (14324041K now JC-260012H)—02 Mar 97/01 Mar 97*

(Gtd seniority w.e.f. without effect on pay and allces)

BHM Parvinder Singh (14477545F now JC-260323W)—13 Mar 97/28 Nov 96*

Hav Mahabir Singh (14323978W now JC-260324Y)—02 Jul 97/30 Nov 96*

Hav Ashok Sampat Manoj (14321681W now JC-260325F)—14 May 97/30 Nov 96*

Hav Karni Ram (14342212F now JC-260326 K)—28 Apr 97/01 Dec 96*

RHM Ramesh Kumar (14455863L now JC-260327M)—11 Feb. 97/01 Jan 97*

Hav Abhe Singh (1267475W now JC-260328-P)—20 Jun 97/01 Jan. 97*

Hav Suresh Kumar (1266427K now JC-260329-X)—29 Apr. 97/01 Jan 97*

Hav Dhanbir Chand Katoch (14327346H now JC-260330M)—18 Apr. 97/06 Jan. 97*

Hav Shyama Charan (14348872P now JC-260331P)—11 Feb. 97/01 Feb. 97*

Hav Govind Bapu Hirugade (14475143L now JC-260332X)—17 May 97/01 Mar 97*

BHM Balwinder Singh (14356406 P now JC-260333A)—09 Apr. 97/01 Mar. 97*

Hav Vijendra Kumar Singh (14461156X now JC-260334H)—14 May 97/01 Mar. 97*

Hav Om Prakash (14348604 L now JC-260335 L)—15 Apr. 97/01 Mar. 97*

Hav Karam Chand (14452663K now JC-260336N)—08 May 97/30 Mar. 97*

Hav Hayat Singh Majila (14330713P now JC-260337W)—08 May 97/30 Mar. 97*

Hav Raghupati Sahay Pandey (14458542Y now JC-260338Y)—08 May 97/30 Mar. 97*

Hav Bachu Singh (14330250L now JC-260339F)—08 May 97/30 Mar. 97*

Hav Indra Kumar (14354557P now JC-260340-W)—05 May 97/30 Mar. 97*

Hav Anant Patil (14351480A now JC-260341 Y)—05 May 97/30 Mar. 97*

Hav Ramesh Chander (14332726X now JC-260342F)—29 May 97/01 Apr. 97*

RHM Mangal Singh (14457674A now JC-260343K)—29 May 97/01 Apr. 97*

BHM Onkar Singh Rathore (14461218M now JC-260344M)—13 May 97/20 Apr. 97*

Hav Devabathina Subba Rao (14341172Y now JC-260345P)—20 May 97/01 May 97*

Hav Garalingappa Chanaveer (14451178H now JC-260205H)—26 Apr. 97/01 Apr. 97*

Hav Sukhwant Singh (14335223L now JC-260206L)—01 Jun. 97/01 Jun. 97*

Hav Harankal Vithal Raoji (14347493M now JC-260207N)—08 Dec. 96/30 Nov. 95*

BHM Lawange Kisan Laxman (14455492X now JC-260208W)—27 Nov. 96/30 Nov. 95*

Hav Ganga Ram (14466138Y now JC-260209-Y)—27 Feb. 97/04 Feb. 96*

Hav Chavan Dilip Yeshawant (14348782 N now JC-260210N)—27 Nov. 96/01 Apr. 96*

BHM Harbans Lal (14319511N now JC-260211W)—12 Jun. 96/03 May 96*

Hav Ranvir Singh (14458209A now JC-260212 Y)—01 Mar. 97/08 Jul. 96*

Hav Hiralal Dnyanu Salunkhe (1268029F now JC-260213F)—28 Feb. 97/19 Jul. 96*

Hav Jagdish Singh (14324832P now JC-260214 K)—12 Oct. 96/01 Sep. 96*

Hav Girish Chandra Pathak (14331232P now JC-260215 M)—10 May 1997/01 Nov 1996*

Hav Donkana Jagan Mohan (14460141H now JC-260216P)—17 Apr 1997/01 Nov 1996*

Hav Bakhish Singh (14322601A now JC-260217 X)—29 Apr 1997/28 Nov. 1996*

RHM Parkash Singh (14336968L now JC-260218 A)—12 Mar 1997/28 Nov 1996.*

Hav. Matu Singh (1265434N now JC-260219 H)—09 Apr. 1997/28 Nov. 1996.*

Hav Hem Raj (14322089M now JC-260220 X)—27 Feb. 1997/28 Nov 1996.*

RHM Iqbal Singh (14330437X now JC-260221 A)—02 Mar. 1997/30 Nov 1996.*

Hav Ashokan S. (14466776X now JC-260222H) 22 Apr 1997/30 Nov 1996.*

Hav Lochan Singh Yadav (14451176X now JC-260223L)—09 Feb 1997/30 Nov 1996.*

BHM Kanwar Pal Singh Shishodia (1265672-A now JC-260224N)—21 Apr 1997/01 Jan 1997.*

RHM Jamvant Singh (1263845N now JC-260225 W)—08 Feb 1997/05 Jan 1997.*

9—234 GI/98

BHM Trilok Singh (1433384 K now JC-260226Y)—27 Feb 1997/08 Jan 1997.*

BHM Puran Chand (14328964A now JC-260227F)—21 Apr 1997/01 Feb 1997.*

Hav Parlal (14474821N now JC-260228 K)—26 Apr 1997/01 Feb 1997.*

BHM James MD (14460989 P now JC-260-229 M)—10 May 1997/19 Feb. 1997*

Hav Kalappa B M (14461381M now JC-260511X)—07 Jul 1997/08 Jun 1997.*

Hav Anand Prakash (14466050P now JC-260512 A)—22 Jul 1997/15 Jun 1997.*

Hav Parbhat Singh (14344315 Y now JC-260513H)—07 Jul 1997/27 Jun 1997.*

Hav Ajit Singh (1268167H now JC-260514—01 Jul 1997/01 Jul 1997.*

BHM Vijaya Kumar N. (14456890F now JC-260515N)—06 Aug 1997/01 Jul 1997.*

Hav Nagabhushana B. (14457989 Know JC-260516W) 11 Aug 1997/01 Jul 1997.*

Hav Dharma Kanta Bordoloi (14334866 W now JC-260517Y)—23 Jul 1997/01 July 1997.*

Hav Birender Pratap Singh (14328578N now Jt-260518F)—08 Sep 1997/01 Jul 1997.*

RHM Ram Kishan Yadav (14453075H now JC-260519 K)—29 Jul 1997/14 Jul 1997.*

RHM Ramir Singh (14452624 L now JC-260520Y)—03 Sep 1997/01 Aug 1997.*

Hav Dhanraj Singh (14330890P now JC-260521 F)—01 Sept 1997/01 Sep. 1997.*

Hav Ashwini Kumar (1264473A now JC-260522K)—06 Oct. 1997/01 Oct 1997.*

Hav. Purushottam Ram (1265218 A now JC-260523M)—01 Oct. 1997/01 Oct. 1977.*

RHM Mahendran K. (1430755F now JC-260539 X)—16 Aug 1977/28 Nov. 1996.*

Hav Ghanashyam Pradhan (14347450X now JC-260540 M)—02 Aug 1997/01 Jan 1997.*

Hav Roshan Singh (13856292F now JC-260541 P)—04 Sep 1997/30 Jun 1994.*

Hav Pemmasani Rajendra Prasad (14334195X now JC-260542X)—04 Aug. 1997/01 Jan 1997.*

Hav Ram Shankar Singh (1269939F now JC-260543A)—20 Aug 1997/01 Jan 1997.*

Hav Yash Pal (1267312H now JC-260544 H)—12 Aug 1997/01 Jan 1997.*

Hav Ram Prasad (14329254P now JC-260545 L)—19 Aug 1997/30 Mar 1997.*

Hav Rattan Chand (14329904X now JC-260-546 N)—19 Aug 1997/30 Mar 1997.*

RHM Satnam Singh (14465875 N now JC-260547W)—11 Sep 1997/01 Apr. 1997.*

BHM Sahdev Singh (14468716F now JC-260548 Y)—20 Aug 1997/13 Apr 1997.*

Hav Lila Kishan (14464654 P now JC-260549F)—08 Aug 1997/03 May 1997.*

Hav C. Prabhakaran (14327787Y now JC-260550W)—18 Aug 1997/01 Jun. 1997.*

(*Gtd. seniority w.e.f.)

Hav Bhoopender Prasad Singh (14326922P now JC-260230F)—13 March 1997/01 March 1997.*

BHM Mohinder Singh (14328563L now JC-260231K)—21 April 1997/01 April 1997.*

BHM Dalel Singh (1268202A now JC-260232M)—21 April 1997/01 April 1997.*

Hav Mahendra Singh Yadav (1267150H now JC-260233P)—20 November 1996/01 January 1996*.

BQM H Sri Bhagwan (14455945N now JC-260234X)—21 November 1996/01 August 1996*.

BHM Channappa Sangappa Sajjan (14322786M now JC-260235A)—03 January 1997/01 September 1996*.

Hav Vhargale Nagnath Tatyra Rao (14350745Y now JC-260236H)—08 February 1997/21 November 1996*.

Hav B Purushothama Chetty (14340826L now JC-260237L)—26 February 1997/28 November 1996*.

Hav Abdul Aziz M (14346189W now JC-260238N)—08 April 1997/30 November 1996*.

RHM Y Dhanabati Singha (1269540K now JC-260239W)—01 March 1997/01 February 1997.

Hav Puran Singh (14326275A now JC-260240L)—01 February 1997.

(*Gtd seniority wef).

Hav Venu Gopal MN (14451039Y now JC-260241N)—20 March 1997/01 February 1997*.

BHM Joginder Singh (14455358H now JC-260242W)—10 April 1997/01 February 1997*.

Hav Lal Singh (14325258N now JC-260243Y)—01 March 1997.

Hav Karan Singh (1268283L now JC-260244F)—01 March 1997.

Hav Krishnan Unni TR (1269770X now JC-260245K)—16 June 1997/01 March 1997*.

RHM Dayanandan K (14325679W now JC-260246M)—08 April 1997/06 March 1997*.

Hav Prakash Chandra (14466427N now JC-260247P)—05 May 1997/30 March 1997*.

Hav Narayan Mishra (14334720H now JC-260248X)—01 April 1997.

Hav Devraj Verma (14335012H now JC-260263M)—29 April 1997/01 October 1996*.

Hav Anil Kumar Sharma (14346378A now JC-260264P)—28 April 1997/01 November 1996*.

RHM Birendra Singh (14472301K now JC-260265X)—05 May 1997/01 November 1996*.

Hav Kuldip Singh (1265024X now JC-260266A)—19 May 1997/01 November 1996*.

Hav Zanjurne Mahadev Raghunath (14453474M now JC-260267H)—23 June 1997/10 November 1996.

Hav Boyate Poput Babu (14453534W now JC-260268L)—26 May 1997/25 November 1996*.

(*Gtd seniority wef).

To be Naib Subedar (Clerks GD/Skst)

Hav (Clk) Madan Pal (No 14341948F now JC-260980A)—01 June 1998*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 September 1997 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Satdev Singh (No 14327079M now JC-260981H)—19 February 1998*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 January 1998 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Harbhajan Singh (No 14338549M now JC-260982L)—01 April 1998*.

Hav (Clk) Satish Chandra (No 14349524A now JC-260983N)—01 April 1998.

CORPS OF AD ARTILLERY

(To be Substantive Subedar (GD))

Nb Sub Vardev Singh (JC-256145F)—Ist July 1997.

Nb Sub Natthi Prasad (JC-223353W)—Ist August 1997.

Nb Sub Ram Chander (JC-255191K)—Ist September 1997.

Nb Sub Ram Larate (JC-296126Y)—Ist January 1998.

Nb Sub Peethambaran Nair R (JC-296111W)—Ist January 1998.

Nb Sub S Sudalai Mani (JC-223115K)—Ist January 1998.

Nb Sub Sisir Kumar Gurung (JC-223921W)—Ist January 1998.

Nb Sub Parbhati Lal (JC-226506A)—Ist January 1998.

Nb Sub Hanuman Singh (JC-255663P)—Ist January 1998.

Nb Sub Sardar Singh Yadav (JC-255608Y)—
1st January 1998.

Nb Sub Roshan Lal (JC-256147M)—1st January
1998.

Nb Sub Ghan Shyam Bhagat (JC-296011L)—
1st January 1998.

Nb Sub Garaga Krishna Murthy (JC-296064K)—
1st January 1998.

Nb Sub Rudar Singh (JC-255813A)—1st Feb-
ruary 1998.

Nb Sub Ami Lal Sirahwata (JC-256782X)—
1st February 1998.

Nb Sub Sharvan Kumar Rajput (JC-296049P)—
1st February 1998.

Nb Sub Hoshial Singh (JC-255472A)—1st Feb-
ruary 1998.

Nb Sub Ramachandran M (JC-226573L)—1st
February 1998.

Nb Sub Ramesh Chandra (JC-226695P)—1st
February 1998.

Nb Sub Ram Phal (JC-255170N)—1st February
1998.

Nb Sub Shiv Lal (JC-255326A)—1st February
1998.

Nb Sub Dinesh Kumar Pal (JC-255855M)—
1st February 1998.

Nb Sub Sasidharan Pillai TK (JC-255534P)—
1st February 1998.

Nb Sub Babu Lal Yadav (JC-256780M)—1st
February 1998.

Nb Sub Hemango Singha (JC-296023A)—1st
February 1998.

Nb Sub Karn Singh (JC-296066P)—1st February
1998.

Nb Sub Lulu Ram Tanwar (JC-224767P)—1st
February 1998.

Nb Sub Arjan Prashad Tripathi (JC-255520P)—
1st February 1998.

Nb Sub Nazari Singh Chahal (JC-255540H)—
1st February 1998.

Nb Sub Joginder Pal (JC-255903F)—1st Feb-
ruary 1998.

Nb Sub Kuldip Singh (JC-255885K)—1st Feb-
ruary 1998.

Nb Sub Bhajan Chand (JC-256159F)—1st March
1998.

Nb Sub Chakra Datt Sharma (JC-256365L)—
1st March 1998.

Nb Sub Ram Singh (JC-256367W)—1st Mar
1998.

Nb Sub Nani Mohan Namasudra (JC-256786N)—
1st March 1998.

Nb Sub Maharaj Singh Rawat (JC-296037A)—
1st March 1998.

Nb Sub Dhanpat Singh (JC-296042L)—1st
March 1998.

Nb Sub Paramjit Singh (JC-296053X)—1st March
1998.

Nb Sub Maru Ram (JC-296132M)—1st March
1998.

Nb Sub Birendra Nath Borah (JC-255661K)—
1st March 1998.

Nb Sub Asem Munal Singh (JC-255915W)—
1st March 1998.

Nb Sub Sardar Singh (JC-296052P)—1st March
1998.

Nb Sub Mahander Singh Ghautam (JC-296055H)—
1st March 1998.

Nb Sub Til Bahadur (JC-226825M)—1st March
1998.

Nb Sub A Palani (JC-226451F)—1st April 1998.

Nb Sub Rajinder Singh (JC-296059Y)—1st April
1998.

Nb Sub Babu Ram Yadav (JC-296038H)—1st
April 1998.

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-296076Y)—1st April
1998.

Nb Sub G Jesu Mani (JC-255881N)—1st April
1998.

Nb Sub Doodh Nath Singh (JC-256788Y)—1st
April 1998.

Nb Sub Maharaj Singh (JC-187616W)—1st April
1998.

Nb Sub K Munian (JC-225893N)—1st April
1998.

To be Nb Sub

Hav Satpal Singh Gill (14461652Y now JC-
297005K)—1 Apr 1998.

Hav Ram Niwas (14475075H now JC-297006M)—
1 Apr 1998.

BHM Kadiri Venkata Ramudu (14331847 A now
JC-297007P)—15 Oct 1997/1 Aug 1997.*

HAV Ram Singh Saklani (14342762K now JC-
297008X)—1 Nov 1997.*

BHM Ramdhari Singh (14333956L now JC-
297009A)—3 Jan 1998/1 Nov 1997.*

BHM Ajaya Kumar PV (14335340W now JC-297010P)—21 Feb 1998/1 Nov 1997.*

BHM Ram Sewak Mishra (14338762M now JC-297011X)—13 Feb 1998/20 Nov 1997.*

HAV Basant Lal (14336060P now JC-297012A)—16 Apr 1998/29 Nov 1997.*

HAV Simanchal Sahoo (14337247N now JC-297013H)—12 Feb 1998/29 Nov 1997.*

HAV Dharam Bhir (14338170H now JC-297014L)—16 Feb 1998/30 Nov 1997.*

HAV B Sree Kandan Nair (14346808Y now JC-297015N)—28 Feb 1998/30 Nov 1997.*

BHM R Ramar (14344654Y now JC-297016W)—28 Feb 1998/30 Nov 1997.*

HAV Nivruti (14332784P now JC-297017Y)—28 Feb 1998/30 Nov 1997.*

HAV Parma Nand (14355004L now JC-297018F)—7 Apr 1998/30 Nov 1997.*

BHM Bhumi Singh (14326544F now JC-297019K)—27 Jan 1998/1 Dec 1997.*

BHM Deep Chand Rai (14347480P now JC-297020Y)—9 Mar 1998/1 Dec 1997.*

HAV Kulwant Singh (14328657H now JC-297021F)—10 Mar 1998/1 Dec 1997.*

HAV Asokan S (14338638L now JC-297022K)—28 Feb 1998/23 Dec 1997.*

HAV Rajpal Rawat (14344207P now JC-297023M)—27 Jan 1998/1 Jan 1998.*

HAV Krishan Kumar (14325800Y now JC-297024P)—4 Feb 1998/1 Jan 1998.*

HAV Uttam Singh (14360237W now JC-297025X)—14 Feb 1998/1 Jan 1998.*

BHM Ratan Singh Rathor (14331931A now JC-297026A)—18 Mar 1998/1 Jan 1998.*

BHM Sasidharan Pillai M (14342466Y now JC-297027H)—26 Mar 1998/1 Jan 1998.*

BHM Kashi Ram (14317723A now JC-297028L)—1 Feb 1998.*

HAV Yudhvir Singh (14320410M now JC-297029N)—1 Feb 1998.*

HAV Banwari Lal (14317382A now JC-297030H)—9 Feb 1998/1 Feb 1998.*

HAV Dalbir Singh (14348839X now JC-297031L)—18 Feb 1998/1 Feb 1998.*

HAV Mohan Singh (14346326K now JC-297032N)—23 Feb 1998/1 Feb 1998.*

RHM Upinder Chand Katoch (14349419K now JC-297033W)—26 Feb 1998/1 Feb 1998.*

BHM Duli Chand (14341409L now JC-297034Y)—26 Feb 1998/1 Feb 1998.*

BHM Lekhi Ram Bora (14332021Y now JC-297035F)—2 Mar 1998/1 Feb 1998.*

HAV Radha Krishnan Nair V (14339302X now JC-297036K)—7 Mar 1998/1 Feb 1998.*

HAV Dinesh Singh (14348403M now JC-297037M)—23 Mar 1998/1 Feb 1998.*

BHM Thampi VR (14339235X now JC-297038P)—9 Mar 1998/3 Mar 1998.*

RHM Rattan Singh (14327037A now JC-297039X)—12 March 1998/1 Mar 1998.*

RHM Narayanan PR (14354231Y now JC-297040M)—5 Mar 1998/28 Jan 1998.*

Special List

Corps of Signals

To be Sunstantive Subedar Major (Religious Teacher Pandit)

Sub Sankarshan Prasad Tripathy (JC-63665L)—1st Apr 1998.

Sub Ram Sakha Mishra (JC-66622F)—1st Apr 1998.

Sub Surya Prasad Tripathi (JC-63667 W)—1st Apr 1998.

Sub Ram Lakhon Awasthi (JC-65775 Y)—1st Apr 1998.

Nb Sub Ram Avtar Pandey (JC-160633M)—1st Apr 1998.

Nb Sub Roshan Lal Mishra (JC-151073K)—1st Apr 1998.

Nb Sub Shambu Dayal Garg (JC-150085 M)—1st Apr 1998.

Nb Sub Shyam Narayan Mishra (JC-150087X)—1st Apr 1998.

Nb Sub Gorakh Nath Rai (JC-150088A)—1st Apr 1998.

To be Substantive Subedar Major (F of S)

Sub Kuldip Chand (JC-133185F)—1st April 1998.

Sub Parbhat Singh (JC-137236 F)—1st July 1998.

To be Substantive Subedar Major (CLK GD)

Sub Virpal Singh (JC-212113 Y)—1st July 1998.

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Parma Nand (JC-186117P)—1st May 1998.

- Sub Munshi Ram (JC-187967L)—1st July 1998.
To be Substantive Subedar (GD)
- Nb Sub A Antony (JC-368279F)—1st Dec 1997.
Nb Sub Hirdesh Kumar (JC-368280W)—1st Dec 1997.
Nb Sub Debendra Nayak (JC-368285P)—1st Dec 1997.
Nb Sub Megh Singh (JC-368357N)—1st Dec 1997.
Nb Sub Shankar Lal Choyal (JC-368358W)—1st Dec 1997.
Nb Sub George Kutty U. Y. (JC-368381K)—1st Dec 1997.
Nb Sub Amrik Singh (JC-368384X)—1st Dec 1997.
Nb Sub Balkar Singh (JC-368385A)—1st Dec 1997.
Nb Sub Manohar (JC-368398 X)—1st Jan 1998.
Nb Sub Ram Sudarshan Pandey (JC-368409Y)—1st Jan 1998.
Nb Sub Raj Kumar (JC-368411W)—1st Jan 1998.
Nb Sub Shelge Vithal Rao Limbaji Rao (JC-368507Y)—1st Jan 1998.
Nb Sub Sarju Prasad Singh (JC-368471 L)—1st Jan 1998.
Nb Sub Bijay Kumar Singh (JC-368483A)—1st Jan 1998.
Nb Sub Krishnan C H (JC-368486N)—1st Jan 1998.
Nb Sub Prasanna Kumari Nanu (JC-368495P)—1st Feb 1998.
Nb Sub Ram Pher Yadav (JC-368500P)—1st Feb 1998.
Nb Sub Jadhav Namdeo Vishnu (JC-368621W)—1st Feb 1998.
Nb Sub Ganpat Ram (JC-368623F)—1st Feb 1998.
Nb Sub Radha Krishna Ram (JC-368624K)—1st Feb 1998.
Nb Sub Ram Phal Singh (JC-368639M)—1st Feb 1998.
Nb Sub Sardar Singh (JC-368641K)—1st Feb 1998.
Nb Sub Rajpal Singh Malik (JC-368693A)—1st Feb 1998.
Nb Sub Pratap Singh (JC-368695L)—1st Feb 1998.
- Nb Sub Ved Prakash (JC-368696N)—1st Feb 1998.
Nb Sub Sohan Singh (JC-368700L)—1st Feb 1998.
Nb Sub K Sreedharan Rajan (JC-368729N)—1st Feb 1998.
Nb Sub Subas Chandra Bindhani (JC-368768 M)—1st Feb 1998.
Nb Sub Narain Singh (JC-368772P)—1st Feb 1998.
Nb Sub Ram Baran (JC-368773K)—1st Feb 1998.
Nb Sub Ram Dhani (JC-368775H)—1st Feb 1998.
Nb Sub Jainath Pandey (JC-368779Y)—1st Feb 1998.
Nb Sub Balbir Singh Chauhan (JC-368784K)—1st Feb 1998.
Nb Sub Hardyal Singh (JC-368786P)—1st Feb 1998.
Nb Sub Dharm Nath Prasad (JC-368803K)—1st Feb 1998.
Nb Sub D K Thapa (JC-368804M)—1st Feb 1998.
Nb Sub Kishor Bahadur Thapa (JC-368805P)—1st Feb 1998.
Nb Sub Jitendra Jena (JC-368808H)—1st Feb 1998.
Nb Sub Phani Dhar Deka (JC-368809L)—1st Feb 1998.
Nb Sub Chhedi Sah (JC-368868X)—1st Feb 1998.
Nb Sub Sughar Singh (JC-368869A)—1st Feb 1998.
Nb Sub Kanwaljit Singh Brar (JC-368823K)—1st Feb 1998.
Nb Sub Batri Lal (JC-368801Y)—1st Feb 1998.
Nb Sub Nand Kishore (JC-368911N)—1st Feb 1998.
Nb Sub Salunkhe Vishavas Sadashiv (JC-368952X)—1st Feb 1998.
Nb Sub Ram Shankar Jha (JC-369140W)—1st Feb 1998.
Nb Sub Vijai Singh Prabhat (JC-368231N)—1st Feb 1998.
Nb Sub Madan Mohan Singh (JC-369150A)—1st Mar 1998.

Nb Sub Vishwa Nath Prasad Yadav (JC-369152L)—1st Mar 1998

Nb Sub Bhim Sain (JC-369170N)—1st Mar 1998.

Nb Sub Kamal Singh (JC-369171W)—1st Mar 1998.

Nb Sub Vijayan P (JC-369182H)—1st Mar 1998.

Nb Sub Gadadhar Bhattacharya (JC-369197L)—1st Mar 1998

Nb Sub Kartar Singh (JC-369199W)—1st Mar 1998.

Nb Sub Darshan Singh (JC-369208M)—1st Mar 1998.

Nb Sub Swapan Das (JC-369209P)—1st Mar 1998.

Nb Sub Ran Singh (JC-369216L)—1st Mar 1998.

Nb Sub Kishor Singh (JC-369218W)—1st Mar 1998.

Nb Sub Indra Bahadur Thapa (JC-369225M)—1st Mar 1998.

Nb Sub Makwana Amarsinh Juh sinh (JC-369227X)—1st Mar 1998.

Nb Sub Rameshwar (JC-369231A)—1st Mar 1998.

Nb Sub Ram Kishan (JC-369232H)—1st Mar 1998.

Nb Sub Harbansh Yadav (JC-369284Y)—1st Mar 1998.

Nb Sub Bindeshwari Singh Yadav (JC-369285F)—1st Mar 1998.

Nb Sub Aditya Narain Chaubay (JC-369287M)—1st Mar 1998.

Nb Sub Balbir Singh (JC-369300L)—1st Mar 1998.

Nb Sub Sultan Mohd (JC-369304F)—1st Mar 1998.

Nb Sub Sat Pal (JC-369309A)—1st Mar 1998.
Deyinder Singh 234 GI 20 Ems 170-172 14-9-98

To be Subedar Maj: Personal Assistant

Subedar Pandey S K (JC-166211-X)—01 Mar 1998.

Subedar Baidya Nath Singh (JC-175697-P)—01 Apr 1998.

To be Subedar Personal Assistant

Naib Subedar Vasudevan Kanakathidathil (JC-640265-K)—01 Mar 1998.

Naib Subedar Yeswant Singh Jamwal (JC-640266-M)—01 Apr 1998.

Naib Subedar Venkitachalam P (JC-640267-P)—01 Apr 1998.

Naib Subedar Chandrasekharan Nair N (JC-640268-X)—01 Apr 1998.

Naib Subedar Surajit Kumar Maitra (JC-640270-P)—01 May 1998.

To be Subedar Major: S K T

Subedar Vijay Bahadur Nayak Vashisth (JC-193241-Y)—01 May 1998.

Subedar Jagir Singh (JC-193243-K)—01 May 1998.

Subedar Onkar Singh Rana (JC-193257-K)—01 May 1998.

To be Subedar: S K T

Naib Subedar Vijay Pal Singh (JC-213842-N)—01 Aug 1997.

Naib Subedar Vijaya Kumaran Nair M (JC-217837-A)—01 Dec 1997.

Naib Subedar Aniruddha Kumar (JC-217867-X)—01 Feb 1998.

Naib Subedar Sashi Bhushan Singh (JC-640063-H)—01 Feb 1998.

Naib Subedar Mihir Kumar Ghosh (JC-215509-N)—01 Feb 1998.

Naib Subedar Shyam Bihari Prasad (JC-640009-P)—01 Apr 1998.

Naib Subedar Paulose Varughese (JC-640010-K)—01 Apr 1998.

Naib Subedar Siddappa Cholli (JC-640066-W)—01 May 1998.

Naib Subedar Rajeshwar Prasad Yadav (JC-640074-P)—01 May 1998.

To be Naib Subedar Clerk (GD/SD)

Hav Ashok Kumar Chatterjee (6649539-W now JC-641828-L)—07 Mar 1998)*.

Hav Shrinivas K (6649115-A now JC-641829-N)—23 Feb 1998)*.

*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 97 without effect on pay and allces).

Hav Shiv Shanker Yadav (6649856-X now JC-641830-H)—24 Jan 1998)**

Hav Nar Bahadur Thapa (6649857-A now JC-641831-L)—12 Dec 1997).**

** (granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 97 without effect on pay and allces).

Hav Shyam Kishor Pandey (6649860-A now JC-641832-N)—01 Dec 1997.

Hav Vanu Gopalan Y (6649828-L now JC-641833-W)—01 Dec 1997).

Hav Shabbir Ali (6649528-K now JC-641834-Y)—19 Jan 1998.***

Hav Rattan Singh (6649864-W now JC-641835-F)—01 Jan 1998.

Hav Bhubnesh Kumar Varshney (6649868-M now JC-641836-K)—06 Jan 1998.***

Hav Arjun Prasad Tripathi (6373628-P now JC-641837-M)—04 Feb 1998.***

Hav Prasanta Chandra Mohanty (6649831-L now JC-641838-P)—05 Feb 1998.***

Hav R Muthu Samy (13861122-F now JC-641839-X)—07 Mar 1998)***.

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 98 without effect on pay and allces).

Hav Yogendra Singh (6649869-P now JC-641840-M)—01 Feb 1998.

Hav Lal Babu Tiwari (6649877-N now JC-641841-P)—09 Mar 1998%.

Hav Nowel Ch Sangma (6649879-Y now JC-641842-X)—09 Mar 1998%.

Hav. Shree Pal Singh (6649882-Y now JC-641843-A)—02 Feb 1998%.

Hav Babban Chaubey (6649881-W now JC-641844-H)—01 Feb 1998.

Hav Anandan A (6649883-F now JC-641845-L)—05 Mar 1998%.

Hav Ram Niwas (6649885-M now JC-641846-N)—01 Feb 1998.

Hav Satya Pal (6649892-H now JC-641847-W)—05 Mar 1998) %.

Hav Gopal Masaji Pustole (6649886-P now JC-641848-Y)—06 Mar 1998%.

Hav Biranchi Narayan Das (6649894-N now JC-641849-F)—01 Feb 1998.

Hav Bijoya Kumar Sahu (6649895-W now JC-641850-W)—01 Feb 1998.

Hav Katipalli Yedukondalu (6649902-F now JC-641851-Y)—02 Feb 1998%.

Hav Udaya Kumaran P (6649904-M now JC-641852-F)—10 Feb 1998%.

Hav Jagjit Singh (6649906-X now JC-641853-K)—01 Feb 1998.

Hav Hoshiar Singh (6649907-A now JC-641854-M)—01 Feb 1998.

Hav. Azad Ban (6649908-H now JC-641855-P)—01 Feb 1998.

Hav Kanhaya Ram (6649909-L now JC-641856-X)—01 Feb 1998.

Hav Yogendar Singh (6649911-A now JC-641857-A)—14 Feb 1998%.

Hav Prem Pal Singh (6649913-N now JC-641858-H)—09 Feb 1998%.

Hav Surendra Singh Bishta (6649918-M now JC-641859-L)—04 May 1998%.

Hav Tilak Raj Rattan (6649850-W now JC-641860-A)—01 Feb 1998%.

Hav Pratip Kumar Sharaᅅgi (6649903-K now JC-641861-H)—11 Apr 1998%.

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef. 01 Feb 98 without effect on pay and allces).

Hav Vijay Kumar Bhatia (6649922-P now JC-641862-L)—01 Mar 1998.

Hav Parimal Mitra (13863365-K now JC-641863-N)—07 Mar 1998@.

Hav Ram Kripal Singh (13864835-X now JC-641864-W)—26 Mar 1998@.

Hav Sanat Kumar Chattopadhyay (13861398-N now JC-641865-Y)—09 Mar 1998@.

Hav V Jaya Dass (13868936-H now JC-641866-F)—03 Apr 1998@.

Hav Jhumar Lal (13873190-L now JC-641867-K)—02 Mar 1998@.

Hav Prabhu Prasad Singh (6372047-L now JC-641868-M)—01 Mar 1998.

Hav Girja Shankar (6374677-K now JC-641869-P)—06 Mar 1998@.

Hav Parve Narayan Ananda (13863530-L now JC-641870-K)—01 Mar 1998.

Hav Tarseem Lal (6373839-X now JC-641871-M)—01 Mar 1998.

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 98 without effect on pay and allces).

Hav Kamlesh Ram (6373133-H now JC-641872-P)—19 Jun 1998£

Hav Shri Chandrakant Prasad (13870774-F now JC-641873-X)—01 Apr 1998.

Hav Sasi Kumar M (6649926-L now JC-641874-A)—01 Apr 1998.

Hav Narender Kumar (6649931-W now JC-641875-H)—01 Apr 1998.

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 98 without effect on pay and allces).

ARMY SERVICE CORPS

(Mechanical Transport)

To be Nb Subs

Hav Birfi Ram (No. 13855139Y now JC-661301X)—11 Sep 1997.*

Hav Shib Chandra Singh (No. 13855485P now JC-661302A)—22 Dec 1997.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Nov 96 without effect of pay and allowances).

Hav Dharam Nath Sah (No. 13855591N now JC-661303A)—10 Nov 1997.@

Hav Nani Chait Kaur (No. 13859489W now JC-661304L)—22 Nov 1997.@

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 97 without effect on pay and allowances)

Hav Rameshwar Prasad (No. 13857463P now JC-661305N)—22 Mar 1997.

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 97 without effect on pay and allowances)

Hav Narsa Ram Jai (No. 13859802H now JC-661306W)—11 Sep 1997.£

Hav Suchhidanand Singh (No. 13860486F now JC-661307Y)—18 Sep 1997.£

Hav Bireshwar Singh (No. 13832065H now JC-661308F)—12 Nov 1997.£

£(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 April 97 without effect on pay and allowances).

Hav Brindavan Halder (No. 13853427H now JC-661309K)—01 Aug 1997.

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jun 97 without effect on pay and allowances).

Hav Nagar Mal (No. 13859582K now JC-661310Y)—24 Dec. 97&

Hav Rama Nand Singh (No. 13860329P now JC-661311F)—14 Jan. 98&

&(Gtd. seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 23 Aug. 97 without effect on pay and allowances)

Hav Arjun Singh (No. 13856883H now JC-661312K)—01 Oct. 97

Hav Devendra Prasad Yadav (No 13856530H now JC-661313M)—01 Oct. 97

Hav Krish Bill Sangama (No 13853607P now JC-661314P)—16 Jan. 98**

Hav Ram Nath (No. 13857765F now JC-661315X)—27 Jan. 98**

Hav Raj Bilochan Singh (No. 13857885A now JC-661316A)—13 Jan. 98**

Hav Dhaneshwar Rahang (No. 13854156M now JC-661317H)—21 Jan. 98**

Hav Nitish Chandra Biswas (No. 13854540-M now JC-661318L)—14 Jan. 98**

Hav Badri Narayan Katariya (No 13855150X now JC-661319N)—17 Jan 98**

Hav Gurbachan Lal (No. 13855226M now JC-661320H)—01 Oct. 97

Hav Yad Ram Singh (No. 13859049P now JC-661321L)—13 Jan. 98**

Hav Paramjeet Singh (No. 13859206 W now JC-661322N)—13 Jan. 98**

Hav Guna Nand Singh (No. 13855433Y now JC-661323W)—21 Jan. 98**

** (Gtd. seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 01 Oct. 97 without effect on pay and allowances)

Hav Chhotu Singh Bhatti (No: 13858826A now JC-661324Y)—08 Jan 98

(Gtd. seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 25 Oct. 97 without effect on pay and allowances)

Hav Dharam Nath Jha (No. 13855555H now JC-661325F)—16 Jan. 98@

Hav Krishna Kumar Singh (No. 13855404 N now JC-661326K)—01 Jan. 98@

@(Gtd seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 01 Jan. 98 wef. without effect on pay and allowances)

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Subedar

Nb Sub Muthu Kumara Sami Siva Kumar (JC-106598F)—01 Jan. 96

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-157249 A)—01 Oct. 96

Nb Sub Mohinder Singh (JC-163141-Y)—01 Nov 96

Nb Sub Bhabani Kanta Sarma (JC-154624-P)—01 Dec 96

Nb Sub Kameshwar Prasad Singh (JC-183897-A)—01 Jan. 97

Nb Sub Paravantavida Kumaran (JC-154125-A)—01 Jan. 97

Nb Sub Daya Shankar Pandey (JC-192026-F)—01 Jan 97

Nb Sub Puspangadan Alattankandy (JC-139949L)—01 Jan 97

Nb Sub Shakti Chand (JC-143661 H)—01 Jan. 97

Nb Sub Ran Nath (JC-90100 K)—01 Jan. 97

Nb Sub Khem Raj Sharma (JC-148226-X)—01 Jan 97

Nb Sub Jag Ram (JC-168074 H)—01 Jan. 97

Nb Sub Ramesh Singh Pathania (TJ-2244-M)—01 Jan. 97

Nb Sub Dashrath Singh (JC-194249-X)—01 Jan. 97

To be Nb Sub

Hav Dhan Bahadur Thapa (5037033X now JC-840769F)—24 Nov. 1997*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 1997 without effect on Pay and allowances)

Hav Vinayak Patil (10148703L) now JC-840770W)—09 Mar. 98**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef. 01 Jan. 1998 without effect on pay and allowances)

Hav Subhash Chander (7059448-H now JC-840771-Y)—04 May 98***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef. 01 Feb. 1998 without effect on pay and allowances)

Hav Krishan Kumar (4157364-Y now JC-840772-F)—14 May 1998****

Hav Jai Ram Singh (2849890H now JC-840773-K)—15 May 98****

Hav Bhuban Chandra Rajbangshi (10242971-N now JC-840774-M)—06 May 98****

**** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef. 01 Mar. 1998 without effect on pay and allowances)

Hav Rameshwar Ram (10180534H Now JC-840775-P)—18 May 98*****

Hav Bijai Baran (10404218P Now JC-840776-X)—02 June 98*****

Hav Chandarbhan (10196924P Now JC-840777-A)—11 May 98*****

Hav Chandraoal Singh (9210655-X Now JC-840778-H)—26 May 98*****

Hav Bhuri Singh (10403957-P Now JC-840779-L)—22 May 98*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef. 01 Apr. 1998 without effect on Pay and allowances)

Hav Gaya Prasad (10180673-M now JC-840780-A)—16 June 98*****

Hav Kartar Singh (3155548-H now JC-840781-H)—08 June 98*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef. 01 May 1998 without effect on pay and allowances)

T. P. MONDAL
Under Secy.

(AIR FORCE)

No. 689—dated 23 Jul. 98—The President is pleased to make the following substantive promotion :-

INDIAN AIR FORCE

ADM BRANCH

FG OFFR to be SUBS FLT LT

SS Amritpa! (22202), PS Vai lya (22203), SB Rocky (22204), P Zola (22207), S Aggarwal (22208), V. Sharma (22209), B. Singh (22210), S. Sawoo (22211) B. Mehta (22212), A.K. Mishra (22213), V. Bhatnagar (22214), R.A. Raghavan (22215), Vinod-Kumar (22216), R. Manoj (22217), A. Anand (22218), A.K. Sharma (22219), B. Kumar (22220), A. Zachariah (22221), K. Singh (22222), M.K. (Chopra (22223), BF Antony (22224), D.K. Sharma (22225), A.K. Singh (22227), H.P. Nair (22228), K. Tyagi (22229)—19 December 1997

LGS BRANCH

FG OFFR to be Subs FLT LT

S. Venkatasubramanian (22230), V.S. Shivaraj (22232), A. Singh (22233), K. Apte (22234), R. Bansal (22235), K. Das (22236), R. Kumar (22237), R.K. Mansheramani (22238), Y.K. Singh (22239), P.K. Sinha (22240), S.R. Sahasrasudhe (22241), N.K. Ray (22242), K.K. Harish (22244), A.V.G. Patnaik (22245), A.K. Singh (22246), S. Raj (22247), R.K. Sahdev (22248)—19 December 1997

ACCTS BRANCH

FG OFFR to be Subs. FLT LT

D. Singh (22249), R. Pandey (22250), G. Kumar (22251), N. Bhargava (22252), A. Pokhriyal (22253), M. Singaiah (22254), S. Kumar (22255), A.K. Singh (22256), R.K. Joshi (22257), R. Bhatia (22258) G.D. Dabral (22259), S. Kumar (22260)—19 December 1997

(M.H. Siddiqui)
Sqn. Ldr
ADPO 3 (D)

प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित

एवं प्रकाशन निर्वाहक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1998

